

मन्त्रायमन्त्रमर्थोपपन्नब्धजन्मानोपि नि परुपकजपुजाञ्च न कृद्भजातिप्रभृतिगुणम-
 गिरमणीयतानाजोपि तथात्रिधशास्त्राच्यासवशोपजातजात्यमनिमाहात्म्यापहस्तितवृ-
 हस्पतयोपि त्रिहितोदार्यदाङ्गिण्यप्रियवदत्ताद्यनुपमकृत्यपरपरासपादितमरुद्धमनस्वि-
 मानमन प्रमोदसपदोपि मन्त्रावत एव मदमोहमदिरामदतया मनाकूप्राप्तनिर्वाण-
 पुरपथानुकूळत्रिपयवैराग्या अपि प्राणिन प्रायो जिनोपज्ञानि सकृदकृशद्वारचमूद्भवी
 जानि अत एवाथरीकृतनिधानकामधेनुप्रमुखपदार्थप्रज्ञानाणि दूरसमुत्सारितप्रचुरतरमो-
 हतिमिरप्रसराणयुपदेशपदानि विना न सम्यग्दर्शनादिपरिपूर्णमोक्षमार्गीवतारसारा
 जत्रितुमर्हति

आ जगत्सु खल्वर आयेकमां जमेवा, निर्मळ परजना माफक उज्जळ कुळजाति योगे गुणमणिथी र-
 मणीय रईवा, तथात्रिप गान्धान्यासना यशथी उत्पन्न धर्षवी उत्तम बुद्धिना वत्तथी वृहस्पतिने यण हरस्वनारा,
 आर्त्तार्थे—डाङ्गिण्य—प्रियजापितर योगे अन्नुपम कामोनी परपरा कुराथथी सपत्नी मनस्वि मनष्योना मनने प्रमोद
 आपनाग अने मन्त्रावयीज मोहमन्त्रिणेने ओडो ठक होमाथी निर्माणपुरना मार्गने अनुकूल एवा विपयवैराग्येने
 ताराक प्राप्त थणना प्राणिओपे पण माये जिनेश्वरप्रणीति सकळ कुळज रामना मळरीज रूप अने तेथीज निधान अने
 रामेश्वरु योगे पत्थाना मज्जाने हवका पावनार अने अति आकरा मोहरूप अधकारना जोले र करनार उपदेशना
 पने विना मध्यम र्त्तने योगे परिपूर्ण मोक्षमार्गसा छतरी गतना नथी

अत्रिचित्रादीनां अपि अनादिकानि न विन विनासनामान विषयेण विशेषेण श्री-
 लम्बामनगे न स्त्रैरमव न युमन यद् वदति—मरुद्धो णसुवणसो—युण्डा-
 मरुताय तत्राय परिरमाणा नदा—यस ननु दृष्टियाण तु द्ययथाय
 मन्त्रिणां त्रिभिर्निगुडुडिंशं वान सुरहीनामेधय श्रीहरिचिदमुष्पदेशपद-
 समस प्रकरण विद्वीगुगयेवमानाभिरेयनरोजननिरादकनिदगाप्रागुममाह
 नदिकेन सारुण—त्रिगानाद विग मन्त्रावीर । नोराचोरभिररु—सि
 द्धिभिराचोरैः— ॥ १ ॥ गेनु उवम्म—एत एव ननुवेदोको मुहुमे ।

अत्रिचित्रादीनां अपि अनादिकानि न विन विनासनामान विषयेण विशेषेण श्री-

लम्बामनगे न स्त्रैरमव न युमन यद् वदति—मरुद्धो णसुवणसो—युण्डा-
 मरुताय तत्राय परिरमाणा नदा—यस ननु दृष्टियाण तु द्ययथाय
 मन्त्रिणां त्रिभिर्निगुडुडिंशं वान सुरहीनामेधय श्रीहरिचिदमुष्पदेशपद-
 समस प्रकरण विद्वीगुगयेवमानाभिरेयनरोजननिरादकनिदगाप्रागुममाह
 नदिकेन सारुण—त्रिगानाद विग मन्त्रावीर । नोराचोरभिररु—सि
 द्धिभिराचोरैः— ॥ १ ॥ गेनु उवम्म—एत एव ननुवेदोको मुहुमे ।

अत्रिचित्रादीनां अपि अनादिकानि न विन विनासनामान विषयेण विशेषेण श्री-
 लम्बामनगे न स्त्रैरमव न युमन यद् वदति—मरुद्धो णसुवणसो—युण्डा-
 मरुताय तत्राय परिरमाणा नदा—यस ननु दृष्टियाण तु द्ययथाय
 मन्त्रिणां त्रिभिर्निगुडुडिंशं वान सुरहीनामेधय श्रीहरिचिदमुष्पदेशपद-
 समस प्रकरण विद्वीगुगयेवमानाभिरेयनरोजननिरादकनिदगाप्रागुममाह
 नदिकेन सारुण—त्रिगानाद विग मन्त्रावीर । नोराचोरभिररु—सि
 द्धिभिराचोरैः— ॥ १ ॥ गेनु उवम्म—एत एव ननुवेदोको मुहुमे ।

अत्रिचित्रादीनां अपि अनादिकानि न विन विनासनामान विषयेण विशेषेण श्री-
 लम्बामनगे न स्त्रैरमव न युमन यद् वदति—मरुद्धो णसुवणसो—युण्डा-
 मरुताय तत्राय परिरमाणा नदा—यस ननु दृष्टियाण तु द्ययथाय
 मन्त्रिणां त्रिभिर्निगुडुडिंशं वान सुरहीनामेधय श्रीहरिचिदमुष्पदेशपद-
 समस प्रकरण विद्वीगुगयेवमानाभिरेयनरोजननिरादकनिदगाप्रागुममाह
 नदिकेन सारुण—त्रिगानाद विग मन्त्रावीर । नोराचोरभिररु—सि
 द्धिभिराचोरैः— ॥ १ ॥ गेनु उवम्म—एत एव ननुवेदोको मुहुमे ।

न्ह गन्धार्यमन्त्रमध्योपबन्धजनमानोपि नि पकपकजपुजोज्व ५ कृद्वजातिप्रभृतिगुणाम-
 णिरमणीयताज्ञाजोपि तथात्रिधशास्त्राद्यासशोपजातजात्यमनिमाहात्म्यापह्स्तितवृ-
 हस्पतयोपि निहितोदार्यदाक्षिण्यप्रियवदत्ताद्यनुपमकृत्यपरपरामपादितसकदमनस्वि-
 मानवमन प्रमोदसपदोपि म्वन्नावत एव मदमोहमदिरामदतया मनाकूप्राप्तनिर्वाण-
 पुरपथानुकूलत्रिपयवैराग्या अपि प्राणिन प्रायो जिनेोपज्ञानि सकद्वकृशब्दारजमूद्ववी
 जानि अत एवाथरीकृतनिधानकामधेनुप्रमुखपदार्थप्रज्ञावाणि दूरतमुत्सारितप्रचुरतरमो-
 हतिमिरप्रसराणयुपदेशपदानि त्रिना न सम्यग्दर्शनादिपरिपूर्णमोद्वमार्गावतारसारा

जधितुमर्हति

आ गगत्सु खरखर आयेंदेशमा जन्मेना, निर्मळ पकजना माफक उज्जळ कुळजाति वगेरे गुणमण्ण्यी र-
 मणीय रहेया, तथाकिय शाल्हाच्यासना वशयी उत्पन्न धर्षवी उत्तम बुद्धिना वळयी वृहस्पतिने वण हरवतनारा,
 और्णर्य—गक्षिण्य—प्रियन्नापित्त वगेरे अनुपम वामोनी परपरा करवायी सत्रगा मनस्वि मनुष्योना मनने प्रमोद
 आप्तनाग अने स्वप्नावयीज मोहमदिरानो ओजो ठक होवायी निर्वाणपुरना मार्गने अनुकूल एवा विषयैराग्यने
 जराक मात धरणा प्राणिओ पण गये जिनेभ्रप्रणीत सकळ कुगळ सामना मूळरीज रूप अने तेयीज निधान अने
 वामेधेनु वगेरे पण्योना प्रज्ञाने स्वप्ना पावनार अने अति आहारा मोहूरूप अपकारना जोरने रर कानार उपदेशना
 पणे विना मध्यम न्मने वगेरे परिपूर्ण मोक्षपरिणामा वतरी गगना नवी

इह चाद्यगाथया सकन्धाकुशल्लकज्ञापनिर्मूञ्चोन्मूढकलेन समीहितशास्त्रनिपत्तिहेतुरा-
 दिमग्नसुक, — छितीयया तु प्रेङ्गावत्प्रवृत्त्यर्थं साङ्गादेवोपदेशपदद्वङ्गणमन्निधेय—
 मममतिश्रोतृजनावबोधद्वङ्गणं च प्रयोजनं सामर्थ्याच्चाभिधानान्निधेययोर्वान्यवा-
 चकज्ञावद्वङ्गणं — अन्निधेयप्रयोजनयोश्च साध्यसाधनज्ञावत्स्वज्ञावत् सवध उक्त इति
 समुदायार्थं सप्रत्यवयवार्थं प्रतन्यते — तत्र नाना प्रणम्य प्रशस्तमनोवाक्कायव्या-
 पारगोचरज्ञाप्रमानीयेति यावत् महावीरमित्युत्तरेण योग — कीदृशमित्याह, — ज्ञा-
 गोऽचित्या शक्ति — ततो महान् प्रशस्यो जागो यस्य स तथा त महाज्ञाग ॥

इहां पहेवी गायथी साळा अणिसमूहने मूळथी उगंरनार होइ इच्छिन शाश्वती निपत्तिनु कारण
 अन्वियाळ कळु, — अने वीजी गायामे दुद्विमान् पुण्योनी मटुत्तिना मटे खुद्धी रीते ठपेणपरूप अन्निधेय अने
 मटुमति श्रोताअने अवयव यवा रूप प्रयोजन क्ळां छे. अन्निधान अने अन्निधेयनो वाच्यभावकज्ञार रूप सकय
 तथा अन्निधेय अने प्रयोजननो सायसाधनज्ञाव रूप सवध सामर्थ्यवीज जशावेव छे ए रीते समुदायार्थं छे

हवे अवयवार्थं कहीपेछीये — त्यां नवीने कथे प्रणाम ररीने अर्थात् प्राल भवतानापना व्यापाना
 विषय वनावीने (कोने) महाराजेने, महाराीर केवा छे ? ते कहे छे, — महान् कथे यवाणवा योग नाग कथे अ

महाज्ञाना चाप्य जन्मजनकाच्च एव सद्व्याकुलशक्तशकुलमुरखननाय वामचर-
 णागुष्टकोटिप्रिचट्टिनामरगिरिप्रज्ञात सकृन्वशोत्राशोरिद्याया विशस्थूत्रतासपादनेन, शक्र-
 तृनपरारुमप्रशसाम्निष्णो क्रीन्वव्याजानीतात्मपरिचरस्य स्वस्कधनगनद्वारोपाणा-
 ननरमेवारब्धगगतननोद्धवनरारिऋयत्रुद्धे सुरस्य म्ब्रनिष्टुरमुष्टिष्टुघाताद्बृमिबत्कुञ्ज-
 तारुगोन, समरत्रेनोम्यसाहाय्यनिरपेद्धतया प्रनयानतरमेव द्विव्याथ्यपसगुंसस
 र्गाधिमहनागीसरेण, केनज्ञानज्ञानकाचे चाष्टमहाप्रातिहार्यसपर्योपस्थापनेन,—त
 दनु—आतरतम पटनपाटनपटोयसा समस्तजनमनोहारिणा अत्रितयकथापयस्फी
 निशरिणा जातिजराभरणपट्टारिणा प्रधानाद्धमगधजायाविशेषेण समकाद्धमेव
 भिन्नव्यरुचनगगदिनतुमधयसशोहापोहसमुत्पादनेन स्वविहारपयनप्रसरेण च पच
 त्रिात्रियेचनप्रमाणचतुर्दिग्निजागमहीमननमध्ये सर्वाधिव्याधिरजोराशेरपसारणेन,
 मरुनतुगामुतानिशात्रिशरीरनोदयार्दिगुणग्रामप्रशेन च, त्रिभुवनस्यापि प्रतीति

नीचता कथेयो वसती पशुनागा त्रये नाज्ञ नाणीनी छ — तेषु जत्रात्र वक्त्रे इदनी शफा टाळवा
 रुवा अगुयी देव त्वाची अनेक पशोवल्नी वसीनत विमथुळ कगी,—डे केत प्रशासपी चीररुद्धे म्पतर्पा पो
 शान ट्याने कवाची वनन गायना मने चरुती आसाशरणी यशेन वशान्तर त्वन नेषण वन्नपफक मृत् पाणी वृमि
 मग्वी पुत्र वराय — शाना एव साशरुनो अशेना न गत्वथ त्रीश्र चेशा एत तानत्र टिच्य उयपर्यु महेरा वृत्त
 क्ता,—केशत्र ह न यथा त्पने आउपद्वानात्रिपरं जोगिन यथा,—एत अतना अयशान दूरवत्तार सीना म्पतहन्ना
 एव शशने न गतन न वराय न गने गत्रार यशेगारी जागतव मवराठत अनेक गुणगुणि त्रुभोना यथो
 पत्य गायत विरागो वशेग यत्ररती एर टियाअर्मा मन्त्री प्यधि स्यापि दृग्पी,—अने मयज गुणगुर
 कर्मा मपत्त नात्र धीत्यति गुणा अर्पिकरु एत अत्र कर्मायी ते म्पट्याग हन्त

इह चाद्यगाथया सरुन्नाकुशद्वकक्षापनिर्मुञ्चोन्मूलकत्वेन समीहितशास्त्रनिर्पत्तिहेतुर्ग-
दिमगद्वमुक्त, — द्वितीयया तु प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यर्थं साक्षादेवोपदेशपदद्वङ्गणमन्त्रिधेय—
मदमतिश्रोतृजनवधोधद्वङ्गणं च प्रयोजनं सामर्थ्याच्चाभिधानान्त्रिधेययोर्वान्यवा-
चकजावद्वङ्गणं — अन्त्रिधेयप्रयोजनयोश्च साध्यसाधनजावत्स्वभाव सवध उक्त इति
समुदायार्थं सप्रत्यवयवार्थं प्रतन्यते — तत्र नत्वा प्राणम्य प्रशस्तमनोवाक्कायव्या-
पारगोचरजाग्रमानुषेति यावत् महावीरमित्युत्तरेण योग — कीदृशमित्याह, — ना-
गोऽचित्या शक्ति — ततो महान् प्रशस्यो जागो यस्य स तथा त महाजाग ॥

इहां पदवृत्ती गायत्री साळा अग्निसप्तसृहने मूळधी उगमनार ह्रांइ इन्द्रित शास्त्रनी निपत्तितु साण
आन्पिगत्र कथु, — अने नीजी गायने बुद्धिसान् पुरुषोनी मट्ठिनी रीते उफेणरूप अन्त्रिधेय अने
मपत्ति श्रोताओने अत्रोष यत्र रूप प्रयोजन यत्रां छे अन्त्रिधान अने अन्त्रिधेयो गायत्रारूप सवध
तया अन्त्रिधेय अने प्रयोजनो साध्यसाधनभाव रूप सवध सामर्थ्यजीज जगवेव छे ए रीते समुदायार्थं छे

द्वे अत्रयवार्थं रद्दीयेत्रीये. — त्यां नर्मीने कथे मणाम ररीने अर्थान् प्राल्म मनमानरणना व्यापाना
विषय यवानीने (वोन) महावीरने, महावीर केण छे ? ते रुद्धे छे, — पदान् पत्ते यवाणवा योग जाग कथे अ-
चित्त शक्ति छे त्रैलोक्ये ते महाजाग छे —

महाज्ञाना चास्य जन्मजनमात्रं एव सद्व्याख्याकाङ्क्षमसुखाननाय रामचर-
णागुप्तकोटिप्रियद्विनामरगिरिशशात सकृन्देशनशोभ्याया विशम्भूथतासपाठनेन, शक्र-
दृतपरक्रमप्रशसासट्टिणो क्रीडनय्याज्ञानीनात्मपरिजयस्य स्वरूयनगयदारीपाणा-
ननरसेचारदधगगनतनोक्षधनरारिमायुद्धे सुरस्य यज्जनिष्टुरमुष्टिष्टयथातादृचृमिखलुज-
साकरणेन, सफलत्रैनोभ्यसाहाय्यनिर्गपेक्षतया प्राप्तयानतरमेव द्विव्याप्यूपमगमम-
र्थाधिसहनागीकारेण, केवञ्जाननञ्जकाने चाष्टमहाप्रातिहार्यमर्ष्योपर्यापनन, — न-
दनु — आतरतम पटवपाटनपटीयसा समस्तजनमनोहारिणा अत्रिनयकथापयम्फी-
निकारिणा जातिजराभरणापहारिणा प्रधानार्द्धभागभजायात्रिशेषेण समकान्तमं
मित्त्ररूपनगररादिजलुमशयसदोहापोहसमुखादानेन, स्वविहारपनप्रसरेण च पच-
विशानिरेजनममाणचतुर्दिग्निजागमद्वीमद्वमप्ये मर्माधिव्याधिरनाराशेरपसारणेन,
सकनसुरासुरातिशायिशरीरसौन्दर्यादिगुणग्रामभरणेन च, त्रिभुवनस्यापि प्रतीतिर

नीचमा मेषेषा तपनी मद्राजाता एव जगते जायती ए — वेण जयञ्जय बलने इदानीं संज्ञा गच्छा
दाया अगुयी केन त्वाची अनेक पर्षितेवली जपीनेत विमथ्युठ करी, — डे केत मशमयी चीरदाने मयनया पा
तान हारेयो वचनी तेमत्र योगाना एव चकती आकाशजगी तशरेन उगानार त्वेने तेपणे तक्षणाहा मृदु मारी वृषि
सगुयो गुञ्ज त्वाचो, — ता ता एव साइरती अरेज्ञा न रायश तोका तेषा एव तवत्र त्द्विप उगणमं महेवा कृत
वर्षा, — तेषुठ इत धना त्वेने अउ मद्रासातिहार्य उपरिभव थय, — एव आताना अथातेन दूरवग्नार मौना मनहमनार
एव यतने जगत्तरा न वतरा यागने गत्रा अर्षिवागमी तायवद समहाठठ अनेक मुणमुण्डि तनुओता मर्षये
तात्वे, पालना विद्याधी पवोन यात्राया। तरे त्रिग्यामो मयली आरि ध्याधि दृग्गी, — अने मयज गगसु
कानो पवना गरि सौन्दर्यादि गुणा अपि एव अय रागुयोवी न मद्राजाग हवा

पुनरपि शीघ्रमित्यार, — चांभयंते कमनाश्लोकनोचनमननं केवञ्चिन्निर्दृश्यते य. स
 चोक्तं स च धर्मत्वमनीवपुद्गन्नास्तिश्रयोपन्नञ्चित आकाशदेश — तदुक्तं धर्मा-
 दीना वृत्ति— इन्द्रियाणा जगनि यत्र तत्र क्षेत्र, तैर्द्रव्यै सह श्लोक—स्तच्छिपरीत
 छश्लोकाण्य ॥ १ ॥ इह तु तत्रैरुदेशेषुद्विभिर्मिर्रुदेशभ्रामयद्वेनोक्त इत्युच्यते—
 नतत्रयो श्लोका समाहृताश्चिद्विभोक्त—त्रिद्विभोक्तस्य श्लोकत्रयवर्त्तिनो नव्यजनस्य ना-
 थो, प्राससम्यग्दर्शनादियुणाधानेन प्राप्तयुणाना च तत्तदुपायप्ररूपेण रङ्गाणतो
 योगेन्द्रसकर्ता यस्त त्रिद्विभोक्तानाथ, जिन दुरतरागाद्यतरैर्विचारजेतार, कमित्वाह—
 दुर्गसुराधमसगमकादिक्लृष्टजतुकृतोपसर्गवर्गससर्गेषु अविचञ्चितसम्भतया महान् वृ-
 हद्द्वीर शूरो यस्त महावीर—अपश्चिमतीर्याधीश्वर वर्द्धमाननामानमित्यर्थ ॥

बली ते केवा डे ने वटे डे — केवठ ज्ञान रूप चोचनना वटे कंचलिश्रयो ज जेवाय ते श्लोक छे ते प-
 र्मास्तिशय, अर्धस्तिशय, नीचास्तिशय, अने पुद्गगस्तिशययी जेवा आकाश देश डे जे माटे कहेतु डे के
 " इयां धर्मास्तिशयादिकं द्रव्यो ह्याय ते क्षेत्रं ते द्रव्येनी सांने योक्तं कहेवाप छे अने तेथी निपरीत ते अनोक्त डे
 पण इदां तो तेनो उर्वादिक् एक देश पण गामना जणने पण गाम कहेवाप तेम श्लोक कहेवाप डे तेथी नण श्रो-
 कना नव्यजनेना नाय एने अश्रयंतेना सम्यग्दर्शनादि गुणने पमानार अन पापेया गुणेना ते ते उपाय वतवीने
 रक्षण वानाण पण योगेन्द्रम कर्ता ते, तथा जिन एने छुल रागादिक अतर्वैश्रिने जीननार छे एवां ते कोण छेने
 वेनेडे —अथम मूर मगपक् योगेन्द्र नमुश्रेण वरेत्ता उपसर्गमा पण अविचठ द्विभयत रावनार होवाथी महान् ए-
 न्द्वे वना वीर एने गाम ते पन्वीर एने वं छेम्मा नीधिनि वर्द्धमान स्वामी —

पुनरपि कीदृशमित्याह—ज्ञाक उक्तनङ्गणस्तच्छिपरीतश्रायोक्त --याकानां कयां मृ
गाक इव नेत्रबावोऽर्पुर्मरुचनचडिकाप्राग्नारोण यथाप्रम्यितनस्वरूपप्रकाशनात् त
बांवा नोऽरुमृगाक, तथा पितृभूतेऽतिचनारसित चिरकानन्द कर्म ध्यात निर्दग्ध
शुभप्रधानान्वायेन स निकृतास्तिष्ठ --पिथु गत्यामिति गतां निगृत्ति--स्यातो
चुननाइचुतचृतनिचृतिजाजनतया--पिथु शान्त्रे मागद्ये चेति नचनात्ममस्तवस्तुतो-
मशास्ता विहितमग्न --पिथु सराठो राध माध समिद्धावितिचनार साधिनम
रुनप्रयोजनो वा सिद्धस्त मिष्ठ,--उक्तच--आत सितं येन पुराणकर्म--योऽग गतो-
निर्वृत्तिसौधमूर्ध्नि, ग्यातोऽनुशान्ता परिनिष्ठिताथो--य सोऽस्तु मिष्ठ टनमगत्वो मे

वती ने रेवा छ ने रडे छे --वा,र अने अन्वक्त्यां ररर इान ग् अत्रज्ञाना प्रबं कं वानग्य त्रिज्ञान
नेतु खोक्च न्वरूप प्रकाशिन रगना द्वारायी चरसमान,

तथा “पिथु यथेने” ए धातुपरयी मित ण्ये रितायी याव र्प त यात ण्ये शुक्लः यान रूप अ
त्रिथु शब्दु छे जमण ने निरन्थी मिद्ध वडेवाप ट--अथवा “पिथु गयो” ए यातुपरयी त्रिचिने धमसा के जगने
आश्रयणक विचरिता जगत होवायो मय्यात ग्देवा ने सिद्ध छे--अथवा “पिथु शान्त्रे मागद्ये ए यातुपरयी म
पती चीजाना शान्ता अने एन मगठ ने सिद्ध छे--अथवा “पिथु सगाठो--गगाण ससिद्धां’ ए धातुपरयी मरुत्त
प्रयोन माग्नार ने मिच्छ जाणवा रहनु षण छे के --

नेणे बोधेना तूना कर्म वाट्या छे, अथवा जे निवृत्तिरूप महेनना शिद्धपर ग्या छे, अथवा ज ग्यात छे
अनुशान्ता छे के चरस्य छे ने सिद्ध यने मगटवारी याओ

पुनरपि कीदृशमित्याह,—ज्ञानमते केवलज्ञानोचनवनेन केवलत्रिद्वैतव्यते य स
 श्लोक स च धर्माधर्मजीवपुद्गलज्ञास्तिस्मायोपनञ्जित आकाशदेश —तदुक्त धर्मा-
 शीना वृत्ति—इव्याणा जयति यत्र तत्र क्षेत्र, तैर्भव्यै सह श्लोक—स्तच्छिपरीत
 ह्यश्लोकाग्य ॥ १ ॥ इह तु तदेकदेशोऽप्युद्धादिप्रामिंरुदेशप्रामवदत्रोक्त इत्युच्यते—
 तत्त्वयो श्लोका समाहृतास्त्रिश्लोक—त्रिश्लोकस्य श्लोकत्रयवर्तिनो त्रयजनस्य ना-
 थोऽप्राप्तसम्यग्दर्शनादिगुणाधानेन प्राप्तगुणाना च तत्तदुपलक्षणरूपेण रङ्गणतो
 योगक्षेमकर्ता यस्त त्रिश्लोकनाथ, जिन दुरतरागाद्यतर्धैरिवारजेतार, कमित्याह—
 दुर्गसुराधमसगमकादिद्विद्वुद्धजतुक्तोपसर्गवर्गसर्गोपि अत्रिचित्रितस्मृतया महान् वृ-
 हद्धार शूरो यस्त महावीर—अपश्चिमतीर्याधीश्वर वर्द्धमाननामानमित्यर्थ ॥

बली ते केवा डे ते कहे ठ —केवल ज्ञान रूप श्लोचनना वडे केवलश्रीयो जे ज्ञोपाय ते श्लोक छे ते प-
 र्मान्निस्त्राय, अर्थस्त्रिस्त्राय, जीयास्त्रिस्त्राय, अने पुद्गलशस्त्रिस्त्रायशी चोला आकाश देश डे जे मटे कहेतु छे के
 “ ज्या धर्मास्त्रिस्त्रायान्क टव्यो ह्यो ते क्षेत्र ते त्रयोनी सांथे वंक्त कहेवाय छे अने तेयी विपरीत ते अत्रोक्त डे”
 पण इहा तो तेनो उ-र्गदिक एक देश पण गामना जगने पण गाम कहेवाय तेम श्लोक कहेवाय डे तेयी तल मो-
 कना ज-वजनोना नाय एगने अणयोनना सम्यग्दर्शनादि गुणने पयानवार अने पायेवा गुणेना ते ते उपाय वपारीने
 रङ्गण कगनार एम योगक्षेम कर्ता छे, तया जिन एगने दुलत राणादिक अत्रवैरिओने जीतना छे एवा ते कोण छेने
 कहेडे —अथम सुर सगपक पेण खुद जनुओए कोला उपगर्णभां पण अत्रिचिठ द्विम्यत रावतार होवाथी महान् ए-
 दमे रना पीर एगने शर ते मन्त्रीर एगने के छेसा तीरियनि वर्द्धमान स्वाधी —

गाए ह्य वैवभावोऽपूर्वस्वयनचन्द्रिकाप्रगतेरेण घयाप्रस्थिननरत्नरूपप्रकाशनात् तं
 वाफलोऽसृगाक, तथा पितृभने इतिवचनालित चिराचत्रड इमं ध्यात निवेद्य
 शुक्रव्यधानानज्ञाद्येन स निकृतास्तिष्ठ —पिथु गत्यामिति गनो निवृत्ति—भ्यानो
 चुनान् चुनचृनचिचृतिनाजनतया—विषु शान्त्रे मागट्ये चेति चचनाल्यमस्तस्त्वुम्नो-
 मगास्ता त्रिहितमद्य —विषु सराष्टो राध साध समिद्धाप्रतिवचनात् साधितम-
 कनप्रयोजनो वा सिद्धस्त मिष्ठ,—उक्त च—ध्यात सितयेन पुराणकर्म—यो या गनो-
 निवृत्तिसौधमूर्ध्नि, ग्यातोऽनुशास्ता परिनिष्ठितायो—य सोऽस्तु मिष्ठ तृनमगत्रो मे

क्री ने रेवा ल ने रदे ते —य, र अने अचलया कएठ ज्ञात म् अन्तवासा इकं वानस्य रश्मिरेने
 ननु म्वाधर म्बदप प्रसाशिन कन्मर होत्रापी चरुसमान,

नया “पिथु वने” ए धानुपयी मित लय चिवाट्यी वांन्य इमं त आत लय शुक्ल-पान रूप अ-
 निया वाच्युं ए जमान न निरनधी मिठ रदेवाय छे—अथवा “पितृगया” ए धानुपयी निवृत्ति पपिसा के जगने
 आश्रयैवक चित्तिया ज्ञानन ह्रासयो प्रयाज र्द्वयां ने मिठ छे—अथवा “पिु शोये माणयेव ए धानुपयी म
 पती चीजाना शान्ता अन एन माण न सिद्ध छे—अथवा “पिु सगटौ—गयमा समिद्धौ” ए धानुपयी मन्त
 प्रयाजन गयमा ने मिष्ठ जाणवा कहनु पण उे व —

तण गयेसा चूना र्प चार्ग्यां उ, अथवा ने निवृत्तिरूप महजना शिखरपर गया उ, अथवा न ग्यात छे
 अनशान्ता उे के त्रनृय ल ने मिष्ठ पने माणकरी यात्रा

तथा सिद्ध प्रमाणवतोपलब्धात्मतत्त्व उपदेशस्य प्रवचनस्याग्र जावज्जीवाद्गुरुपाऽ-
 न्निधेयविशेषो यस्य स तथा—अथवासिद्ध सकलक्षेशविनिर्मुक्तोजीवविशेष स एवोपदेश-
 स्याज्ञाया अर्थ प्रयोजन यस्य स तथा—जगदज्ञाया मोक्षैकफलत्वेन परमर्षिञ्च
 प्रतिपादितत्वा—दत्तस्त सिद्धोपदेशार्थ अत्र च विशेषणवाहुद्वय अज्ञातज्ञापनफल-
 मेवोक्त, न पुनर्व्यवच्छेदार्थ,—यथा कृष्णोन्नमर शुक्ला बलाका इत्यादीत्रेति बद्ध्येऽन्नि-
 धास्ये—किमित्याह—उपदेशपदानि—इह सकललोकपुरुषायेषु मोक्ष एव प्रधान
 पुरुषार्थ इति तस्यैव मतिमतामुपेष्टुमर्हत्वेन तदुपदेशानामेव ज्ञावत उपदेशत्वसाम-
 नति—तत उपदेशाना मोक्षमार्गविषयाणा शिक्षाविशेषाणा पदानि स्थानानि मनु-
 व्यजन्मदुर्जनत्वादीनि, यथा उपदेशा एव पदानि वचनानि उपदेशपदानि तानि

बली प्रमाण बलधी सिद्ध ष्यो वे जेना उपदेशनो एष्टवे प्रवचननो जोगजीवादि रूप अर्थ जेनो ते सि-
 ष्टोपदेशार्थ कहेबाथ—अथवा सिद्ध एष्टने सकलक्षेशरहित जीव तेज जना उपदेश एष्टने ब्राह्मनो अर्थ एष्टवे प्र-
 योजन वे ते सिष्टोपदेशार्थ जणवा वेमके जगजाननी ब्राह्मन् फल एष्टनो मोक्ष जे एम परमर्षिओए तहेवु छे

इहां जाग विशेषणो अजाणयोन जणवावा खातर जे, नहिंके व्यवच्छेद मोरे,—जेमके काओ जमरो थोत्री
 बगनी—इत्यादि माफक

उपदेशना एते कह्यीश. एया सधला पुरपाथोमा मोक्ष ज प्रधान छे तेथी बुद्धियानोए तेनो ज उपेष्टन करवो
 योग द्वेवाधी ते मयरी उपेष्टननिज जाणवी उपेष्टशपणु यहे छे, तेथी उपेष्टनो एष्टने मोक्ष मार्ग मंकारी जिकाओना
 एते एष्टने मरुत्पत्तव दुर्जन वे इत्यादि एते, अथवा उपेष्टनो एष्टन एते जे वचनो ते उपेष्टनो जे जाणवा

कृतिचित्स्वप्नानि सूत्रतोऽर्थतस्त्वपरिमाणानि—सर्वसूत्राणामनतार्थान्निधायकत्वेन वा
 रगतगद्वितागमे प्रतिपादनात् तथा चार्थ—सन्नर्तण जाहुञ्ज—वाच्यया स्वयव-
 दहिज तोय । एतो अणुतगुणियो—अरयो मुचम्म एक्कम्म । कय पडुये उवाह तस्य
 महात्तागादिगुणतजनस्य जगततो महातीगम्योपेदेजास्तदुपेदेशाम्नेन्यस्तदुपेदेज-
 त महातीरागमानुसारेणस्यर्थ — स्वातन्त्र्येण उद्वस्यम्योपेदेशदानानधिकारित्वान्
 कीदृशानीत्याह—सूत्रमाणि सूत्रमार्थप्रतिपादकत्वात् कुशाग्रबुद्धिगम्यानि, अतएव
 ज्ञायार्थेऽर्थस्य तदेव सार पदयाम्यसहजाभ्यायेंयु म ये प्रधान तेन गुक्तानि तावा
 र्थसारयुक्तानि

येत्रार एव सूत्रधी ज्ञाना राधी अर्थवा तो अर्थवित्—एवमे एव सूत्रो उक्ता अर्थना रहना ३
 एव परिकल्पणीत आगममा कथ्युं तुय कर्णियास्यु आ रीते ३ —

सर्वे ननीओती एतनी गानुसा उता सर्वे समुत्तेलु म्पु पाणी उ तनामी अननगणे एव सूत्रनो अर्थ ३
 वेम वद्वीश त वदु उ —त महात्तागादिगुणज्ञान उगवाप मद्वातीरना उपेनेने अनुसर्तते, एमरे मन्तर
 एण उदम्यन टपन्ना एतनो अर्थिसार नरो

एव सर्वे ते एव —सूत्रप एव के सूत्र्य अर्थना ज्ञानान्तर देवायी कुशाग्र बुद्धिधी ज्ञाना शोरे एवा,
 अत्र नधीत नाकार्य एते अर्थस्य (नादर्थ्य) तेन इत्यर्थ, अर्थस्य, वि मन्तात्त्वार्थमां सार एतेन यान गणय ३
 एण कर्तते युन ॥१॥

जावार्थश्च “एयपुणएवखु” — इत्यादिना वदयते किमर्थमित्याह — मदा जना संशयविपर्ययान्ध्रवसायविपन्नवोपेता तत्त्वप्रतीति प्रति मतिर्बुद्धिर्येषा ते तथा — तेषां विवोधन सशयादिवोधदोषापोहेन परमार्थप्रकाशन तदेवार्थ प्रयोजनं यत्र ज्ञानेन तन्मदमतिविवोधनार्थं — क्रियाविशेषणमेतत् अथ पदेषुपदेशपदेषु सर्वप्रधानमुपदेशपदं तदन्निधित्सुराह, —

लक्ष्ण माणुसत्तं — कहचि अइडुह्वह जवसमुदे । सम्म निजजियव्व — कुशलेहि सयात्रि धम्ममि ॥ ३ ॥

लब्ध्या समुपलभ्य मानुपत्व मनुजजावद्ग्राण कथचित्केनापि प्रकारेण तनुकपायत्वान्दिनाध्यवसायविशेषणेत्यर्थः — यदनाचि

चावार्थनु स्वरुप “एय पुण एव खु” ए वगरे गाथात्रोथी ग्राहल कहेवामां आशे

ज्ञामाटे कहीश ते कहेडे — तत्तनी प्रतीति प्रते मद् एटने सशय विपर्यय, अने अन्धपरसायनी गरुवद्वाली जद बुद्धि छे जेमनी तेवा मद्मतिओनु विवोधन एटने सशयादिक दोष गळीने तेमने परमार्थ ज्ञानवो तेना अर्थे एटने प्रयाजने आ क्रिया विशेषण छे

हवे ए उपदेशना पणेमा जे सौथी प्रधान उपदेशपद छे ते कहे छे

आ जवमण्डमां अति दुर्ज्ञान मनुष्यपणु चोद पण रीते पामी करीने कुण्ठ पुण्णोण हुमेशां धर्ममां उद्यम करवो ३

मानुपत्व एटने मनुजपणु चोद पण प्रकारे करी एटने के अद्वयरुपाय वगरे आःपवसाय विशेषे करीने मळीने एटने पामीने — ते भाव कहेके छे के ।

पर्यङ्क तण्डुलसाओ—शण्डाओ सीनमजमविहूणो । मण्डिमण्डि जुता—माण्या-
 उ वधम जीमो ॥१॥ अतिदुर्जन्मतीन्दुराप यदयमांगोरेय चोत्तममद्विनिर्गतित्तममुडे
 अनेकरजात्यतरनीरजराकीर्णं स्तनार्कूपारे ससारार्कूपारे, किमित्याह—सम्पद् भ्या-
 स्योचितानुष्ठानारज्जुपसगतज्ञानयुक्त यथा नमति एव नियोक्तव्य मनोयाक्रायनाम-
 ध्यांगोपनेन व्यापारणीय कुशलेरज्ञानादिदोषप्रसूतचनकनाकनापकक्षिते मनिमद्-
 क्षि पुन्निरित्यर्थ—सदापि वाङ्मयुक्त्यादिसर्गोत्पत्त्याव्याप्त्या सर्गकालमेव, धर्मं श्रुत-
 चारित्र्यवृत्तके जिनप्रणीते, एतएव पठयते वाङ्मय एव चरेद्धर्म—मनित्य एव जीवित्त ।
 कनानामिन पम्बाना—शश्वत् पतनतो जय ॥ १ ॥

सन्नाप पातग वगायचलो शीतस्यस्परहित जना नमपराएण एव म म गुगान् जीव मनुपवु आयु

वधि छे

ने चद्रप्याग चोद्यनादिक दृष्टतेषी अनेक जातिरुप नीरवी जरण्वांवा मकार मद्रुप्या अति दुर्जन छे
 मां ते पामीने शु वरु ते वहे छे —सम्पक एष्ये योतानी अवरयाने वति अन्नुत्तन वत्वा म सगनावमी नेने कु-
 शल एष्ये अज्ञानादि दोषने जेतवामां सोवत् वजवान् बुद्धिमान् जतोए ह्येषां एतेन वाजग म्भां बुधानी गेरे स
 पत्नी अवसयाश्रोमां भुत्वास्ति रूप जिनप्रणीति धर्मसां मन वान् वापनु गाम्भ्यं बुपव्या म्भ वापनु जे मां कहे
 वाप छे के—

वाङ्मय एव पठयते वाङ्मय एव चरेद्धर्म—मनित्य एव जीवित्त । कनानामिन पम्बाना—शश्वत् पतनतो जय ॥ १ ॥

जय रहे छे ।

अशुद्धह च एय—चोद्द्वगपमुहेहि अत्रय समयमि, जणिय दिछतेहि—अह-
मत्रि ते सपत्रिमखामि ॥ ४ ॥

अतिदुर्जनचातिडुरापमेव एतन्मानुपत्य चोद्द्वकप्रमुखैरनतरमेव व्याख्यास्यमा-
नेदंश्चिरत्रार्हते समये सिद्धाते जणित निरूपित वर्तते दृष्टातैरुदाहरणे—यदि नामैव
तत किमित्याह अहमपि कर्त्ता—न केवल पूर्वैरेयोका इत्यादिशब्दार्थ—तान् चो-
द्द्वकादिदृष्टातान् सप्रमद्वयामि जगवद्भजन्वाहुस्वामिजणितानुसारसागत्येन प्रतिपाद-
यिष्यामि

आत्मे, माने, के पस्मन्नि पादेना फळनी साफक पम्नार शरीरानो ट्युमारो सनळाशे २

मनुष्यजन्म दुर्बलपणुज कहे छे—

नेन सिद्धातमा चोद्द्वक रंगेरे दृष्टातार्थी ए मनुष्यपणु अनिदुर्जन मरेधु वे, तेथी हु पग ते गत्वो रु-
दीश ४

अति दुर्जन एट्ये अति मुग्धनीथी पमाय छे आ एने मनुष्यपणु चोद्द्वक रंगेरे हरे तरतया रङ्गेयामो आ-
रनाग यश दृष्टानेथी तम आ समयमा पन्नेनेन सिद्धातमा मरेधु ने

उपारे पम वे त्यारे हु आ ग्रथनो र्त्ता पण—(नदिने पत्त पर्त्ताचार्याज कर्त्ता गया दे—) ते चोद्द्वक-

॥ २२ ॥ ननु पूर्वैरेयोपदेशपदानामुक्तत्वात् किं ज्ञवत विष्टपेवणप्रायेण तद्दुर्जणनेन प्रयो-
जनमिति ?

ननु पूर्वरेतोपदेश्यदानामुक्तत्वात् किं ज्ञात विष्टेपाणाप्रयोगेण तद्दृग्गणनेन प्रयो-
जनमिति ?

उच्यते—पूर्वस्तस्माद्भ्रात्रिण प्रौढमज्ञान श्रोतृन् स्वयमेव ज्ञानार्थप्रतिप-
त्तिस्त्वानपेक्ष्य ज्ञानार्थाविररणानादरेण नोपदेशप्राणयनमकारि—सप्रति तु तुञ्जमु-
चि श्रोतृज्ञोक्तो न स्वयमेव ज्ञानार्थममोक्तु क्लमते इति तत्तनुप्रवृत्तिया नानार्थसाम्य-
क्तोपदेशपदप्रणयन प्रस्तुतमिति

चोद्धकादिदृष्टतात्पेनाह—चोद्धगपासगधाणो—जुग रयणे य मुमिणचक्रे य,।
चम्मजुगे परमाणू—इस विद्वता मणुयइत्रे ५

एता चोह एम प्रभों के ठपेक्षना पणे तो पूर्वं पुण्येन वदुहात छे, तो एती पीमिधान पीमरा माफक
नमार ते वहेवानु शु नयोजन छे

एतो ज्ञात्र ए छे के, पूर्वं पुण्येण ते बाले रवेद्या म्ण युद्धिवाला मौनरुनागत्रो के त्रेत्रो पाननी मंत्रेन
नार्थ समती शक त्पेना खात ज्ञात्रिये खावरा एण उपदेश र्मेस त्रे, एण ह्यपयाना तुञ्ज बुद्धि त्रेलकला पानतो
ज्ञानार्थ समती शके त्पे नथी, तेवी तेननपर अजुप्रव बुद्धि नाती ज्ञानार्थना मारमद्विन ठपेक्ष पणे तरेपाने ए
कयो छे

चोद्धक विगो दृष्टानेन वंदे छे

चोद्धक, पातक, धान्य, धृत, रत्न, सप्त, चक्र, चर्म, युग, अने एमणुओ, ए एण श्रुत मनुष्यजन
पासालो प्रयाय छे ५

नि च (७), मन्मथ चक्र चेति मन्मथकं (६—७), च समुच्चयं, चमं च युग
 चेति त्रिसंयुगे (०—७), पदैकदेशेपि पदसमुदायोपचारादिह युगशब्देन युगसमि-
 झे एष्यते, परमाणु (१०),—अस्मी दशमग्या दृष्ट प्रमाणोपलब्धमर्थं मनुजल-
 दुर्बलत्वादिसङ्गणमत श्रोतु प्रतीतिपथ नयतीति दृष्टता मनुजज्ञेने मानुष्यप्राप्ता-

वित्पथं—

दृष्टातज्ञानना चैन कार्या

चोदयक, वे पासा, अने जूनी जूनी ज्ञानना धान्यो—ए मण-दहा धान्यो तथा छात्रां प्राकृतज्ञानना कारणे
 पत्रचरमधीन ते वनाल्या छे एम बीजा स्यठे पण सपमनु चोयु जुगाए, पाचभा रत्नो, छट्टु स्वध, सातमु चरु, चकार
 मनुक्यावै छे, आठमु चैप अने नवमु युग एवंचे पढ़ना एरु न्युथी आत्मी पदसमुदाय वेता दहा युग शब्दे करी युग
 एवच धूमरीनी रे मर्मेवां चरी, अने दशभा पामाणुओ—एव ए दश दृष्टानो एतेने प्रमाणने जाणुयाभा आवता मनुष्य
 ज्ञेव दुर्बलत्वात्किंच अर्थने अस्मि एवंचे के मातळ्माली खत्रीए सांचे ते दृष्टानो मनुष्यत्तच पापसायां छे,

— एतान्तेनी ज्ञानना आ रीते कर्त्तवी

जीवो मानुष्य सत्त्व्या पुनस्तदेव कुर्वेन सत्त्व्यत इति प्रतिज्ञा अष्टत-
 धर्मत्वे सति बद्धतरायात्तरित्तयादिति हेतु

चोद्धकश्च पाशकौ च धान्यानि चेति चोद्धकपाशाकधान्यानि—वन्नत्यं क्वचन-
निर्देश प्राकृतत्वात्—एतस्यत्रापि (३), द्यूतं प्रतीतमेव, (४), रत्ना-
नि च (५), स्वप्नश्च चक्रु चेति स्वप्नचक्रे (६—७), च समुच्चये, चर्म च युग
चेति चर्मयुगे (८—९), पदैकदेशेपि पदसमुदायोपचारादिह युगशब्देन युगसमि-
झे एह्येते, परमाणव (१०),—अग्नी दशसख्या दृष्ट प्रमाणोपबन्धमर्थं मनुजत्व-
दुर्लभत्वाद्विद्वज्ज्ञानमत श्रोतु प्रतीतिपथ नयतीति दृष्टता मनुजद्वजे मानुष्यप्राप्ता-

वित्यर्थ—

दृष्टतश्चानना चैव कार्या

चोद्धक, वे पासा, अग्ने जूही जूनी अतना धान्यो—ए तण-इहा धान्यो यथा छायां माकृतानापाना कारणे
एवचनथीज ने माव्या रे एम यीजा स्यठे पण समजतु चोशु जुगार, पावमा रत्नो, छतु र्पात्र, सातमु तरु, चकार
समुच्चयार्थ रे, आशु चर्म अग्ने नयमु युग एते पदना एक त्पथी आत्वो पदसमुदाय द्वेता इहा युग शब्दे रूरी युग
एतेव गुरोनी रे समेनो वेनी, अग्ने दशमा पामाणुत्रो—अम ए त्थ दृष्टतो एतेन नमाणुत्रे माद्यथां प्राप्ता मनुष्य
नच दुर्लभत्वात्स्मिन् अर्थेने अतपर एतेव के सात्रजनानी त्वानीपर वागे ते दृष्टतो मनुष्यनय पापमां छे,

- दुर्लभत्वेनी नावना अर रीति कर्त्वी

जीवो मानुष्य इत्या पुनस्त्वेव इत्येत इत्यस्य इति प्रतिज्ञा अदृश-
धर्मतो मति बह्वतरायातरित्वादिति हेतु

यथद्विदुभिरतरोर्यतरित तत्तत पुनर्दु मेन अस्यते, — ब्रह्मदत्तचक्रमर्त्तिभिन्म्य
नाह्मणस्यैकदा चक्रवर्त्तिणहे प्राप्तौजनस्य सकञ्जभरतङ्केत्रास्तव्यराजाडिञ्चोकरद्वप
र्थमने पुनश्चक्रवर्त्तिणहे चोद्गकारनामजोवनवत, ॥ १ ॥ चाणाम्यपाशरुपातयत, ॥
७ ॥ भरतङ्केत्रसर्धान्यमध्यप्रङ्कितससर्वपस्थपुनर्मिञ्चकयत, ॥ ३ ॥—अष्टाधिमस्तजश-
नाष्टोत्तराश्रिशताष्टसमर्गजशताराणिरतरच्युतजययत, ॥ ४ ॥ महाश्रेष्ठिपुत्रनाना-
णिश्चेदशानिकीतरत्नसमाहारवत, ॥ ५ ॥

नीय मनुपनव पयोनि फरीत त जच मुक्केन्नीए पांसे ले ष प्रतिज्ञा एते अापणी मा प वान रे, यां हेतु
० ३ के, यरे न कीम हावायो त्या वशा अमणय प्राची पक ले आ उपणी एवी मापि षः शके ले के —
ने च गतु अतगपशष्ट ह्येय ते ते दु मे पमाए —त्रमन्व चत्रवर्तितो मित्र ताम्पण रत्रर्त्तिन रर
नवीन एनी आवा चलेशेनपा रहनार रानात्तिक क्षोरेला यरे जम्य वाः एगीने चत्रर्त्तिना यरे चर के जोन
नर तनी माफक ॥ २ ॥ गायतपभा पामने जीववा माफक ॥ ७ ॥ चलेशेनना सपञ्ज थाः यं यं सारसनी
पाता चेरीन ते पाणी तूनी पास्वी तेली माफक ॥ ३ ॥ एकसो आठ थाजना—अरेक थाःने एकसो आठ
गुणा, अन एके गृणे एकसो आठ यार मितापय गुण म्यता जीत मन्ववी तेली माफक ॥ ४ ॥ नेजना
पुं गृना तूना देशना पैशीकाने वयसा म्ना एगीन एरुवा रवा तनी माफक ॥ ५ ॥

महाराज्यध्वानस्वप्नदर्शनाकाशिस्रज्जकार्षटिकतादृशस्वप्नज्ञानम् ॥ ६ ॥ मन्त्रिदोह्वित-
 राजसुतसुरैर्दृष्टतादृचकारकपरिस्तातिस्तिराधामेधम् ॥ ७ ॥ एरुडिउच्चमहवर्मा-
 वनञ्चमहाद्वसञ्चूतकञ्जप्रीमानुप्रेमेशोपद्व्यधुनस्तच्चिद्व्यञ्जयत् ॥ ८ ॥ महात्ममु-
 द्रमध्येधिघटितपूर्वापरातत्रिङ्गिसयुगे समिज्ञास्वयञ्चिदानुप्रेमेशयत् ॥ ९ ॥ अननपर-
 माणुसघातघटितेवमसचूर्णितचिकतपरमाणुसमाहारजन्यस्तनमखा, ॥ १० ॥—

इति दृष्टता

अनेक जाल्यतरमाप्तिद्वक्षणमहतरापातरित च मानुष्य जनोत्पुनय. तन्मादुरागमिति

निगमनमिति

मोड गज्य मय्यु एव स्वप्न मोह परीने तेषु मय्य जेता इच्छाः घादीनेने मया मया मया येनो
 मायक ॥ ६ ॥ मन्त्रिना लोहिन राजपुषार गुंष्टते अत्र चद्वयः कथा आगवावी गगन पारीनी मया मया मया
 मायक ॥ ७ ॥ एकज राणायाय भाग चापदाशो मरेवा योग्य मयो मयेवा द. मारी द्या मरे मया मया
 मयने परीन ते छिद्र तने मळे ते मायक ॥ ८ ॥ माय मय्युदस मयि मियरे मारी मयेपो मयि मयि मया
 अने पशिम मिनारे मारी नामी होप तेष मयो मयनी मय मयेको मयि मयि मया मया मया
 पाषाणुना सगानवी मयेको मयि मयि मये मये मये मये मये मये मये मये मये मये मये मये मये

अथैतानेव दृष्टातामिस्तस्मै क्रमेण नाययन्नाह
 चोह्वनि चोयणमनदत्तपरिवारचारहृदामि, सयमेव पुणो दुन्नह — नह नरय,
 तद्देव्य मणुयत्त ॥ ६ ॥

मायाजागार्यं कथानकादत्रमेयस्तथेन —

अथि इह नरहयासे—दाष्टिणजरदन्तमजगन्मि, निचममपित्रपर—नया
 द्वि कपिह्वनामपुर ॥ १ ॥ सुदृष्टासीनेण धामेण—चूरिणा चट्टूहमाह्वयो मुमिण
 त्रि जस्य न कुण्ड—परदारान्तेयण चोगो ॥ ७ ॥ नमिगन्नामयजननी—पि-
 यथओ थिरमहीरचित्तो य, अक्षपत्री पञ्जरजो—जायपमोओ मया जमड ॥ ३ ॥
 भाट ते दुर्जन ते ए निगण जगणुं

द्वे पञ्च दृष्टानि विन्नास्यी अनुग्रमे गृही यो ३

चोद्यन् एव चोगन त त्रस्तन्ना (माग परिगार तथा जगन्नेना (गणा) नना (सत्त्वतु देवायी)
 परीने चरचित्ता ये मयु दुर्जन ते, तम इहा मनुयणु ते ६

मायानो जागार्यं सयानस्यी समजानो ते, ते स्थानक ते —


आ चारुसर्पमां नक्षिण जगतादेना मय ररुमा दुःखमनोना जयथी ह्वेशां त्रस्य (अरुग) रद्वतु मपि
 व्यपुर नामे नगर हतु ? पत्रि ग्रीठ अने पुत्रक धनथी अतिगय मोगड पापेना त्याना वोक्रे स्तमां पण परसी
 तरफ नय नही कस्तां २ त्यां नक्षिणस्य अमुनना दसियासमान, भीतु मोननरा, अरुग अने ठमा मनवाजा पुत्रक
 माणसो ह्वेशां हर्षथी वसता हता ३ जे गृहेस्त्री अदर सारी जातिमाडी, अति मनोहर, अति चयस्ना तिनकाडी

महाराज्यज्ञानस्वप्नदर्शनाकाक्षिस्वप्नकार्षटिकतादृशस्वप्नज्ञानवत्, ॥ ६ ॥ मन्त्रिदोहित-
 राजसुतसुरैर्दृष्टत्तादृचकारकपरिचर्तितरितराधनेधवत्, ॥ ७ ॥ एकन्त्रिज्जमहचर्मा-
 वनछमद्वादसभूतभूतप्रप्रीमानुप्रवेशोपद्वन्धपुनस्तच्छिद्वज्ञानवत्, ॥ ८ ॥ महासमु-
 द्रमध्येविषदितपूर्वापरातत्रिङ्गिसयुगे समिद्धास्वयञ्जिद्वानुप्रवेशवत्, ॥ ९ ॥ अनतपर-
 माणुसघातघटितदेवसचूर्णितविजक्ततपरमाणुसमाहारजन्यस्तन्नवत्, ॥ १० ॥—

इति दृष्टता

अनेक जात्यतरप्राप्तिद्वक्षणवह्वतरायातरित च मानुषस्य जन्मस्युपनय तस्माद्दुरायमिति
 निगमनमिति

मोट रात्र्य मय्यु पवु स्वप्न जोड फरीने तेंतु स्वप्न जोया इच्छनाः कावनीने तेंतु स्वप्न फरीने आरे तेंती
 माफक्त ॥ ६ ॥ मन्त्रिना नेहिय राजकुमार गुंटेचे अत्र चक्रना फला आरापायी राया पूतळीनी आग्य तपी तेंती
 माफक्त ॥ ७ ॥ एकत्र राणावाज्य भाग चापनायो दाकेना पोय तणां रडेवा कायनी सोऽ ते मणामां पेगी ग-
 एत्ने फरीन ते छिद्र तने मळे त माफक्त ॥ ८ ॥ माग समुद्रमा पूर किनारे म्परीनी समेतो ज्डी करीने नागी ह्योप
 अने पश्चिम किनारे म्परी नागी ह्योप तेम छलां पोतानी मळे तेओ ित्रियां दावस थाय ते माफक्त ॥ ९ ॥ अने अनार
 परमाणुना सत्तावधी रनेवो थांतवो रोड तेवता चरेचुरो करीने तेया परमाणु चंग म्परी नावे ते पाय परजा घडेने



अर्थज्ञानेन उद्यातायित्वात्तत्र त्रमेण वापयन्तः

चोत्रनि चोपणयन्तत्तरिवात्ताह=पमि मयमेव पुनो दु=२ — १२ ११
 नरेत्य मणुयत् ॥ २ ॥

गायत्र्याचार्यं स्यात्सत्परायणं=ज्ञेयं —

अत्रिय इह जगद्वेदे—यद्विष्णुजगद्वेदम=यत्पुत्रमि निवन्तपरिवात्—रगा-
 द्वि कपिष्णुनामपुर ॥ १ ॥ मुद्गणाम्बिण धामेण—उरुणिणा यदुत्तुमाद्वयो मुमिणे
 वि जस्य न कुण्ट—परदागनेपण नेगो ॥ ७ ॥ उरुिवासागरनदी—दि
 यश्चो शिरगहीरचिनो य अदपउरी पउरगाणे—चापयमात्रो मता यमद ॥ ३ ॥


धो न दु=२ जे ए निष्पत्त ज्ञानं

एव पत्र द्यागत विभाषयी अनुग्रह कही वत्त २

चाप्य ष्वय ज्ञानेन न उद्वयनना (मय पश्चिार नवा जगत्तना (रगा) उदय (रगतनु उपाययी)
 परनि चरचितना परे मय्य दु=२ जे न्य इहा मनुयस्य ७ ३

गायत्रो चारोयं स्यात्परायणी मयजज्ञानां छे, ने स्यात्क ३ —

आ चाप्यर्थयो दक्षिण जगद्वेदेना मय यदयां दु=२मनेना जगयी हृदयां अरगा (प्रदय) इदुं सति-
 ल्यपुर नये नगर इदु १ पवित्र गीठ अत्र पुस्तक धनयी अत्रिय मंगः यमेवा गीना मोमे मन्ना ११ जगयी
 ताफ नय नही वस्तां २ तयो दक्षिण्यल्य अफ्रजना दसियायान, मीतु यज्ञानाग, प्रदय अने एवा मन्नाग पुस्तक
 माणसो हृदयेषां हृदयेषी वपना इवा ३ जे गृहेस्ती अदर गारी यानियाडी, प्रति स्नोदर अत्रि १११११ निष्पत्तयी



सजाईओ सुमणोहराउ अक्षरारतिद्वयकद्वियाओ, पुत्रागसंगसुगया—रमणिजपयो-
 हराओ य ॥ ४ ॥ सञ्जायाओ सुत्रओजुयाल सरलाउ सुरहिगंथाओ, जलयं तो री-
 माओ—चद्विया आरामपतीओ ॥ ५ ॥ उज्जसुवन्नतारून्धयाल पारद्धडुकरवयाओ,
 लन्डीउ जत्य सज्जणगिहेसु विह्वगणाओ य ॥ ६ ॥—अविय, जत्य जिणमदिरोव-
 रि—घणपणपणोद्वियापनायाओ, रेहति व धम्मियजणकित्तिओ सगचद्वियाओ ॥
 ७ ॥ त च अण्णेगच्छेरयसार पात्तेइ विउद्ववद्वकद्वियाओ, इमलागुवससहो—चज्जो-
 नामेण नरनाहो ॥ ८ ॥ अट्टपीवरेहि अइदीहरेहि कथवि अपतत्तोठेहि, जस्त गुणे-
 हि व गुणेहि दामिया सइधिरा दच्छी ॥ ए ॥ सामेण य देहेण य—नेएण उ-

उमग माणखने परखेनी, रमणीय स्ननात्री, सारी कतिवाळी, सारी वयाळी, सफल अने शरारे मुगधयी वहेकती
 वीओ हत, तेमन जे शहेरना वाहेर जायना वेनायाळी, फनेयी जरण, अति मोट्ट तिनक नामना ऊफवाळी, पुत्रा
 नामना जानेयी शोचती, मुदर फुनारावाळी, सारी छयावाळी, सारा पद्विओयाळी, सरल हारोयाळी, सुगयी वहेकती
 यानीओ हती ४-५ ज्या सारा दोसोना योसा विना स्त्रीओ उमत्री कति अन यौवनवाळी त्रा दुष्कर तत पाळती
 अने लक्ष्मीओ पण उमत्रा सोना अने रपना दगनाएरे रहिने (स्थिर रहेयाए) दुष्कर तत पाळती ६ वत्री ज्या
 जिनमन्निना उर तोफानी पवनथी उमती धनाओ जाणे धार्मिक दोसोनी कीतिओ स्वयं जती न होय तेनी नागी
 ७ ते अनेच आश्रयांयी जरेना नगरने भोग वइका माओ इत्याकाशने वएषा ब्रह्म नामे राजा पाळतो हलो ८ जे रा-

न्ययाणकरणेण, अमसरपत्तेण जसो—जेण पत्रियारित्रो दूर ॥ १० ॥ तम्मुञ्ज-
 रुरिउज्जनकोत्थिरुणउज्जनकियपुरिसकरस्त, बहुपणयरयाणयाणी—जुनणीनामा य
 आसि पिया ॥ ११ ॥ अत्तयिसु तस्स भित्ता—निक्कित्तिममिप्रिजापसजुत्ता, चउगे
 चउराणणचउरवुद्धिकत्तिया महीपात्ता ॥ १२ ॥ कासीणाहो कडओ—ऊणरुद्धत्तो
 य गयउराहिर्मई, कोसज्जसामी दीदो—चपापहु पुल्फूचूत्तो ति ॥ १३ ॥ निरज्जरज्ज-
 चित्ताधुरधरो तह धणू नहामच्चो,—पुत्तो तस्स उरचणू—धणिय कद्धिओ पिउगुणे-
 हि ॥ १४ ॥ ते पचति रायाणो—उत्ताईया परुद्धपाणयत्ता, तिरह अणिउत्तमाणा
 —उरोप्परण मत्ताणिसु ॥ १५ ॥ पत्तेय पत्तेय—पचसु रज्जेसु उरिस मेक्क, नियपरिमा-
 रुणुण्हि—जुगम चिय सउत्तेयव्व ॥ १६ ॥ नोत्तीणमि य कात्ते—केउदण दूर मुगाणय-

मुत्तयेनी कंर मरुनार ते रागनी बहु मेणय रननी म्वाणसपान सुज्जणी नोमे प्रिया द्दती ११ तेर म्बरी मंत्रीराज
 अने चतुर्मुग धवानी माफक चोर बुद्धियो शोचता चार राजाओ मिय द्दना—एक वरसीपति सरराग, राजोगज्जुनो
 यणी कणेरुद्ध, राजे कोसज्जेदेशेना पणी दीयि, अने चोपे चयानो धयी पुल्फूचूत्त १२—१ तेने योगवी रीने राजप-
 निनामा मरागुज्ज पडु नोमे सोने अमाल्य हुत्ते अने ते अपारपनो तेना म जेवा गुणराओ वरपडु नोमे पुत्र हुवो १४
 मस विरे ते पचि राजाओ जामेही मीनिने योगे एक्कीजाना विरहने नही इउत्ता यम अस्सरस
 आई व्हेवा लाग्या १५ अपण त्तेके पावे राज्येमा एलेक वर सारिवार मयेंन रद्दवुं १६
 आ रीते उर मन्थी बहु पुण्णे पापी उक्कय एउ सोणमुव नोणत्ता यमा तेपने सविताउ पमार यवा

— नोगमुदं नृजगणाणां ॥ १७ ॥ अहं अन्नया कर्थाई—
 नृणां, नृणाणां वाचिनिर्ज— नोगमुदं नृजगणाणां ॥ १७ ॥ अहं अन्नया कर्थाई—
 नृणां, नृणाणां वाचिनिर्ज— नोगमुदं नृजगणाणां ॥ १७ ॥ अहं अन्नया कर्थाई—
 नृणां, नृणाणां वाचिनिर्ज— नोगमुदं नृजगणाणां ॥ १७ ॥ अहं अन्नया कर्थाई—

अथाग्निनिर्णो— निव्यविगाणां यगाग्यसिंहिणो (१)
 नगणाग्रेण पशुद्या— सा मुद्या कद्वइ वन्नरयइणो, जह सामि सपइ मए—
 नउदस गुग्निगा द्रो पिद्या ॥ १ए ॥ राया रजियदियत्रो— धाराहयनीयकुसुमसम
 पुसत्रो, कुक्षिरीपल्यणो— नणइ इय देनि ते होही,— ॥ १० ॥ अमह कुन्नकपरु-
 वयो— कुसुमसमो कुन्नपदसकासो, महिमन्त्रमउन्नमणी— गुणरयणस्वणी सुपुतो
 नि ॥ ११ ॥ साहियनमासते— सतेसु च वाउधून्निरुमेसु, उज्जोइयदिसिचको—

११ पर्याप्त एक वेगए म यत्रिना यवेत चुवणी राणीए यहु मोनं फठवात्रां यौ एरुन जेगां १७
 यौ मन्त्र या मण्ये छे — १ द्यापी, २ बज्ज, ३ सिंह, ४ अतिथेन फ्रन्नी मात्रा, ५ चद्र, ६ सूर्य,
 अन्निपेक, ७ रुज, ८ रूपत्रोपी जरेत्र तत्राय, ९ समुद्र, १० दिव्य विमान, ११ रत्नो उग्रेतो,
 शय्यावाली अग्नि. (१)

ते गणी नल जग्निने वमराजने रुहेया बागी के, हे स्वाग्नि ! मे हृमणां ए चोद एम दीडां १ए त्वारे
 नी धागणी जग्नेना नीयना फ्रन्नी माफक पुन्नरि यदने पिरुसर यमत्रनी माफक नेन उपादां री रद्वेय
 हे देवी ! तने अमाग तुत्रमा कश्यद्रु समान— यत्रा सवान— रीया सवान, यमन्त्रो मुग्गयणि, अने
 गणाग्नेनी ग्याण, परो मपुत्र अने १०-११ याद एव अन्निपेक त्र पातया छेदे पवन अने १२ो रूपर जग्नि धया

पणपण, वदुपुणपणञ्ज—जोगसुह दुंजमाणेण ॥ १७ ॥ अह अन्नया कयाई—
 रयणीण मञ्जजागसमयंमि, चुणणी अइफारफवे—चउदस सुमिणे नियच्छेइ ॥ १८ ॥
 जहा—कुजरसदहसीहअइसेया—दामसोमरविइयअञ्जिसेया, कुजनीरुहसर-
 जधनिहिणो—दिवनविमाणरयणसिहिणो (१)

तमयणमेव पवुछा—सा मुछा कहइ वजनरइणो, जह सामि सपइ मए—
 चउदस सुमिणा इये दिटा ॥ १९ ॥ राया रंजियदियत्रो—धाराहयनीवकुसुमसम
 पुनत्रो, कुक्षिदीरनयणो—नणइ इय देवि ते होली,— ॥ २० ॥ अमह कुञ्जकप्परु-
 म्वो—कुनञ्जत्रो कुञ्जपर्ववसकासो, महिमन्मज्जमणी—गुणरयणलणी सुपुत्तो
 ति ॥ २१ ॥ साहियनमासते—सतेसु च वालंध्रुञ्जिरुमेरुसु, उजोइयदिसिचक्रो—

वा यो १७ एवाम एक वेगण म यगत्रिना यवेत चुनणी राणीए वडु मोटा फळवाळं चौट स्वन जेया १७
 ते चौट स्वन आ प्रमाणे छे — १ हाथी, २ गज, ३ सिंह, ४ अतिथेन प्रजननी माळा, ५ चद्र, ६ सूर्य,
 ७ राजा, ८ अन्नियेत्त, ९ कुल, १० रूपत्रोथी चरेन तत्राय, ११ समुद्र, १२ दिय विमान, १३ रत्नो डगनो,
 अने १४ शिवाचारी अपि (१)

ने गणी एत जगिने नमराजने कहेया जायी के, हे स्यागि ! मे हमणा ए चौट सम दीडा १ए त्यारे
 राजा पाणीनी प्राणी जनेना नीयना पुननी माफक पुत्तन्नि यदने विस्सर वमजनी माफक नेन उपाया ररी कहेया
 जाग्यो के, हे जेने ! तेने असाग गज्या गज्याद सपान—जना मवान—दीया मवान, शुभकजना मुणपणि, अने
 मणप जोनी म्वाण मने म्पुण मने २०—२१ वाद म—अत्रि—य पापना छेने पवन आ १ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

नाश्रो नाश्रो राशचन्द्रो ॥ ७७ ॥ उडाभागांमु—विह्विण्णु विविह्विजादरुष्येसु,
 ममरमि नम्न नाम—रुद्रिय उन्नतन ति ॥ ७३ ॥ नियपमय मोसमरुत—सिय
 रुद्रिड एव ननु चारुश्रो, झन्डीनिवामनिरियरयस्त्रियरयरनयणमो ॥ ७४ ॥
 सयुठ वमण रुदतालागमु पनेनु यतनियगामे, यनम्न सिरे रोगो—जाश्रो दायिय
 यउग यंगो ॥ ७५ ॥ पुनय पागगटि—यदणविजेहि श्रोसहईसु, सप्य पउजि-
 ल्पुदि—न त्रियन न चिरो यियाग ॥ ७६ ॥ मणायमाण मेय—जय मेय नि-
 उर मी रुड, राडगिया रुताड—ममगिश्रो यतननो सि ॥ ७७ ॥ जह सयत-
 उडाउरुश्रो—य, यिरने उन्नतनरुतागे चारु युश्रो ममेमो—सायज ति नणिया
 य ॥ ७८ ॥ उन्न, उमेग पने—रुनोयरुमि यतनननाहो मयरुडेसु रणमु—त

७७ ॥ उडाभागांमु—विह्विण्णु विविह्विजादरुष्येसु,
 ममरमि नम्न नाम—रुद्रिय उन्नतन ति ॥ ७३ ॥ नियपमय मोसमरुत—सिय
 रुद्रिड एव ननु चारुश्रो, झन्डीनिवामनिरियरयस्त्रियरयरनयणमो ॥ ७४ ॥
 सयुठ वमण रुदतालागमु पनेनु यतनियगामे, यनम्न सिरे रोगो—जाश्रो दायिय
 यउग यंगो ॥ ७५ ॥ पुनय पागगटि—यदणविजेहि श्रोसहईसु, सप्य पउजि-
 ल्पुदि—न त्रियन न चिरो यियाग ॥ ७६ ॥ मणायमाण मेय—जय मेय नि-
 उर मी रुड, राडगिया रुताड—ममगिश्रो यतननो सि ॥ ७७ ॥ जह सयत-
 उडाउरुश्रो—य, यिरने उन्नतनरुतागे चारु युश्रो ममेमो—सायज ति नणिया
 य ॥ ७८ ॥ उन्न, उमेग पने—रुनोयरुमि यतनननाहो मयरुडेसु रणमु—त

॥ ३१ ॥ तिनयनाण, सीधराणदहणपमर्णा—जज्ञणा वय । तज्जा नय्या भयणा ॥ ३१ ॥
 अगणियमुपपाश्रिणा—नुनणी चकुयचणोण चिरास्स, दृहडिअयजणञ्जळा—रज्जि-
 त्वा पायदीहमि ॥ ३२ ॥ दयरो उण विवरओ—कृन्निअमई तिसयगिद्धिअस्सपुण्णो,
 चुवणीण सस्यो—सजाओ दीदृपट्टो वय ॥ ३३ ॥ नाय नीसेस मिण—चरिय चु-
 वणीइ सीननगफण, धणुणा मचेण विचिसिय च नो कुमरकुसल्ल मओ ॥ ३४ ॥
 नणिओ य दरथणु तेण पुरा कुमरस्स अपनरोण, कुञ्जा सरीररमया—जणणी णो
 सुदरा जेण ॥ ३५ ॥ समए य माउचरिय—जाणणियेवओ तए सअ, जेण ण मा-

गमस्यत तस्मिन्समयं तस्मिन्नीर्वाणाने त्वां स्थापिते वाग्देवानां कुर्यात्किं त्रयं राजा पौत्रयत्नानां सान्यमा आख्या ३०
 द्वे च सुवशी अने दीर्घगता यंशे यामभानती मसज्जत ररा वाग्धा, तेमापा तंमने गीळयत्ते अग्निनी माफक याल्लयामा
 मभंशे यामभिरार नापुन थयो ३१ त्थारे सुवशी मतनी चपळनायी कुळना रुनत्ते नहो गणुहात्तो बोक्कनात्त दर
 वेनीने ते वाणिट्ट दीर्घगतामा मोद्धित थः ३२ अने ते दीर्घे पण ट्टि जोइ कुश्चि त्रुच्छि थोने त्रियय्युद्धिना त्रियथी
 तरेय हांयायी नीर्वीणु (निमान)नी माफक चुमस्योभा रक्त थयो ३३ आ यव चुवणीना शीळजगनु चरित थनु
 नामना अमपे नागी वीषु अने त्रिवायुं के, आथी तुपाले वुगट नरी तेथी तेणे पोताना यरमनु नामना पुतने
 वधुंके थारे त्रयए एट्टीवे तुमान्ती गरीसदा कवी केमेर पनी मा भगवती छे ३४-३५ त्थी समय वावी

॥ २१ ॥ २ वेत्त इमो—छवइयं वेणइ उडोण ॥ ३६ ॥ उयमद्धे जणणीण—यरिण तो तिअ-
 थमरिसनणाहो, कुमरो वासवसेण—सजाओ जोळ्णणात्तिमुहो ॥ ३७ ॥ जणणीइ
 चकयाया—विसरिसध्यायारकर-

वेत्त क्षमो—उत्तम केणद वृत्तेण ॥ ३६ ॥ अत्रद्वन्द्वे जगणीण—परिण तो निज
 अमरिससणादो, कुमरो कात्रसोण—सजात्रो जोव्यणाचिमुहो ॥ ३७ ॥ जगणीद
 जाणणसण—जे जे असमाणजादणो जीया, रोदनकायादिया—विमरिमत्रायारक
 णरया ॥ ३८ ॥ अतेउरस्स अते—गयाद तीण य ते पदमेद, जणद य समो-
 ययणो—अम्ह निगिणहामि अहमेण ॥ ३९ ॥ अत्तो चिय जो मज्ज—रजे
 णायारस्सेरण काली, दूर निगिण्हियव्यो—निरमेसमणेण सो मज्जो ॥ ४० ॥
 णय अणेगत्रे—त्रिणिगिणहत्त तहा पनासत्त, इट्ठण उन्नदत्त—दीहो चुनणि समुच्च
 तद ॥ ४१ ॥ नेय परिणाममुह—ज जपद णस तुज्ज किन्न पुत्तो, सा नणद गालजायो
 टत्य उरकक न सञ्जायो ॥ ४२ ॥ मुक्क न अत्रदे य—आरुढो जोन्नण क्षमो कुमरो,

एते एनी यानु सट्टु परिण जगारी दनु रे, तयी ए सः ण छत्ता पपात्त हेगन नदि थाप ३२ इय तुमार
 पावाना परिश्रमी गसर पदनां त चार गुप्त थया थरो अत्रुत्तये योसत्रयथान अजिमुण थयो ३७ या यानान
 तसत्ता यानर त ने जे दूदी दूरी जतना रायन वागदा विग माणिआ अनाार स्यां तयाग णा तसन पस्मने
 अत्र पुष्पां क्षद न्द मानेन यवारीन गुप्तो थरी योत्तने रे, द माता' इ एमनो निग्रह वर व २८-२९ आ रीते
 योना णण ने रेः पाग रायथा अनागनु सवन ररा, तंन निर्य थद इ सोम निग्रह ररीण ४० एम
 अनास्यार निग्रह वरता अने त रीने नाणण सन्ना उच्चत्तन ज्ञान नीरसजा चुनणीन आ रीते सत्ता नाग्यो ४१
 आ नाग पुत्र न वट योत्ते रे, त परिणाम द्वित्यां क नी स्पो चुत्ताणी रात्री क, ए गणपण्यी जात्र जये ण्य
 र ४, सों षणं एना राक न गणाय ४७ नीं योत्तो क आ मुथा' इ रुदु तु ते तेमत्र ४ तुमार योसणण

मुञ्ज तुङ्ग्य मरणाय होहिही जगद् द्य दीहो ॥४३॥ तो मारिज्ज उ णसो केणावि
 अन्नमिवाण णुणाण, मइ साहीणे चेटे—अन्ने होहिति तुह पुत्ता ॥ ४४ ॥ रइराग
 परमसाण—इह परत्तमस्सज्जकचिचाण, पन्निन्न चुनणीण—धिरत्थु द्दरथीण चरियाइ
 ॥ ४५ ॥ ज सव्वमएणमरे—आयएणुक्करिसनिजयकुसुमसरे, सव्वानिणयविरहिण-
 नियपुत्ते वयसिया एव ॥४६॥ वरिया य तेहित्तो—तस्स कए नृमिपहुसुया एगा, पउ-
 णीम्य च करव—विवाहपाउग्ग मुत्तगरण ॥४७॥ यत्तसयन्नित्तिट्ठ अद्दगूढपेसनि-
 ग्गमडुवार, कारानिय जउहर—नासनिमित्त कुरमारस्स ॥ ४८ ॥ गाओ एत्त वइयरो-
 धणुणा तो रज्जककुसलेण, जणियो य दीहराया—एत्त सुओ वरधणू मज्ज ॥४९॥
 सपत्तजोत्तणत्तरो निव्वाहसहो य रज्जकज्जाण यणमणानत्तरो से—अणुमाणसु
 जामि ज तत्य ॥ ५० ॥ तो कदणुणेण जणियो देहिण अमज्ज एय नयरत्तिओ,

पाय्या व, मा- मारा उने तग म्मण मोटे ए थने मोटे मोट छाना उपाययी एने मारी नावयो तो, ए, अने इ
 तार आर न तु एत्ते रीजा एणा पुगे तार थणे ४१-४४ स्यारे रत्तिगना कग्गयणागी आ न्ना उने परजन्ना
 काम विचारामा इन्ध चित्त मनेना कुलणीए ते बाल मइ न राखी मोटे बोला चग्गिने धिमार वाओ ४५ रेदेके सव
 वक्कण सट्ठण, वावाकग्गएथी मग्गदेवने जित्तनार उने अब्बिनयथी तन्न रहित एया पोत्तना आ पुत्तमां एण वेगी आ
 नीत रत्तवा दानी ॥ ४६ तत्त देवणे तुभारना मोटे एकर र जागी पुत्री इगी उने चियाह मोटे रैयारी ररा मानी
 ४७ देवणे तुभारने रहेवा मोट सो द्दत्तना, पर मोठवेत्तु उने एत्तया तथा रिरत्तना अरिग्गट्ट ढारयाट्ट चात्तया
 यथात्तु ४८ आ अब्बिनयणना अमनीने त्तर एको एत्तवे ते मत्तसाज्जा तुशक होचारी अग्गिमा पागे नर रहेया
 नेत्तयो ने, आ मागे वग्गत्तु पुत्त छे ते योवन्तय पाप्मो छे, अने मत्तसाज्जा त्तायो इके नेप छे मोटे मागे होये इत्तयो
 ज्जातो उरत्त दे, हे, ही आ इत्ताओ ने मो व ॥ यो ताव ५०-५० मोटे रिरि आ रत्तयो रत्तयो ने त्ता ॥ ५० ॥

ग—सगराह वाप जडगेह ॥ ५१ ॥ एव त्रियपि नगररूपा मा णिययपरियरसमे
 या, वीयात्य पत्ता—रुपिने उतिरपत्ता ॥ ५५ ॥ नित्त पाणिगहण—वासनिमि
 च नत्रा य ग्यापीने, रभ्यगुनरुमेओ—पसेसिओ जडगेह कुमरी ॥ ५६ ॥ जाम
 षगपि अटगण—निमाह पञ्चानिय च त चरण, जाओ य कलयलरओ—अदनीमो
 मरयो राम ॥ ५७ ॥ पम्बुहियचननिहिनिह—कुमेराणा यणिउण हवयोच, आ

५१. ग—सगराह वाप जडगेह ॥ ५१ ॥ एव त्रियपि नगररूपा मा णिययपरियरसमे
 ५२. या, वीयात्य पत्ता—रुपिने उतिरपत्ता ॥ ५५ ॥ नित्त पाणिगहण—वासनिमि
 ५३. च नत्रा य ग्यापीने, रभ्यगुनरुमेओ—पसेसिओ जडगेह कुमरी ॥ ५६ ॥ जाम
 ५४. षगपि अटगण—निमाह पञ्चानिय च त चरण, जाओ य कलयलरओ—अदनीमो
 ५५. मरयो राम ॥ ५७ ॥ पम्बुहियचननिहिनिह—कुमेराणा यणिउण हवयोच, आ

पुष्टिओ वरधण—विमरने रुमर मेय नि ॥ ५० ॥ कुमर तुहा एत्यकण—एसो
 पीयाहरपणे रदुओ, एमा न रायवणा—अणश्रिय काद तस्सरिसा ॥ ५१ ॥
 ता नीद गदपणओ—कुमरो जेपेइ कि विदिय मओ, तो नणिओ वरधणुणा—प-
 लिपदारं अहो देसु ॥ ६० ॥ दिणमि तमि पत्त—सुरगदार विणिग्गया तेण, दो-
 णिवि गगातीरे—पवापणसमि सपत्ता ॥ ६१ ॥ पुब्बचिय धणुणा वानियमि जम्म-
 मि तुरयपुयत्तमि, तस्याण मारुटा ते—पाणास जोयणाणि गया ॥ ६२ ॥ अइदी
 दरपदयेणण—येइयाञ्जत्ति निवडिया तुरया, पाणहिं चेव गतु—उग्गा पत्ता तओ गाम-
 ॥ ६३ ॥ कुड्डाजिहाण मेत्य—कुमेरेण वरधणू दम जणिओ, जह वाहण छुहा मे
 —वरिसन्ती तह दड जाओ ॥ ६४ ॥ गामजहिंमिय त अजिऊण गामतरे पजिदो सो,

तना आ शी गरम थट ते एउ वरधुण म्पु के दे उपाय, तेने मारया यातर आ विवाहनो उउपाउ तरामा
 आओ ए, अत्र आ वर गमन्या नयी, पण तेना समी रीद नीजा मी ते एए ते सान्जळी बुधार तेनाची मीति
 ठगारी वटुग बाण्यो के ल्योरे हेवे शु म्पु? ल्योरे वरधुण म्पु रु आ उभाणे तारी पेनी रना हम्सेनो आप
 ० तेप वरना तेपने गुरगनो वरमओ म्पुओ पम्पे ते रे जण गगाना राजे म्पाना म्पेकमा आरी पहोल्या ६०
 त्या दाम्पतीज पलुमरीण रे गरमन घोदा गमेना हुता तेनापर तेओ तत म्यार थने पचाश योजन दूर नीरडी गया
 ६० हरे चांगे म्पे रागताना बाधयो धारिनि घोदा म्प दड पनी गया, पार तेओ दगे यारीने एर गांमे आरी
 पहेल्या ६० ते गामपु नाप वृत्त करि न लपु गी बुधार वरधुणे पहेला याण्यो के मने लुम्ब पीने जे ओ रे लुम्ब भारी



मि नेमिचिण्ण पुञ्ज—नणिय मिण जो धरे एही—॥ ७२ ॥ पट्टान्नाइयवत्थो—
 चित्रनुओ नोयण करिस्सइ य, मयाण चाळाए—उरोस होही न उण अन्नो
 ॥ ७३ ॥ तो तमिन्नेव दिग्गसे—पाणिग्गहाण करेइ सो कुमरो, तमल्लणमेव विज्जगो—
 परोप्पर निञ्जरी नेहो ॥७४॥ तुच्छी हूओ जणगाइणसु चिरपरिचिएसुनि जणेसु, पन्नि-
 यथो तीण ज—नणति म्मुसञ्जा द्येरिसग ॥ ७५ ॥ वाडत्तणमि पिइ माइन्नाइसहिंया-
 यणो पिओ होइ, आरुत्तजोव्वणाण—जुवईण पिओ पिओ एगो ॥७६॥ नीया रयणी
 ना तेणतीए सच्छि सक्कोउगयणाण, अइञ्जजुत्तणओ—सव्वग पणप्पणतीण ॥७७॥
 वीयदिणे उरथणुणा—नणिओ गतव्वमत्थि ते दूर, कहिओ वधुमईण—सञ्जाओ नि-
 मया डोयि ॥ ७८ ॥ गामतरमि पत्ता—अइदूरपहमि उरथाणू तरय, सच्चिन्ननिमित्त

गरे चिन्मिन्न नम्याळा उरथणीए नु कुं हे' स्यामि, तमे सान्जळो अंगेने प्रथ एक नमित्ते कहेवुं छे, जे आ धरया आ-
 रो, जरी त्यती रुपमा । पागयी दाकनी हेशे अने चित्तसहित होइ जमशे ते आ गल्लनो उर यथे' वीजो नहि
 थाय ७२—७३ तेनी तेज नीमै कुमारे तेनु पाणीग्रहण करुं अने तलतन तेमनो परसपर गाठ स्नेह उपायो ७४
 वागनो चि(परिचित्त जनमानिक जनमा प्रतिपथ ओगे पड्यो, जे मोटे चतुरजनो आ रीत कहेछे—७५ वीओने
 नानपशुमा पिता चाइ तथा सन्धिपो प्रिय होय छे, पण ज्यारे तेओ यालन पामे छे ज्यारे तेमने एरुनो जर्तारज मित्र
 होयछे ७६ त्यां कुमारे ते गलने उरमुत्तमावागी गाल्याये पसार मरी, पण तेणीए गरमात्तण्णाथी पोतानु सयोग
 अरुपण करुं नहि ७७ वीजे निने वरथतुए कुमाने करुं जे तारे इजु दूर चानयानु छे तेवी उरुपनीने खरी इमी-
 जेन

सद्गम्यो—यहु तत्रो निगम्यो, जलद॥७९॥ निमुआ जगत्पत्राया—मग जह ३६१।
 दणा मत्रा, सत्रेयि यनन्दासम—गहणहेउ निरुठत्ति ॥७०॥ नानासिजह दुरेण मग
 चाग रुरित्तु गन्तमा. जाया महाकरीण—पत्न्या तिमिओ नहु सुमरो ॥ ७१ ॥
 प्रथणुणा वरुद्धिदा—उत्तिओ गसो गत्रो स सञ्चिजत्था, जाय विणायमाण—न
 बरु सुदग पर गसो— ॥ ७२ ॥ विदो वीहजेडेहि—उठ च इस्सनओ संगमेहि,
 पत्तो कुमरासने—अहिंनि निरुहुमारिओ ॥ ७३ ॥ क्यमंकेओ विट्ठिओ—तेण
 कुमरो पत्रायहु सुदू, ततो सतिग्गेओ—पलायमाणो दुक्तार—॥७४॥ कनार यय-
 द्योय सोय सपायग गओ जत्थ, हरिणारिणो नियत्ति तीमारनरियगिगि कुहरा ॥
 ७५ ॥ रत्तिपाया जत्थ न ओयरत्ति तरुत्तवपन्नतरिया, मत्ते नयनउठतटन्नमुं

माप नात्रे नत्त्यायी जत्त पाटो प्रायी गोय्यो ते-दु दोष मत्त सञ्चित्री आय्यो हु के प्रथमन परमज्ञाने श्री
 राजाण मत्तगस्सा संनेना ७९ मां प्राणेषु मत्तो मेत्रीनि दूर नाशिय-ण्य इहो वेआ एक माप अत्थीना प्रायी
 रत्तया त्या इमार यहु तलेत्तो यथो ७१ त्यारे यथुण तेने यदुहउ बुधो गण्ये अने पोने पाणि नरया गंयो
 ण्य निरस आसया आय्याधी पाणी य-यु नहि—एण उन्नेने वे श्रीगन्ताया माण्ठोली मत्तेर चत्तेओ ण्णे नेपणे
 गुणे थ-नेने गुर माया एतां वेम एप ते कुमास्ती नत्तीक प्रायी उफना आय्ये परं इहेत्तो संनेन यथा वाग्यो रु
 इमार यु रं गो, एत्तेने इमार तीत्र वेगयी ने दुत्तार अत्थीमा नाया ७२—७३—७४ ते नात्ते यने
 रायत्तोत्ते शेस्सां नायनार सत्ताएसां रवान यथो के ज्यां जयय अवाजयी पत्तनी गुणायोने जरो नायना सिद्धो
 यात्री व्हे उ—यत्री ज्यां जामेला पादमायी मूर्धला निरणो एण अत्थी र्हे डे, अने जाणे नत्ती नत्ती उगती नत्तनी

यपनयाश्चा ॥ ८६ ॥ मयरायणस्य ॥ बहुजिह्वन्नद्वय सखियचित्तगद्गरतराह
 रगगन्धियतारावलीश्रो य ॥ ८७ ॥ जत्य बहुजिह्वन्नद्वय सखियचित्तगद्गरतराह उ-
 रेण, जाइ महीगणदेय चत्रणालत्तरसेणे व ॥ ८८ ॥ ज जमपुर व सवराहणहि उ-
 ह्मपुरीपट्टि, तरसाहासिहरोन्नविणहि जीमिदि एगत्य,--॥ ८९ ॥ अन्नत्तो हरिहि-
 सियसमगद्दद्विन्नियरुक्नेदि, निच सतासुकरिसकारग पहियद्वोयाण ॥ ९० ॥
 गयगधगच्छिणेसु--तरसु सत्तच्छणसु गुविद्वेसु, करिसकिणो मद्दा--जमति त्रिहलक-
 मा जत्य ॥ ९१ ॥ जत्य गमइति कक्षणे--हेमत तरुनरगसलगा, सयय पसरियअइ-
 गुरुणीसासुहेहि पवणेहि ॥ ९२ ॥ तएहाह्रुहाकिन्नतो--त अरुवि मद्कमिभु तइय-
 दिणे, पेच्छइ तावस मेक--तमसुसियतणु पसन्नमण ॥ ९३ ॥ तइसणमिसेणवि--

अष्टीण नयुज मूचन करे छे ८६-८७ यी ज्या सिहोए विदोया हाथीओना कुत्तस्यठयी पन्ता मोतीओ जाणे
 ऊचा जानोनी येचमा अटकीनि वरला तागओ न होय तेम शोन्नता हुता ८७ ज्या जीनोना जानायी हणायना
 चित्ताओनी ऊरली बोहति जाणे वन्देवताना चरणना अद्वतानो एस होय तेम जमीने चीजवती ८८ जे एक ठेकाणे
 नीनेए हणेना अने जानोनी शावाओ पर अटवेता नयक(सिहोना चामनाओधी अरु नीजे ठेकाणे सिहोए
 मारेना मोय हावीओना हाफराना दगनाओधी येपरुओने यमपुरी माफरु बीद्वामणु नाणतु हुत ८९-९० यी
 यो हाथीनी गध आपना गपणं नामना नीच जाणेना हाथीओ होवातु वहेमजायी मिहो फोक्ती छत्रणो मारला जमता

सजाया तरत जीवियासस्त, पयपणियायपुरस्तर--मापुहो तेण सो नगत ॥ ९४ ॥
 तुम्हाण मासयो कत्य तेण कटिआ तओ कृन्वदस्त, नीओ समीध मानासिओ य

मण्डपमण ॥ १७ ॥ नहुपचत्राय मेत्र—रण सुण च सज्जण जणेषु, ता
 मट नुह आगमण—जाय सपट महाभाग ॥ १८ ॥ सञ्जायगदत्त मेय नाऊण
 जट्टिआ नियगिहम्म, कुमरंण पुत्ततो—रुद्धिआं सवोति सुन्नयणो ॥ १९ ॥
 इत्तगणायपरमसेण सुन्नसामिणा तत्रो जणिओ, उच्चस्त तुम्ह पिठणो—नायाह
 चाच्चगो आमि ॥ २० ॥ ता उच्च निओं उच्चयणस—आसमो निच्चय परिउत्ताहि, मुचसु
 विमाय मेयारिणाट ममाच्चरियाइ ॥ २१ ॥ होउण उच्चयाओ तहच्चरियाओ जवस्स
 उच्चमि उच्च धम्मिउ मणाओ—जायते उच्चरुत्ताओ ॥ २२ ॥ तह इत्थ उच्चचक्रे

मण्डपमण ॥ १७ ॥ नहुपचत्राय मेत्र—रण सुण च सज्जण जणेषु, ता
 मट नुह आगमण—जाय सपट महाभाग ॥ १८ ॥ सञ्जायगदत्त मेय नाऊण
 जट्टिआ नियगिहम्म, कुमरंण पुत्ततो—रुद्धिआं सवोति सुन्नयणो ॥ १९ ॥
 इत्तगणायपरमसेण सुन्नसामिणा तत्रो जणिओ, उच्चस्त तुम्ह पिठणो—नायाह
 चाच्चगो आमि ॥ २० ॥ ता उच्च निओं उच्चयणस—आसमो निच्चय परिउत्ताहि, मुचसु
 विमाय मेयारिणाट ममाच्चरियाइ ॥ २१ ॥ होउण उच्चयाओ तहच्चरियाओ जवस्स
 उच्चमि उच्च धम्मिउ मणाओ—जायते उच्चरुत्ताओ ॥ २२ ॥ तह इत्थ उच्चचक्रे

—नन्दीनिसया जणुत्तमकुला य, दोंउ काननमाओ—जीवा जायति त्रिवरीया ॥१०१॥
 दृश्यी चरिण सु न पोंद—वैणई विग्हओ विसाओ ना—कजे, जओओ अणज—
 दमाउ अणयद्वियमणाओ ॥ १०२ ॥ रज्जति अरत्तेसुत्रि—णियमणचवडत्तणेण ग्या-
 ओ, अणमित्त चिय रत्तेसु—इत्ति पायति य त्रिरत्ति ॥१०३॥ तणरत्ताण मूराण मेन
 अयत्ताणविहियतिमिराण, सज्जाण य रामाण— त्समि को कुमज्ज सुब्बद्वेइ ॥ १०४
 ॥ तमहा चयसु विमाय—ज धीर न्यिय तरति तिसमदस, इयरे गहिरज्जवे दव—
 अतागा जत्ति बुद्धुत्ति ॥ १०५ ॥ लब्बान्निष्णाओ कुब्बवदस्स सो तस्य अरियउ ल
 गो, पत्तो नासारत्तो जज्जवाद्दाउवियगयणयवो ॥१०६ ॥ नयनीद्वियवत्थेहिउ—सब्ब-
 त्य समुत्थिया तिणेही मही, त्रिरहि जणुम्माहेहि व—'फुरिय तह इग्गोवोहि ॥

१०७ ॥
 मय के रिहाउ १ वरयो वेपके वेओओ अनार्य अने अनवरित्त (चचन) पनयात्री ते १०७ तेओओ पोताना
 मन्नी यण्णायी अणगागीमा गगमळी सं डे, अने गगीमा गगराणणे ऊट दत्तेने त्रिरत्त मनेउ १०३ दण
 रत्त, त्रर उने उट अथार वरन्नी स याओनी माफक मीओना तामा पनेवो वेण कुणलणण पोपे ? १०४
 माउ तु विण्ण मूरी ये, तपत्ते न मीर हाय वेओओ त्रियण्णाने पार पत्तोउते, यक्की कायसे तो उमा पानी
 मा अण्णान्नी माफक उउ दत्तेने पुने दे १०५ आ रीने कुटपत्तिओ अत्तिमाय जाणत्ति ते न्या र्हेयान्णयो एसाभा
 यो यण्णायी अत्तण्णने नरी नापत्तेने पत्ताउ आओओ १०६ तनीम मयउ म्येके जाणे नया नीवां यव ओओना

न चह चणपुराणाओ, नियडाणाचिमुहाओ—यथियमाद्याउ चडियाओ ॥ ११० ॥
 मा कुलदणा धणुयेय माट्याओ कजाउ सयनाओ, अणद्विजियपुन्याओ—मम्म
 महिजाविओ कुमगे ॥ १११ ॥ पत्तो य सरयसाओ—परिपुहुज्जयनयफलियनलो,
 उफुच्च समनयणुओन हसकरारमणिजो ॥ ११२ ॥ ट्याह रुदफनजनगेमगे तापमे
 अणुमुस्ता मन्कतो कुजयदणा—कुउहडा तरडिओ सतो, — ११३ मो रत्तपरिमर-

साय मुनिआला मन्ती माफक धोवी बानीओ उमा नाणी, अने मुजालो सपागमनी भाफक तोरन गडु निमुच
 पयो १०० जगत्ते ऊजयनारी अने आरी के अथमाल रर रानारी थोपजन्ती थोपययाएर नीकरी ससया ना
 यो १०० अति ऊंचे मर्गएर सातडी ने झाजेवी नियाओ परप्रय गरीने थथिरजोना पोनाना थमरफ तनना पयाताया
 ११० तो पुरपतिए पूर गहि लियेती थुपुद निगेनी सपत्री ग्याओबोर गीमरी १११ एयामा इगनाउ आयो
 १११ थारा थारापी आराय ठपद रहेतो, अने पूगेया मजोना सभा हसो मगुर प्रयाज सता ११२ ह
 १११ १ १११ १ अये पाली शोपथ पापणेरी गडउ दुमार सख्या, तने कुलपणि निसया उवा इनदुळची चरठ
 १११ १ १११ १ आलापरी आलापात गुंर रणेगे पोते अंगनगिरि जेयो उगे एक हाथी तेनी नजे पळ्यो ११३ ११४

११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

रमी—प्राज्ञोदतो वणाद् रम्भाद्, अजणगिरि ब्व लुग—सायग महो पञ्चोणद् ॥११४॥
 थिरघोरकर मियदसुणकोनियोमिजमाणवणसन्, निज्जरझरतमयजड्वनिवन्नरद्वोद्वाडिपरि
 विए ॥ ११५ ॥ सत्तगपट्टाण—कुन्नरथड्वजियनत्तयड्वानोय, पड्वयधणगहिरगड्वग-
 जिएहि परिपूरियद्वियत्त ॥१६॥ सो दद्वडूण कुमार—समुह मित सरोसासिग्घर्द्, च-
 लिओ जिमुह पड्वमख भेय नज्जद् जसो चीसो ॥ ११७ ॥ तद्देडिक्कोखेण—तिल्लुस-
 भेत्तमपड्वायमाणेण, पभित्तत्ता मुत्तरीय—काजण मरुड्वागार ॥११८॥ समुह मिमस्स
 तेणात्ति तम्मत्तणोडेन गहिय मुम्बित्तत्त, सुम्मादनेण नद्दगणमि जाओ स रोसधो ॥
 ११ जा सो रग्गद्दो—गहिय दम्मत्तत्तणेण उड्विऊण, त कुमरेण अम्बुछो—सो
 न कीत्तात्तिउ ड्वग्गो ॥ ११९ ॥ सुडग्गन्नायफुसणवड्वियेग्गस्स तस्स वणक्करिणो, अणु-

द्वारीनी रूढ विर अने चयानक देखती हती, ते पोताना थोला दातोथी जांमंते मरुतो, अने तेरा कुन्नरथड्वनी ती-
 जरणनी माफक कत्ता पदन्नपर चप्पाओ दापाय रया हुत्ता, ११५ ते सांते अगे मजन्नूत हुते तेना कुन्नरथड्व आमा-
 ने चरी नामना हुत्ता, अने प्रळयकाठना नेम्मा माफर उम्मा गर्जावथी ते दिशाओना छेम्माओने चरी नामने
 ११६ ते द्वाथी व्यास्ते सांते आत्तो जोद्द गुस्ताथी उताओ ५६ जाणे मत्पद्द चयपर यम होय तेम सांते धायो.
 ११७ त्थारं तेनी गम्मतना कंटुकथी कुम्भारं दागार पण हुत्त्या निवाय पोताना उच्चरीय करुते गोठ बांगडी तेनी
 सांते नाश्चु ते तेणे तत्त उयानेने मुम्भयी आराशमा ड्वान्यु अने ते गुस्ताथी आथओ थयो ११८—११९ ते
 टनामा कुम्भारं चतुगद्दयी नेने चूरनीने ते बव्व बद्दटीनु, चाद होज पाप्पागार कुम्भार तेने आ रीते रणना दाण्यो
 १२० कुम्भारं ते कात्ती द्वाथीनी मुम्भने च्चम्मथो पन्हेतेद्वथी सांते नेम्भो तेत्ताण कुम्भार तेरा बागत्त थोम्भयो वेत्ताण्यो

समगामिणो लण-मह कुमरो धामिओ पुरओ ॥ १७१ ॥ ता जा सा माक्षयमा-
जाओ चल्लिजण पण्णिमे जोगे, मुट्ठिपहारेण हओओ-विमुक्कणरउट ॥ १७२ परि-
रउट जा तत्तो-अउरउट्त ममेइ ता इधरो, पायतराउणोण-ऊयनामुमिय-
तउत्तणो ॥ १७३ ॥ एउ कुनावचरेण-तामिओ जा सम पर पत्तो, तत्तो वन्तिय-
तेइत्तचारिसयजूह मरुमहु, ॥ १७४ ॥ झगो कागविगीणण गाउउ मुअंगमना-
वरो, कुमरो ताउ करिओ-आयणइ तउवियरुणो ॥ १७५ ॥ ङिचि अउत्ततो नह-
थिरिन्दिहियकरो निरुक्कमपसरो, चित्तउद्धिउ न जाओ-यणेण सो यारणाडि-
यइ ॥ १७६ ॥ इसणगगणपयपरुणण पमिउममउत्तसेण, विट्ठिकामे कुमेरण सो
तओ सुउट माउओ ॥ १७७ ॥ पण्डुवओउगो अट-सणिय सणिय समुत्तन्तिताण,

द्वामी णो पवनाणे एउते तुपर तेनी पाउउ अउ तेने एउ जोगीमुदी मारी के ते नरे नीस पादव नाओ १७१-
१७२ हर हाथी जोगे एउउउ फथा के तुपर तेना पवनी १ नउ हायथी तेना एउया आउरी मारी नीनी उउउ उउओ
स्यो १७३ आ रीते उगला चारनी माफु तेने तुपारे जपाया ए १ ते मूअ थाक्यो, सोरे तुपर तेप सण उओनी
साउत्तियनी ते उउाणे परा हएणते उजा गेस एउ अत्तियउ मीतवी मारनाओ तांने द्वापी सत्त मन्वीने ते
माउया नाया १७४ १७५ ते हाथी कइ पण जोगेयउर तथा पण स्थिर रावनी णणे विवायउमा अउत्तयो ह्येप
पउत्तनो म्यो १७६ त्यारे तेना यउत्तण पण तेमने उपरवीके उउण तेनी एउपर उकीतेउ १७७ आ गीते मउत्तक

द्वंगो गतु पन्निपहपरायणो मूढदिसिचक्रो ॥ १२७ ॥ तत्तो विसवृणगई—पर।
 जमतो नईइ एगाए, तदेसदिय गिरिणो—कुहराओ नीहरतीए—॥ १२८ ॥ तन्स-
 त्रिय पुराण—पन्नियगिह खन्निचित्तिमित्तेण, उजलन्निखज्जत नगर—मेग मह पासइ
 कुमारो ॥ १३० ॥ तइसण्णिमि सजायकौउहवो निरिन्निउउ द्वगो, जाय ताप नि-
 यवइ—उसकुन्ग महाणुविद्ध ॥ १३१ ॥ परिसुक्कपाससेरुगखग तो कोउगेण त ग-
 ग, गहेइ उसयाव्वीइ तीइ डेयत्य मायराओ ॥ १३२ ॥ पन्निय उसकुन्ग—त इ
 त्ति तदतरालतागमि, पन्निपुन्नचदमरुलसरिस तह वयणतामरस ॥ १३३ दइउण
 डुटचादूय—सय विहिय मण ज मेरिसगो, निहत्था अकयराहो—कोइ नरो सज्ज
 णसरुयो ॥ १३४ दइवी मह वाहुवद्ध—कोउहद्ध मडिय मेरिस मज्झ, पट्टायावपर

पृष्ठ वरी कुमार हउवे हउवे ने हाथीपरथी उतरने पाछा मार्ग यत्ता मार्गयो तेसां ते निशाचरने ओळखामां मुक्कई-
 गयो १२७ तेथी जेफेण फलां ते ते उेमाणे रहेना पर्वती खीणमाथी पीकृती एक नतीना क्लारे रहेना
 उनापुराणा अने पन्नीगेयना पराग उतां खनेरोनी चातोथी ओळखामां आरता एक नगरने गोरा ता-
 गयो १२८ ते जोदने कुमार उतृहउथी गोरा नाग्यो एसां तेथे एक गीच गंसनु उरु जांयु
 १३१ त्थारे त्थे ने वासना उरुने रापयामाडे कौतुकथी पोपाने त्वरु म्यालमापी गुन्नेो ररीने राणा, एत्थे
 ते गंसनु उरु अरु त्थेने पन्नु अने तेसांथे तेरा गेल्ली गुमना चट्टमायु पर मनुपनु मुक्कयामउ पण पन्नु १३२
 —१३३ ते जोइ उगा विष्णुवावाणो ने ते उगा उरुं पाप () ते उगा वीइ चाहे राजस्यरु । निष्काम । तामर

उसी—किं वरणिज्जति चित्ते ॥ १३५ ॥ आनोयतेण विसत्तगः तिट्ठे सप्य मुच-
 क्कम्, पारद्धइमपाण—विज्जामसाहाणपहाण ॥ १३६ ॥ अट्ठिययर से अट्ठिई—चा
 या हा हा माण कम्मो विग्घो, णपस्स ता किमित्तो—होत्ता मे पन्निविहाण नि ॥
 १३७ ॥ इयं पूरमाणहियिओ—जा परिसक्खं निहालणं ताव, उज्जाणं मुजुयागार-
 सात्तसेहसोद्धिह ॥ १३८ ॥ त्रियसियसन्नेगयसाहिकुमुममचारपरिमवचिन्नेद्धं, ज
 त्याविजात्तमदकत्तररुद्धिस सया सहह ॥ १३९ ॥ तह उच्चत्ताल्लनत्तस्सकम्म-
 ङ्गी जाह पणमयकपा, कुमरनरुद्धसन्निह्यरसधुणियमीसन् ॥ १४० ॥ नत्थ
 य महह्यपह्वनककित्तकहिं सन्तो चेत्य, परिकिणं पासाय—सत्ततणं ऊम्मियपडाग
 —॥ १४१ ॥ नियञ्जित्तिजागपसरत्त कत्तिपत्तारम्मद्विद्धिधोयदिस, तुगत्तणयुणं धट्ठिय

मारीनाया १ ४४ को मार गहुरत्तने विस्सरथाओ अने आ मार उवा तुद्धन्नण विस्सरे थाओ एम पणाना मणा
 कुमार तिसरा मारो के हरे मारो शु रत्तु ? १ १५ याद तुमारे आस्सेन ओतो विद्या मारा तपर थद उध पण ४-
 णायना अने म्पान रत्तो थम गोथो. १ ३६ ल्यारे तुमारेन मारो दिसगीरी थद के हायहाय मे एने विन स्या, माटे
 मारो एतु शु मत्तिरियान रत्तु ? १ ३७ एम जुरकेथरो कुमार आगळ थाओ एत्ते तेणे सीथा शात्तइनेनी क्कयीओत्तु
 उधान जोयु १ ३८ ने उधान र्पं खुत्ता फुत्तेनी युगथमी यहेत्तु हत्तु अने त्यां नमसाओ गुत्ताथी निशाओ चरी ना-
 म्मस हना एम ने शोज्तु हत्तु ? १ ३९ त्यां ऊग तात्तन्नी हार पत्तन्नी र्पनी थरी जाण तुमात्तु नत्तु म्प जोमाने
 निम्पयथी मायु वृणारत्ती हेय त्तेम नागती हनी १ ४० ने उधानर्पं मोय पात्तन्नाया अत्तन्ना ज्ञानोथी गोरगतु

द्वागो गतु पन्निपहरायणो मूढदिसिचक्रो ॥ १२७ ॥ तत्तो विसुवुणगई—परा
 जमतो नईइ एगाए, तेईसद्विय गिरिणो—कुहरात्रो नीहरतीए—॥ १२८ ॥ तन्स-
 विय पुराण—पन्निगिह खन्निचित्तमित्तेण, उयलभिलज्जत नगर—मेग मह पासइ
 कुमारो ॥ १३० ॥ तइसणमि सजायकोउहइो निरिन्सउ द्वागो, जाय ताम नि-
 यइइ—उसकुन्ग महाउविद्ध ॥ १३१ ॥ परिसुक्कपाससेक्कगरसग तो कोउगेण त ग-
 ग, वाहेइ उसयादीइ तीइ डेयय मायरात्रो ॥ १३२ ॥ पन्नि उसकुन्ग—त इ-
 त्तित्ति तद्रतरालनागमि, पन्निपुन्नचइमकलसरिस तह वयणतामरस ॥ १३३ इट्टुण
 इट्चेट्टय—मय विहिय मए ज मेरिसगो, निहत्ता प्रकयराहो—कोइ नरो सज-
 णसरुयो ॥ १३४ ह्छी मह वाहुवद्ध—कोउहइ मच्चिय मेरिस मच्च, पजायापर

पृक्तु करी कुमार ह्छवे ह्छवे ते हाथपरथी उन्नति पाछा माग उरसा मानयो तेमाभा ते न्निगात्तेने श्रोउन्नयमाणं मुखाइ-
 गयो १२७ तेथी जेम्तेण फस्ता ते ते उवाणे रहेइवा परत्तनी गीणमाथी गीरत्तनी एक नीया न्निगो रेत्तया
 ज्जनापुराणा अने पद्दीणेपत्ता परावळा इतां खन्नेरोनी चत्तियो श्रोउन्नयामा आरता एक नगरे जोरा या
 ग्यो १२८ ते जोत्तेने तुमार तुत्तइळची जोरा नायो परमाणं तणे एक गीर उग्गु तुम्ह जोरा
 १३१ त्यारे तणे ते वासना तुम्हने वापमाभेरे वात्तुरथी पोत्तेने मच्च ग्गान्मागी तुम्हो ररीते वापया, एत्ते
 ते वासनु तुम्ह अउ उट्तेने परगु अने तेमाथे तेरा रेत्तनी पुन्नसता चंगमागु पर पत्तुपत्तुं मुग्गपपत्त पण परगु १३२

पानेह मिस ॥ १४ए ॥ एसा सहागद्विरा—नाही एयाहि नज्जइ जणेण, जयने-
दमरिणां दृत्रिगन्धमयद्वयरमस्स ॥ १५० ॥ तिमनीमिसे णिमीण—उयरे रेहति

निाण रेधात्रा मन्ने विह्विदिहियाओ—नियतणुनिज्जयत्तिहुयाणए ॥ १५१ ॥
उत्तपीणयाणमनस्स यथत्यत्तस्स मे सोह, इहइ इमीण ज समरसारजुयजुयफ-

नगम्म ॥ १५२ ॥ वपतरणो ज्ञया ओ व्व दोपि रेहति मीइवाद्धूओ, करपद्धनग
वगरहइनुमाउ मणिवरुणाओ ॥ १५३ ॥ सोहइ ययण मिमीण—कसिणुज्जव्वकलि-

यदुत्तनन्नाय, सन्निमरुन न उररि—यत्तअइकसिणयणपडत्त ॥ १५४ ॥ दीहरन-
यणानंदंग—यम्महवाहो निरतर एहाइ, कह मन्नाहा तनीण—दीसइ नमुहा धणुत्तय-

त्त ॥ १५५ ॥ गारे मुहमि एदइ—ताइ अहरो निसगसोएणपट्ठो, ग्त्तोपपडपत्तच-

त्तन न.त्ताणो भावना चम्पेवु गृत्तु पत्तक होय तेष ज्ञान छ १५६ एणीनु फय सम्म्य द्दपीमी गृदयी

यददत्तं दत्तायी गतन वेवय नागडे अने तेमा त्वं गेय रात्तिडे ते ते हायीना दानवन्नी रेखा होय एम नाणेळि-
१५७ आ गन्नावे उदी नात्ति ते गयेर वग्गार वामना गस्ती चत्तदी हाय तेष योक्केने जणायते १००

वणीण गलाना द्दगीष्ठी यग ज्ञात्त वीया उं केषीत्त जाणे विगणए एना उदयमां विचडीना भिणे वण रेखा वेरवी
साण १ १५९ वणीना उता अन्न मत्तवु एनवदत्तवाट्टु इइएत्त के जे वग्गुत्तु कूला लेखवानु मज्जल पत्तकसमान छे

वदी गलाना चत्त गयी गव १ १५७ वणीनी वे बाया चत्तवन्नी वेवदीओ जेनी साणे उं, तेमां हाय जे ते पम्मा
१ १०२ गृत्ताग नव उं ते कुग्गु छे १५९ वणीत्तु चत्तग अने चत्तवन्नाचोत्त वाट्टु मुग जाणे वाग चत्तवन्नां रह्ये

१ १०३ गृत्ताग नव उं ते कुग्गु छे १५९ वणीनी चत्ती कांरग्य न्दीमं ददय पारथी हंपसा हाय जे, नही तो तेना

रविरहपहसिहरसताण ॥ १४२ ॥ पासइ पासपरिदियसरसीजलसीयलेण पवणेण, इ-
 रोसारियदाहप्पसर मणिकम्मरम्मतल ॥ १४३ ॥ तत्थ कमेणा रुढो—भूमीए स-
 त्तामीइ पेत्तेइ, एग कमददलड—कण द्वायसुजदजलहहि ॥ १४४ ॥ तो रुवाखित्तम-
 णो—उप्फुल्लविद्योयणो य पुणरुत्त, त चेव पासमाणो—विचित्त इय समाढत्तो
 ॥ १४५ ॥ धेतु केइ अपुब्बे—परमाणू मीसिऊण अमएण, नियसिप्पदसणरथ—
 नृण मिमा निम्मिया विहिणा ॥ १४६ ॥ णूण पएहि दल्लिओ—चदो मुहमच्छर
 परिउहत्तो, पयनहउलाउ खडीजाव कह मणह्वा जवइ ॥ १४७ ॥ इस्से नियविव-
 जियसुत्तरिविउलवाडुयापुल्लिण, उवजाइ तिजयजयसत्कुसुमसरसयणफडगव ॥ १४८ ॥
 मण्णे अणगकरणो—निविक्करग्गहनिपीरुणातणुय, मज्ज मज्जट्टियरोमराइमिसदा-

वर्णयन्तो' सात मानवबालो, उभन्ती धजायलो,—येतानी जालीनी पसती कात्थी दिशाओने जजळी कल्लो' उचाइमा
 सूर्यना रथना मार्गने अरुक्को —परले रहेवा तळवना जळथी थमा यता पवनवने तापना जोरने रू करलो, अने म-
 णिओथी जेना माव जनेजा हुता एवो एक गहेज जेयो १४१—१४२—१४३ ते गहेजपर ऊमार अनुक्रमे चरगा
 द्वाणो त्या सातमा माळपर तेणे कमठना दग्गजेवी आखवाडी अने द्वावणजळना दरिया समान एक कन्या जोइ
 १४४ त्यारे तेना रूपथी खेचाने कुमार आयवो उग्रानी वारवार तेजेज जेतो यसो आ रीते विचारवा द्वायो १४५
 ग्वावर विथाए पोतानी वारीमीरी धत्तायामाटे कोइ अष्टव परमाणुओ द्वाइने तेमने अमृतथी मिश्र वरी आ कन्या
 वनायेनी छे १४६ पना पणोए पना सुवपर मत्सर गम्बताचदने खरेखर चूरी नाख्यो छे, गहिलो पगना नखोना
 लिप्पी ने कनकावकका गणको वी देवापेछे? १४७ पणीइ निम्ब गगना रेतीगकिनापाने जालिअ छे अने जणे

एनेह मिम ॥ १४ए ॥ एसा सहागदिरा—नादी एवाहि नजद जगोण, नय-
द्वारिणो कृत्रिगमपरद्वयसस्त ॥ १५० ॥ तित्नीमिमे णिमीण—उयरे रेहनि
निण रेहाओ, मने त्रिहिविदियाओ—नियतणुनिज्जियतिडुयाणाण ॥ १५१ ॥
उदुनपीणयणमन्त्रम यथयजसम को सोह, ब्रह्म द्मीण ज ममरमारउयज्यूफ-
जगसम ॥ १५२ ॥ कपतलगो जया ओ व वोति रेहति मीइ नाहुओ, कस्पन्त्रमाउ
कररहुसुमाउ सणिउरुमाओ ॥ १५३ ॥ सोहइ ययण मिमीण—कसिणुज्जनफलि-
यदुतजकजा, ससिमन्त्र न उररि—घनतअरुसिणयणपडन ॥ १५४ ॥ दीउम-
यणनईण—वम्महमाहो निरतर एहाइ, कइ मन्नहा तनीण—दीसइ तमुहा धणुनय
व ॥ १५५ ॥ गोरि मुहमि एइइ—ताइ अहरो निसगसोणपदो, ग्तोप्यपराच
जगने नीतवायी थोत्ता रामदेसु गृवतु फाक होय तेम शोत्रे छे १५६ ण्णीउ मय वमस्य द्वापीमी गृदयी
पररुनु द्वावायी पातु उनेव बाणंछे अने तेमां को राम राज्जिडे ते ते द्वापीना राज्जनी रेवा द्वाय एम नाणंछे १५७
१५८ आ सनाते उदी नाति तो जययेष वरनार रामना रसनी गवनी द्वाय तेम नांकोने ज्जाणंछे १५९
एणीण पोनाना ग्रीस्थी गण जगत् जीया डे तेथीन नाणे विगाण एना उदरमा त्रिउदीना विणे गण रेगा वंमेनी
झाणे छे १५९ एणीना उगा अने मज्जुत स्तनवरुवाडु इरुस्थळ के जे वरुणु तूवा खेनमाउ मज्जुत पन्नममान ३
तनी शोना बोण पापी शने १५९ एणीनी वे बाणे रक्षतन्नी वेतनीओ जेवी नाणे छे, तेमां द्वाय डे ते पन्नेव
छ अने गुवाग नव डे ते तुमम छे १५३ एणीउ बाळा अने चळवतावागे बाळु मुत नाणे बाजा गदळामा ग्हेतु
गमन्त्र होय तेनु झाणे छे १५४ एणीनी चात्री आवरप नदीमा मन्थ पाथी हपेश द्वाय डे, नहां तो तेना

ओ वन—धन्यकर्मचे कथनासो ॥ १५६ ॥ सगणा सहति एईइ नयणसरिपवह-
 पश्यन्नणकुसदा, नमुहाथणुणो अते—वम्महावाहस्त पास व्व ॥ १५७ ॥ अओ
 ज ज दीसइ—अययरुन द्माइ देहमि, त त मणणिव्वुइकारि—होइ सुरतरुदयाए
 व ॥ १५८ ॥ डिदि तीण अचुट्टिओ य दिण च आसण तत्तो, पुट्टा सा तेण तुम
 —आ सुदरी एत्थ परिमसि ॥ १५९ सज्झसरुद्वत्तगत्ताइ तीइ परिज्जपिय महा-
 ज्ञाण, गरुओ न्ह बुत्ततो—न तरामि सय परिकहेत्त ॥ १६० ॥ ता कहसु तुम नि-
 यमेन उच्चर की तुम इह कहना, गतु पयट्टओ होसि—सोत्त मेन तओ कुमरो,—
 ॥ १६१ ॥ तीसे कद्वकोडद्वकोमत्ताट अट्टनित्तणचणणकुसदाए, वाणीइ रजियमणो—जह-
 दिव कहिते माटत्ते ॥ १६२ ॥ पचाद्वसाभिणो वज्जराईणो सुयणु वज्जदत्तो ह,—पुत्तो कज्जव


विनागण धनुय नवी नमरो वा देवाय छे ? १५५ एणीना गौर सुत्थमा सन्नाये दान देत्त थोळा वमळमा रंन-
 गाता नत्पनना गच्छा पापक वागे छे १५६ एणीना यानो आत्थल्य नदीना मगहने अट्टात्तामा समथ होइ अ

मात्रो—समागत्रो रणमज्जमि ॥ १६३ ॥ तत्रयणार्णतरमन—द्वयिससिद्धिर्ज्ञेण प्री-
रियत्रिपुना, सन्धुगयरोमचम्मुया सोमयया य,—॥ १६४ ॥ पन्निया कमकमज्ञेसु
—नत्रोय सा तस्य रोत्रिउ लग्या, कारुणमहण्यसन्धिज्ञेण तेषु त्रय काउ,—
॥ १६५ ॥ यणमरोम्ह मात्रासिया य सा म्यसु कन्वुणगञ्ज, कहसु जहदिय मा-
रुणम्स ज मरणमिमस्स ॥ १६६ ॥ परिफुसियनयणसल्लिता—सा तण्णु कुमार
ह तुहम्मं, चुनणीण डंतीण—सहोपरप्पुण्णचूतस्स,—॥ १६७ ॥ नरदणो धूया तु
म्हंयेन दिन्ना पन्निन्नमाणीण, मह नीयाहम्स दिण जाय तिदिणा यरुजाणे,— ॥
१६८ ॥ पुन्निणमि दीशियाण—जाणाकीत्ताहि कीच्चमाणी ता, विजाहराहमेण—

१६३ ॥ तत्रयणार्णतरमन—द्वयिससिद्धिर्ज्ञेण प्री-
रियत्रिपुना, सन्धुगयरोमचम्मुया सोमयया य,—॥ १६४ ॥ पन्निया कमकमज्ञेसु
—नत्रोय सा तस्य रोत्रिउ लग्या, कारुणमहण्यसन्धिज्ञेण तेषु त्रय काउ,—
॥ १६५ ॥ यणमरोम्ह मात्रासिया य सा म्यसु कन्वुणगञ्ज, कहसु जहदिय मा-
रुणम्स ज मरणमिमस्स ॥ १६६ ॥ परिफुसियनयणसल्लिता—सा तण्णु कुमार
ह तुहम्मं, चुनणीण डंतीण—सहोपरप्पुण्णचूतस्स,—॥ १६७ ॥ नरदणो धूया तु
म्हंयेन दिन्ना पन्निन्नमाणीण, मह नीयाहम्स दिण जाय तिदिणा यरुजाणे,— ॥
१६८ ॥ पुन्निणमि दीशियाण—जाणाकीत्ताहि कीच्चमाणी ता, विजाहराहमेण—

केषाणि ग्रह समाणीया ॥ १६ए ॥ बहुविरहगिहृज्जतमाणसा जाय एत्थ चिदुमि,
 ताव तुम अत्रितक्रियहिरण्णुदीसमो सहसा,—॥ १७० ॥ कत्तोवि आगओ मज्ज—
 पुण्णजेगेण जीन्धिव्वासा, सपुब्बा, तेण पुणो—जुत्ता सो कत्थ मह सत्तु ? ॥ १७१ ॥
 जेण परिसस्येमि वज्ज—तस्स अत्त, ज्ञासिय तओ तीण, दिग्धा मे विज्ञा सहरित्ति
 तेण पढियसिच्चा ॥ १७२ ॥ नणिय च तुज्ज एसा—सुमरियमेत्ता ज्ञप्पिणु परिसारो,
 साहियमाण वज्ज—काही पन्निणीयरस्स च ॥ १७३ ॥ साहस्सइ य उदयर—मम-
 सत्त समरिया तए एसा, नामेण नद्धमत्तो—विम्याओ सोप्पि जुण्णमि ॥ १७४ ॥
 पुब्बोह सन्नहियाण—मम तेय असहमाणओ सत्तो, विज्ञासिच्चिनिमित्त—म मोणु मि-
 ममि पासाए,—॥ १७५ ॥ ज्ञगिणीण जाणणक्कए—विज्ज जाणणत्थ च पेसेउ, न-

ओपेचिता पथार्या ओ १७० मारा पुण्ययोगे तपे गमे र्थायी पथार्या एवी मरे जे र्थानो आगा गरी यइ छे तारे तारे
 परीने तेलीने इधु के, ते मारे शत्रु क्या छे ? १७१ केमके हु तेना उटो परीक्षा के तारे ने र्थ्या योतो ने ।
 मन मात्र मोनार्थीज सिद्ध धती शास्त्री दिग्धा ओपेनी छे १७२ ते साथे तपे र्हेइ ने, आ रिमा सतागारा
 तु ने काम रहला ते तारे परिचार करो आपणे छंन यती ए तेने छुडमनयी यारयो—तेपत्र माग तरतो तार अय
 पण ए पूरी पान्थे—नेयी तेलीण ते विद्या सजारी याद ते यथे ज्ञानी के, तेनु तारपपन तपे नाम छे अने ते अ
 तया विष्णुपण छे १७३-१७४ अविह पणपवाही होवा गी मार तेअ मन्-नर्न की अरवाची ने अ व समीक-क-



सकुरुगे गहणमि—सपर्ये सो परिदो ति ॥ १७६ ॥ मे परिमोहो सोहयोमजा अज
 च सिद्धिद्विसो से, सिद्ध कुमेरेण तत्रो—जहा हत्रो सो मा अत्र ॥ १७७ ॥ ह-
 रिमुससिपसरीरा—सा ज्ञासइ सुदुत्रु सुदुत्रु ते विहिय, ज तारिमाण दुद्यपरण
 सरण चिय वर ति ॥ १७८ ॥ गधवत्रियाहेण—परिणीया तस्याय पणययाणी, ती-
 ए य सम सहिओ—जा काल किचि ता तिसुओ,—॥ १७९ ॥ समा अन्नसि सुदुत्रु
 द्विसमो सरणतीत सुगणितो, दिव्यववराण सवो—पुटा सा तेण विमिय ति ॥
 १८० ॥ गयाओ ताओ तुह—अजउरसस नदुमरासस, नगिणीओ गड विसाहना-
 मगाओ मुन्नाओ ॥ १८१ ॥ तसस त्रिमाहनिमित्त—धनु उगरण मागया एत्य, ता
 तुरे शोप मुमस्मेह नहु एयगणाओ ॥ १८२ ॥ जाणामि चाप मेयासि—म-

हुन्ना हयणा पत्रो छे १७६ ते विद्या सारीने गने एणनार डे अने अत्रेने तेनी विद्या सिद्ध पशे त्यो कुमारे ग्यु
 रु, नेरे तो मे अत्र मारी नागनो छे १७७ त्योरे हर्षरी उज्ज्वली ते रगा बोनी के, तेव गदु सार रहु केमेने एता
 अ मपिओ भरे तेने त्पेतु नत्र डे १७८ गान ते अमाड वयने गरश्रिमाहवी कुमार एणयो अने ते मोरे केन्पोरु
 राठ रगा, एणाण एक वेग नेगे अमृती इष्टि माफक कानेने अन्नदित ररतो इव्य यज्योने अत्राज राजत्या एने
 ते एतय व्याणो के, आ शुडे ? १७९-१८० एओ त्पारा अर्थिपुत्र नाथयवतनी रपकनी मदा अने विगावा नासनी
 केने छे १८१ तेओ तेना त्रिमाह मोरेनु सरामान नरेने इहा अत्रि छे, मोटे त्पे अर्हावी उष्टक थाभा रू जओ
 १८२ इ एमना मननो चाव पारवीरा के त्पारासर एमने प्रीति ने के नहि ? जो प्रीति हश तो रानी यजा डनी

केणात्रि अह समाणीया ॥ १६ए ॥ बधुविरह्मिगिहकृतमाणसा जात्र एत्थ चिदुमि,
 तात्र तुम अत्रितत्रियहिरण्णुदुदीसमो सहसा,—॥ १७० ॥ कत्तोवि आगओ मज्ज—
 पुण्णजेणेण जीत्रियव्वासा, सपुद्दा, तेण पुणो—बुत्ता सो कत्थ मह ससु' ॥ १७१ ॥
 जेण परिस्सेमि वज्ज—तस्स अत्त, ज्ञासिय तओ तीण, दिद्दा मे त्रिजा सहचिन्ति
 तेण पढियसिद्धा ॥ १७२ ॥ नणिय च तुज्ज एसा—सुमरियमेत्ता ज्ञचित्तु पस्सिारो,
 साहियमाण कज्ज—काही पन्निणीयरत्तन च ॥ १७३ ॥ साह्मिस्सइ य उइयर—मम-
 सत्त ससरिया तण एसा, नामेण नट्टमत्तो—त्रिसराओ सोत्ति बुत्तणमि ॥ १७४ ॥
 पुत्तेत्त सनट्ठियाण—मम तेय असहमाणओ सत्तो, विजासिद्धिनिमित्त—म मोत्तु मि-
 ममि पासाण,—॥ १७५ ॥ ज्ञनिणीण जाणणकण—त्रिच जाणणण च पेसेज, न-

अन्विता पथार्या ओ १७० मारा पुण्ययोगे तेपे गमे त्वाथी पथार्या ण गी मो जे रगानो आगा ली थद छे चोर पुणो
 फल्लि तेणीन यदु वे, ते मारो शत्रु क्या छे ? १७१ वेमके हु तेना रत्तनी परीक्षा क. चोर ते रत्ता तेला वे, ते
 मम मात्र योत्रयाथोज सिद्ध थती शास्त्री विद्या आप्तनी छे १७२ ते सारे तेणे रद्धेनु जे वे, आ तिया माराए
 तु जे काम रद्धेजा ते सारे परितर ररो आप्तेशे अन्न वत्ती ए तने पुत्रमनयी रारागे—तेपत्र माण संपत्ती परर आर
 पण ए पूरी पाप्तेशे—तेथी तेणीए ने विद्या सजारी बाद ते रद्धेया मागे के, नेतु चारयमा तपे ताम छे ओरे ते तप
 तर्था विरायत के १७३—१७४ छे अन्विक् पुण्यरात्री हेय थी मारे तेन सत्त पढिय ती जात्र मथी १७५ आ यो ज्ञाणीय ५

॥१८३॥
 । धनस्थी तुर्मभि आणुरात्रो, जइ होही ता रत्ता—यत्नाग सुवारि पयाद्धिस्स ॥१८३॥
 परिचद्व
 प्रन्नह परिपडुरमेव—मेस तीए विइस्ससकेओ, थेवाए वेलाए—धमद्वपत्ताग
 त—॥१८४॥ इइडुण मवमरुतो—तओ पएसाठ गिरिनिजुमि, पत्तो दिटु च महा-
 संगर केस्सि त च ॥ १८५ ॥ सज्जणमण व सच्च—परिपियकरण न सीयद्वसद्दाव,
 ॥१८६॥ कामिकुद्व व समुज्जद्वरुन चदम्स ॥ १८७ ॥
 । बहुलोद्वकद्वोद्व,— ॥१८६॥ कामिकुद्व व समुज्जद्वरुन चदम्स
 य व फद्विहगिरिणो—जद्वनिहिसद्विद्व न गयपार ॥ १८७ ॥
 रट्टि केसकुमुमेहि, नयणजणेहि तणुकुमुमेहि कमलमगल-
 तओ तस्य जहिद्वाइ इद्वपहद्वगसवत्स-

शोळा पत्तावीश
 ।णम
 प्यो, वाण थोमो गवत जता थोळी थजा फरुत्ती
 क सतोवर जेणु सतोवर केतु हेतु ते वणोते छे १८३-१८४
 माफक ते गीतठ हेतु, धरपकरु माफक वेगवाक्य हेतु मामि
 नी माफक उजठु हेतु, स्फटिकला पयत्ती माफक हितकारी
 तना ५६-१८७ तनी ते आकाश जेयाना दर्पण जेणु हेतु, तेमज आभेतेम नजर
 श्री गळेना अजन, गरीरपथी गळेव कुतुम, पाणपथी गळेना अचता, तथा
 श्री गळेना अजन, गरीरपथी गळेव कुतुम, पाणपथी गळेना अचता, तथा

तावो, अथाद्यनियसियुडरीयसुडसुरान्निगधजरो ॥ १ए० ॥ तीक्ष्णित्तोण पञ्चोड्या य
 मरपत्रिमुत्तरे चाण, नयतारुष्णा उन्नयपञ्चोहरा कल्मसा एया ॥ १११ ॥ तस्मान्ना-
 रोत्रियचारन्मुमुक्षुहि मम्महसेरेहि, सहिजतसरीरो—वषेग सो समाढतो ॥ १ए२ ॥
 अथो मुक्यपरिणई—मञ्जे मा ज कुरग मुयनयणा, रणे णयमि कहिचि त्रिद्रिपह-
 चारिणी जाया ॥ ११३ ॥ धयनेहि सिणैहसमुज्जनेहि नयणेहि त पञ्चोयतो, च
 निया तत्रो पागमा—विज्जु वम अदमणीहूया ॥ १ए४ ॥ ततो मुहुत्तमेत्तेण पे
 निया चेरिया इमीड व्ह, पत्ता, समप्पिय वत्थजुयत मइकोमइमहग्घ ॥ १ए५ ॥
 न गंल पुक्काणिय—अन्नपि सरीरसडिईजोग, जणिय च तीइ जा सा—सरपरेत्ते
 ना विट्ठा,—॥ १ए६ ॥ सतोमदानमेय—पट्टिय तीण तुह तथा जणिय, मज्जाजि-


न भगवन्तं वपाव सन्ती मुत्त टाय, अत गमे चयत्ता वणोणे पाक उपाया, तथा वेणे मीक्षेया वपलोनी गुग्ग मृयो
 १ए० न भगवन्तं विनागाव चत्तो स्त्री वातु रोउत्त इपां वक नयवीस कजा मन्वसाठी कया जोइ १ए१ लो
 नयत्त धनुस्सोयी इरेण वामना चोयेयी वीयरसो वृत्तर अ रोने नेने वीरुवता नागरो १ए२ अहो ! पारा गुग्ग
 वत्तो व, अ अगण्णा अ टण्णिणी सारी नत्त मदी १ए३ इव ने कया पण चोठी अने म्नेह चरेत्ती अ
 यथी अत रोयी यथी लोयी चावनी वत्त वीरुत्तीया साक अत्तय वत् १ए४ वत्त मुहुत्ते मासमां केणीए मग्गी
 पावसाणी, मग्गीण यो अवातेन वृत्तने क्वचि संमत्त अत वट्ट युत्तां वे वत्त अत्तयो १ए५ तेषत्त ने इग्गीण नावत्त
 अत गुत्ता पण वीवी गण वत्तय साक वीरुत्तयुत्त अत्तयि वत्तुं के, ने अत्त वत्तयत्ता सित्तरे कया जोइ इती,

स्थित्यधी तुमसि अणुरात्रो, जइ होही ता रत्ता—यन्नाग मुनरि पयाद्विस्स ॥१०३॥
 अन्नह परिपडुरमेव—मेस तीए विद्वणसकेओ, थेयाण वेद्वण—धमद्वपन्नाग परिचद्व
 त,—॥१०४॥ इद्वडुण मममत्तो—तओ पएसाठ गिरिनियुजमि, पत्तो विदु च महि-
 संगेर केरिस्स त च ॥ १०५ ॥ सज्जणमण य सच्च—परपियरूण व सीयद्वसद्धान,
 सांग सगहचिद्विय य उहुलोद्वकद्वोद्व,— ॥१०६॥ कामिकुद्व व समुज्जद्वरुन चदम्स
 वियय उण व, द्वियय य फद्विहृगिरिणो—जद्वनिहिसद्विद्व य गयपार ॥ १०७ ॥
 गयणगणोवद्वपणरूय गद्विहृ केसकुसुमेहि, नयणजणेहि तणुकुमेहि कमलगल-
 तेहि ॥ १०८ ॥ तह तिसगचद्वणेहि—इओतओ नयणगोयरगएहि, ससूडुयसेयरना-
 रिण्हाण मद्विकुद्वसमालोह ॥ १०९ ॥ एद्वाओ तरय जद्विद्वाइ विद्वपहद्वगसव्वस-

पलावीश, अने नदि नो धोली फरसानी गम तेणीए संत आण्यो; वाट थोमो यवन जना धोत्री उवा फा-
 जोह, दुमार त्यायी यतीने पत्तनी गीणमा आण्यो. त्या तेणे एक सरीसर जोयु गयेरग ये-
 १०५मज्जन् पुग्गना यत माफक ते म्भुत्त हनु, एणु भिग सस्य ए-
 ज्जने, यस्मिन्ना


कथा, सिरिकता मह गगानिणोति त रट्टणु विद्यासि? ॥ २०४ ॥ नियन्मणपदा-
 प्दकरपसुरविहियाहरा नणद गमा, मम गम पिपा रहुननदादययग्गिथिन्दिआ मतो,
 —॥ २०५ ॥ अद्विससपदिसमग—समगिरयो तदय नगरगायाद, पदद्विसम गानूण
 —दममि डुगमि पविसेत् ॥ २०६ ॥ निरिमट्टनासाण पणदणीत् जाया चउणत्तपुत्ता-
 ण, उवरि अह पिउणो रत्तद्धा य नियजीयियाओति, २०७ पत्ता तारुणत्तर नणिपा
 सत्तेति पुत्ति नरसर्णो, दूर मज्ज किळा—उद्वति तओ द्दहत्त—२०८ जो मण-
 हरणो कर्प्याड कोड जत्ता धमेज तो मज्ज, सो रहिय द्यो जेणाद्—सम्म राहामि
 ज जोग २०९, अनमि दिणे ररकोउद्दच्चपन्निपेत्त्रिया दम पद्वि, दिदो तुम सन-
 सणण सेहग्गिय माण्णिमीसयणजणण, दय गसो परयत्या—जो पुदो आमि पुज्ज

आ-रा २०५-२०६ हरे रागवा दिम रिपाद् यथा वाद रोद रेण एमार श्रीसंकोने प्रणु न काण नेण पापि
 माणमन तारा पिताए नेने मप आनी? २०४ त्पारे गंठा रत्तनी रत्तियी द्वाउन अत्ररात्तनी रे यधी र, मय आ
 पिचोने त्वा त्पार वत्तान पित्तयत्त्राए रहु द्दचोत्तां २०५ तेषी ते अन्ति विषणो पत्रिमाण परधीने पत्त र,
 रागरे चमीन त्पराज शंहेर तथा गणेणां न-धान वादी अा रिद्वामां रगद र्हे २०६ तेनी रीपी नाम्नी
 राणीनी र्गययी रा पुयो रत्तम्यापत्री हु र्त्तनी तुत्तेथी मासपितान हु नेना मण ररतां यण प्यारी तु २०७ द्वे रे गान
 वासा माग दिणम मन स्युने, सत्ता गजाओ तो मागरी रिद्द रत्त रे, मोरे द्द्वान रोद रेण रोद फत्तर र्त्तां ने
 तद वा मन त्ती म्परे आररी, एत्त हु त्ते जे योग्य हुने व र्त्तीश २०८-२०९ त्पारात्त एत्त त्रिंसे चारे तुत्तदना
 तीरे आ पद्विने रोमने हु तपे पा द्दया हत्ता व म्पेर वागे आररी र्त्ती, २१० त्या मे मृत्तङ्गण
 सोत्ताय अन मानिनीपान दत्तनत्तर ओरा न्न आया म्परे तपे जे दग्ग र्त्थो ते यत्तमां अ परमाद-



मुह दक्षि णणयाइ एमो महाजागो,—॥ १२७ ॥ जह महपिउ मतिगिहे—सजा-
 १२ सविओ तहा पुणपु, ता एह तलय तुब्बे—नीतो तो मतिगेहमि ॥ १२७ ॥
 मउक्षियमयमयाण—नणिओ मतीइ तीइ जह एसो, तुह सामिणो सुयाण—प-
 दिओ सिरित्तनासाण ॥ १२८ ॥ तो इदुब्बो तह गउररेण विहिय तहेय सचि-
 धेण, वीयदिणे कमजाययधुमि समुट्टिए सूर ॥ २०० ॥ नीओ राणो वजाउहस्स-
 पासमि तेण सो इट्टु, अब्बुट्टिओ विदिण—बुरमि अह आसण तस्स ॥ २०१ ॥
 पुट्टो मुत्त साहिओ य तेणपि जहोच्चिय एसो, सत्तुत्तरकाळे जासिओ य जह तुम्ह
 मग्गेहि,—॥ २०२ ॥ अन्न विसिट्टुसागयकिच्च काउ न तीए किचि, सिरिकताण
 पाणिगहण ता कीरउ दयाणि ॥ २०३ सुद्धे दिणमि वित्तो—नीवाहो पुडिया अह

नए।प आ तमने श्रीनिदान मोक्खनावुठे अने मने ते साथे कलु ने, हे सब्बी ! मननता पोसे ने आ महाजाग पुणपु ठे
 न जेस पाण यापना मत्तिना घे(आबी रहे तेस कर मटे तपे त्यां पभोरे एम कही ते तेने मत्तिना घेरे बइ गर. १ए६
 १२७-१२८ वाट ते दासी हाय जोम्भने मत्तिने कहेवा द्यागी के, तपारा स्यामिनी पुत्री श्रीरुताए आ माणस तमारे
 या पाववाव्योउ १ए७५ मटे एनु म्मी रीते मान काउवु, एत्ते मत्तिए णण तेमज क्युं वाट नीजे दिने रुमठोने
 मोबरता खु यमान गुंय उगता,—२०० मत्ति तेने उवापुप राजा पोमे नइ गयो, तेने जेइ राजा उठ्ठी उठ्ठी थयो अने
 पानती नजे'म्या तेने यामन आणु २०१ चार तेण हरीरुत्त पुत्री एम्भे कुमारे ते कथायेपप जणारी ते सच्चिया
 — एम्भे उग के. एम्भे उमे वीजेर न चभोर मत्तए री गउरना नथी, तोपण श्रीनिदाने तमारे मज्जमा पाणनी



गुण दधि यण रयाद ण्मो महाभागो,—॥ १०७ ॥ जह महविज मतिगिहे—सजा
 यद मतिओ तथा गुणानु, ता णद तलय तुःने—नीतो तो मतिगेहमि ॥ १०८ ॥
 मउणियररमयाण—नणिओ मनीद तीद जह णसो, तुह सामिणो सुयाण—प
 दिणो सिरिपत्तनामाण ॥ १०९ ॥ तो द्दुब्बो तह गउरयेण विहिय तहेय सचि
 येण, धीयदिणे कमनायरवधुमि समुट्ठिण सूरे ॥ ११० ॥ नीओ राणो यजाजहस्स-
 पासमि तेण सो द्दुब्बु, अच्चुट्ठिओ विदिण—बुरमि अह आसण तस्स ॥ १११ ॥
 पुटो उरुत्त साहिओ य तेणानि जहोचिय णसो, सत्तत्तरकाळे जासिओ य जह तुम्ह
 मग्हेहि,—॥ ११२ ॥ अन्न विसिट्ठमागयक्किच्च काज न तीरण क्किच्चि, सिरिकताण
 पाणिगहण ता कीरउ इयाणि ॥ ११३ सुद्धे विणमि पित्तो—यीवाहो पुच्चिया अह

तपि आ तपने नीत्तित्त मोक्खनाधु वे अने मने ते साये कथु ने, हे सब्बी ! मनका पासे जे आ महाभाग पुण्य वे
 त जेप गण शपना मत्तिना येर आबी रहे तेस कर मदि तेमे त्यां पभासे एम कही ते तेने मत्तिना येर बह गर. १०६
 १०७-१०८ बर व दागी हाय जोक्खनि मत्तिने क्केवा नाणी वे, तमारा स्वामिनी पुत्री श्रीकाताए आ माणस तमार
 यो माणसाव्यो उ १०९ मोटे फनु रदी रीने मान पाउरु, एतेन मत्तिण पण तेमन रुंयुं यद नीजे दिने मत्तिने
 नीचरा वरु मत्तन गुंय उगती,—११० मत्तिने तेने उच्चपुत्र राजा पांमे नद गयो, तेने जोइ रागा ठगी उनेो थयो अणे
 वाग्गनी नत्त'वर्मा तेने आमा १११ ११२ यद तेणे द्दुब्बीरन पृठी ण्मये वृषारं ते यथायोग्य जणानी ते सांन्या

पहकरपुत्रविहियाहरा जणइ गसा, मम एस पिया बहुवज्जदाक्षपरिपीक्रिया सतो,
 ---॥ २०५ ॥ अइविसमपद्धिमगा---समसिरओ तहय नगरगायाद, पदडिमम गनुण
 ---दममि दुगामि पत्रिसेद ॥ २०६ ॥ सिरिसदनामाण पाण्णीइ जाया चउण्हपुत्ता-
 ण, उतरि अह पिउणो नउत्ता य नियज्जीवियाओत्रि, २०७ पत्ता तारुणजर चणिया
 सन्नेमि पुत्ति नरवर्द्धणो, दूर मज्ज विरुद्धा---उट्टनि तओ इहणम---२०८ जो मण
 हरणो कदयाड कोइ नत्ता घनेज तो मज्ज, सो कहिय ओ जेणाह---मसस काहामि
 ज जोग २०९ अनमि विणे ररकोउहइयन्पिउत्तिया दम पद्धि, डिट्टो तुम सन्न-
 सयण सोहग्गिय माणिणीमयाणजणण, दय एसो परयत्या---जो पुणे आसि पुज्ज

ता-रा २०२-२०३ हरे चोगला दिस विवाह थयो यद कोद रेखाए मुभारे श्रीमताने पत्रपु व मारा नेरा एराकि
 माणमन तारा पियाए तेने केम आसी ? २०४ त्पारे थोजा नत्तनी राकियो हाउने अनताळनी ते येनी दे, मारा आ
 विमाने तेना रसार नयान विताडओए बहु दनाकेवा छे २०५ तेवी ते अक्ति विपयो पद्धिमार्ण परमीने एने व,
 गारटे रमीने त्रयोन शहर तथा गाभोभा ज-धाद फकी आ चिद्धामा रगद रहे छे २०६ तेनी नीमनी नामनी
 गालीनी रगयी गर पुत्रो नय्यापनी दु रम्मी तुहेयी मारा पिताने हु तेना प्राण ररता एण थ्यारी तु २०७ हरे योवन
 धपना माग दिआए मन मगु के, सपया गजाओ तो मारागी सिद्ध वनें जे, माटे इहान कोद रेखा कोट मनहूर चर्चा हने
 तद थो मन नती तारा आसी, एच्ये हु तेने जे पाय्य हगे त करीदा २०८-२०९ त्थ्यारगद एक चिमे नरे तुनटना
 तीध आ पद्धिने एराने इ त्पे या हाथा हना त मंगार पासे आरी चमी २१० त्या मे मुनदुख
 मानाय अने मानितीओने एतदत्ता ओग न्ने जेणो माट तेमे जे मज्ज कथा त यानमां ओ परमाण-

सुहृद् द्वि त्रण्डयाइ एसो महाजागो,—॥ १२७ ॥ जह महपिउ मतिगिहे—सजा-
यइ सवित्रो तहा कुणमु, ता एह तय्य तुब्जे—नीतो तो मतिगेहमि ॥ १ ए७ ॥
मउद्वियकरकमझाण—नणित्रो मतीइ तीइ जह एसो, तुह सामिणो सुयाए—प-
हित्रो सिखितनामाए ॥ १ ए८ ॥ तो ददुब्बो तह गउखेण विहिय तहेव सचि-
नेण, वीयदिणे कमझायवबुमि ससुदिए सूर ॥ २०० ॥ नीओ रणो वज्जाउहस्स-
पासमि तेण सो ददु, अउदुदुओ विदिण—धुरमि अह आसण तस्स ॥ २०१ ॥
पुटो नुत्त साहित्रो य तेणवि जहोचिय एसो, सनुत्तरकाजे जासिओ य जट तुम्ह
मम्हेहि,—॥ २०२ ॥ अन्न विसिदुससगयकिच्च काउ न तीए किचि, सिरिक्ताए
पाणिगहण ता कीरउ इयाणि ॥ २०३ सुद्धे दिणमि चित्तो—नीवाहो पुडिया अह

तेणीए आ तपने प्रीक्षितान मोक्खावुडे अने मने ते सोये कलु के, हे सब्बी ! अनन्ता पोसे जे आ महाजाग पुण्ड्रे
ते जेस मारा गपना मज्जिना घे(आमी रहे तेस कर गेटे तपे त्या पयसे एम कही ते तेने मज्जिना घे(नइ मर १ ए६
१ ए७-१ ए८ याद ते दासी हाय जोदने मज्जिने कडे ग द्वाणी के, तपारा स्यामिनी पुत्री श्रीकृताए आ माणस तपारे
त्या मोक्खावुडे १ ए८ मरे एतु रफी रीते मान जाऊवा, एतने मत्रिए एण तेमज कर्तु गद वीजे दिने मज्जोने
खीतववा खु मपान गुंय उगता,—२०० मत्रि तेने वज्जापुत्र राजा पोस दइ गये, तेने जोइ राजा ठडी उजो घयो अने
पतानो नजीरमा तेने आसतन आणु २०१ याद तेणे दुरीरत पृथी एतमे कुमारे ते कथापोप जणानी ते सोउद्वया
वाट गज्जाए वधु के, तपारे अने वीजे नइ वउर मउर रफी इरतना मयी, तोपण श्रीरामाणे तपारे तत्तमो पणवो

क्याह, सिरिकता मह एगाणिओति त रूहणु दिव्यासि? ॥ २०४ ॥ मियदमणरहा-
 पहररपुहुरविहियाहरा नणइ गसा, मम गम पिपा उहुननदाइयधरिपीमिओ मनां,
 —॥ २०५ ॥ अदिसमपमिमग—समसिरओ तहय नगरगायाइ, पइडियम गनूण
 —इममि डुगामि पमिसइ ॥ २०६ ॥ सिरिमइनासाण पाणणीइ जाया चउगहयुत्ता
 ण, उतरि अह पिउणो नचवहा य नियजीवियाओति, २०७ पत्ता ताम्भानर नणिग्या
 सनेति पुत्ति नरवणो, डूर मज्ज निरुवा—उट्टति तओ उट्टणर—२०८ जो माण-
 हरणो कइयाट वीड जत्ता धमेज तो मज्ज, सो कहिय थो जेणह—मस्य महामि
 ज जोग २०९, अनमि दिणे ररमेउहउनपन्पिउचिया इम पट्टि, डिडो तुम मन-
 मरण सोहगिय माणिणीमयाणजणण, इय एसो परयरया—जो पुणे आमि पुज

ना २०२-२०३ हरे योग्वा दिग्न निगह थथा या सोऽ येअण मुमारे श्रीमनांने प्रबु क पाण नेरा पमसि
 माणमेने नाम पित्तए ते मे आरी? २०४ थार गेरा नंती मतिथी हाउने अत्रावानी ते गेनी रे, माग आ
 पित्तने तेरा रमार ररयान पित्तएओण उहु रचवना २०५ नवी त अति विणो पत्तिमाणे परमीने एडे रे,
 थाररे रकीन रयान शहेर तथा गाणेपां न-धाम पानी आ नित्रामा रगाइ रे छ २०६ तेनी रीपती नाम्नी
 गालीनी रमथी या पुणे ररयादती हु रची बु नेथी मास पित्तने हु तेरा माण ररता एण थारी उ २०७ इय योग
 पादां पाप रिणए पने रगुके, ररया रज्जओ के मागरी रिद रने डे, मोरे इवान मोरे गेरा कोऽमनहू रचां तेने
 कइ वा पन नती गार आरती, एउमे हु तेने जे गाल हगे त रगीरा २०८-२०९ त्यागए पर थिये नारे तुनइता
 स्त्रीथ आ पश्चिने ए, पनेन इ तपे र्मां हाया ह्वा त गगेर पाप आरी रकी. २१० त्या मे गुनइण
 गाणय अन माविनीआने परनअन अेरा न्न थाया मां तप जे मइ रया त गारवर्मा अ परमाद-

२११ सां गिरिवंतादममं—विमयसुद निन्तर अणुहयतो, मोक्षेइ काळ मद्रामिनासरे
 २१२ पद्विनातो सां—२१२ नियययक्रण सणेश्रो—समीपेसतराइ हणितमणो, पद्वीउ
 निगयो सोधि तेण सांदि समुच्चिओ २१३ इतवगाननाहिं—कमदसरोवरतडनि
 सदसत्ति प्राजोइओ ररथणू—तेणावि इमो ततो दोवि—२१४ पढमघणसद्धि-
 यपारासमूहसित व मलयकाजोगा, उवलछपून्निमा—चदकतिणो निम्हकुमुय व्व,
 —२१५ किंधि अणमवेय दाहपसम मुवगया रोविउ लग्गा, सउविओ य कुमारो
 —ररथणुणा सुहनिसन्योय २१६ परिपुट्टो कुमरो सुहय—कहसु कि ते मम प्यरो-
 स्वमि, अणुहूय तेणाविय—कहिय सब्वपि नियचरिय २१७ वरथणुणाविय जणिय
 —कुमार मुचाउ ममाविज विच, तइया ह नगोहरस—हेदुजागे तुम उविउ २१८

ते २११ इवे ने कुमार श्रीरान्तानी साये मोत्रवियास करतो ववत गुजारवा बाग्यो, तेवामा अक दिवसे ते पञ्चपति पो
 तानु मवर वद पदवना देणतो बुद्धवने पञ्चिधी नीवय्यो, अत्रे कुमार पण तेना साथे चानतो ययो २१२-१३
 या जे नाम दुय्याने हुले तेनी बाहेरना काउ मरोवरना विनारं आंविती तेणे ररथनु जेयो, अने तेणे पण कुमारने
 जेणे २१४ यो ईश्रुंजणा र्हेवा केना पाणीनी धाराओथी सींचायना मरस्थळना माफक अने प्रनमना चद्रनी की
 मुनीने पामी मीधिया उनाळना कुमुदोनी माफक २१५ वद अवाच्य दाहशाति पामीने तेओ रोवा नाग्या वाड
 वरथणुए कुमारने रोणे अवाच्यो लवे ने गज गद वेओ २१६ पत्री तेणे कुमारने पुत्रयु के हे मुद्रग, मारी गोहाजरी
 मां ते मुं अनुजणु ने वदे, योरे कुमारने पोळनु नगटु चरिव कहीमनगय २१७ हे वरथनु बोच्यो के हेकुमार, मारो
 पुनीन पण काउगे ते इमने मुं ने इकना गज हेंने केहीने—पाणी जाग्या गयो पय मां ये पक मोने मलय जयो

जलद्वन्द्वं जाय गत्रा-दिदं च महसि सरनाल्लेषु रूपं, धनाण जलं चाश्रया-मुहातगतं ताव
 द्विदो ह-॥२१॥ दीहपुरिसेहि सन्न छत्रकमण्डि तास्मिन् य महु, पुदो रे रे मधुणु-
 कटसु दहि यजदत्तो सो ॥२१॥ अणिय माग न याणामि-तेहि तो दढयर हत्रोमि अह,
 अटतामिज्जेतेण-अणिय-जह मग्गपदयो सो ॥२१॥ एत्तो तयो जमतो-कम्मणेण गत्रो
 विजोयणपहमि, विहिया पचायसु माग-लुह सन्ना, तो कया यणो,--॥ २२१ ॥ प-
 रियायमदिन्ना नेयणाद सहारकारिणी पुत्रिया, जात्रो विचियणो तो-मत्रो चि पा
 ऊण परिचत्तो ॥ २२३ ॥ तेसु गणसु चिरात्रो-युत्रिया सा रुद्रिया मुहाउ माग,
 जगो गेसिउ त-सुमिणेति न करयइ दिदो ॥ २२४ ॥ एग गाम मउगत्रो-
 दिदं परित्रायगो मण तत्थ, सत्पणय पणमित्ता-येमच्चमयणेहि अन्नदो ॥ २२५ ॥

कर्माधी मग्गपुमा पाणी नदं नरी कफ पायो मग्गामा १११ पद्वेगी तंण मंत्रा न्निमगना माणसाए मी जायां
 अन्न मत्त म्म कालिने पत्रु क, अरे सत्तु ' योच रे, ते मग्गत्त यथा छ' १७-१७-१७-१७ मं म्म के, येन त्ती
 मग्ग नरी, त्पार तेषणे मत्त मग्गे मायां, अत्रि मार मत्ता मं म्म रे, तेने सिद्ध सा- गयो १२१ चा मग्गनी आस
 न मग्गं १२१ जोः स म्म आयो अने तं मं सदा मरी रे, नापी जा मा म परित्राज्जे अगेत्ती येत्ताने हरनारी
 गात्री मोत्तमां गात्री मग्गं वृ अचत्तन जयो थद प्पयो त्यारे मग्गे जोः तेओए पेधी नीओ १२१-१२१ नेओ
 मग्ग नी जाय मग्ग मं माग्गमाधी ने गोत्री वहासी चा तने गोग्गामा, एण तु तो यथां म्मनामा एण न येग्गयो
 १२४ मा वृ एक गाम्पां गया त्या म एक परित्राज्ज जोयो तने मीतिवी यत्तने वृ नत्त वग्गोथी पृग्गया गग्गो
 १२५ मग्ग म्म रे, एग मग्गो वृ म्मग्गामां मग्ग मग्ग म्म रे, अन्न ते साथे म्म तेणे म्म रे, तापो माय नासीने

॥ ५० ॥
 ॥ १०० ॥ पिउणा—यमुनागो गाम परमनिराम, रशिय च तुम्हा जणत्रो—प
 मरणाणा दणमि गयो ॥ १२६ ॥ माया ते चटाणाण पान्ते दीहराटणा, उगिया
 ना पामि ता चोदियो य रशियुणागम ॥ १२७ ॥ काउ कायादियमेस—मित्थ
 दया तथा पराण, रे परि अमुणिनेणे पान्तात्रो तत्रो जणणी—॥ १२८ ॥
 परिथा पिउमित्तस—देयसम्मस माटणम्म गिहे, मुग्धा गमे पगमि—तुम्ह
 त्रोपणपरो ह—॥ १२९ ॥ इह मागत्रो स्थि चिदृति जाय सुहृदुग्धापुञ्जणपट्टा,
 ते दोरि तार पयो—आगम्म नरो इय तणेइ ॥ १३० ॥ नोनो महाणुजाया
 न दिधि तुग्हाण हिनियनेण, जम्हा दीहनिउरा—पत्ता जमसण्णिना पुरिसा ॥
 १३१ ॥ ते दोरि बहु तात्रो यणगट्टणात्रो कल्लिचि निगत्तु, महिमरुत्त नमता—

जगन्ना जग रवो छे ॥ १२६ ॥ तारी मने गीरगत्राण रमयेना पान्तामां रात्री तेना छु मयी हु नेनां यद कापियपुर
 तप राप्ये १२५२ वसवामिनो ये ररी इहा आरी कोद पण न जणणी तके पय मपययी ते पान्तामायी तारी मने
 दुरीने पद गाली लण थासना मिर अकामां जामणना यरे मंची छे, अत्रे हरे तने गोपया हु इहा आब्यो छु एम ते ते
 जण पुरहु म गाली रोजा ज्हा नेतामां पण पालम या आतीने आ रीने रडेया माग्गे १२८--१२९--१३० हे
 मरणाणां पान्ते दीहराटणां उगिया ना पामि ता चोदियो य रशियुणागम ॥ १२७ ॥ काउ कायादियमेस—मित्थ
 दया तथा पराण, रे परि अमुणिनेणे पान्तात्रो तत्रो जणणी—॥ १२८ ॥ परिथा पिउमित्तस—देयसम्मस माटणम्म गिहे, मुग्धा गमे पगमि—तुम्ह
 त्रोपणपरो ह—॥ १२९ ॥ इह मागत्रो स्थि चिदृति जाय सुहृदुग्धापुञ्जणपट्टा,
 ते दोरि तार पयो—आगम्म नरो इय तणेइ ॥ १३० ॥ नोनो महाणुजाया
 न दिधि तुग्हाण हिनियनेण, जम्हा दीहनिउरा—पत्ता जमसण्णिना पुरिसा ॥
 १३१ ॥ ते दोरि बहु तात्रो यणगट्टणात्रो कल्लिचि निगत्तु, महिमरुत्त नमता—

सागरदत्तो अह मुद्धिहो य इह दुःखनासाण — १३३ ॥ लग कुम्कुनमुञ्ज — सयसा-
हम्मे पण व अ्रो नर्य निहोरो सागरदत्तरस — कुम्कुनाण पयवेण — ॥ १३४ ॥ से
टोमुयमुच्चिनकुम्कुना तत्रो तेण द्यरओ निहोरो, राणञ्जगजगधिसो — सागरदत्ता-
म्म वृम्हुडओ ॥ १३५ ॥ किञ्जतोपि अन्निसुह — सो मुद्धिअकुम्कुनस्स नेवेह, मुञ्ज
इहन्नि नग्ग — सागरदत्तो विओ तेण ॥ १३६ ॥ एर्यतरभि जणिया — ररथणुणा
नेटिनग्गा वेपि एवो कि उरान नादगोत्रि इय कुम्कुडो जग्गो ॥ १३७ ॥ ता पेञ्जा-
मि न इपह — चउ कुञ्जे, नासिय पण्डिदेण, सागरदत्तेण न मे — जोजो एररथिय उ-
त्तरया ॥ १३८ ॥ मितु अत्तिसाणसिद्धीड वज मग्ग तओय मन्निमुओ पेउह कु-

उत्तरया: वरग सागर- अन्नमुद्धिवनापना ने मोग, पयाण भेउना पुयोला इरभाअली नमउ चानती वेउ र्या एक
सागन पण एउउ एवा हरे य, साणएत्ता मरु इरकाण मुच्चिनमा इरकाणर थमाग दया एउउ ते इरकाणतन एमा
इया यथा व माणर जन इरका, तकायी पाओ हडोगया २३३ २३४ २३५ न इरको मुच्चिनना इरमली रणे व
इना पण उरवा उ साण हमा, उना एयेम एरीन उरुए उर थ", देसा तसाणएत्तना इरकना ह्याया २३६ एणया उ
इउव १३३ इट्टि गनरग इ आ एयोओ उती आरवा इरका ह्याइ रेम ज्ञायया उ' २३७ माण आगुरसं नहि द्याओ नोहु
एणन एउउ र' साणएत्तव गुरो एउउ येया ने, माओ वइ उरपना नोञ्जनेमी, एउउ अत्तिसाण वरथम रद्धेवानुन राम
उ यध उरमाणर इट्टिनना इरकाणर आण गाणे एउउ तेनाणो मात्तण बोएली कोणी माथे' न्ना नयोया ए, एमी ओइ,

२३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

छिन्नकुम्भ—मह तच्चक्षणेसु दिदृशो— ॥ २३ए ॥ सण्हाउ लोहमक्ष्याउ—सूइ
 आश्रो नहेसु वक्षाश्रो, तो बुद्धिद्वेषेण णाय—जह विनाशो वश्यरो मे ॥ २४० ॥
 सणिय समीवेदेस—तस्सा गतूण ज्ञासिय तेण, मा पयन्सु वश्यर मेय—मछघग ते
 पयञ्चामि ॥ २४१ ॥ पणइवखस्स, नरधणू—जणइ मेत्था न किञ्चि पेञ्चामि, तह
 बुद्धिदो न याणइ—जहा तहा सन्निश्रो द्यरो ॥ २४२ ॥ तेणवि क्खन्धियाश्रो सू-
 ईश्रो तह नहगद्वगाश्रो, आजेविश्रो तश्रो पुण—स तन्चूनो, पराजिणिश्रो—
 ॥ २४३ ॥ पन्धिकुम्भो स बुद्धिल्लमसोविय हारि मागश्रो ताहे, जाया दोनि स-
 रित्या—सागरदत्तो य बहुतुदो— ॥ २४४ ॥ ते दोवि नेइ नियमद्विमि आरोपिउ
 रह रम्म, विहिश्रो चियपन्निस्ती—ते तत्य नयति केपि दिणे ॥ २४५ ॥ तद्वेहनि-

त्पारे बुद्धि न जाणी गयो के पारो प्रपण एणे जाणी द्वी ग छे २३०-२३१-२४० त्पारे बुद्धिने हन्ने रह्थिने पन्नि-
 कुमार पसे आशीने बहु के, आ यात तु पाथरी नहि करे तो एरु तावतो जे पण छे, तेपारी अरु तेने प्रापु त्पारे
 वश्यतु जणावसा दाशयो के, अही कइ मने देखयामा आवतु नथी, अने ते साथे बुद्धिच ७ जाणे तेप सागरदत्ते सइ
 श्री स्वरी वात पण जणापी दीधी २४१-२४२ याद सागरदत्ते बुद्धिजना पुग्गामा नरोमा चलेनी सोपे लेनी वीधी
 अने परीने नमान शर वगवी, तेमा तेना पुग्गाम बुद्धिजना पुग्गामे हार स्वगरी, पयी बुद्धिच पण एर ताव
 हारो, पन्ने उने जण स्वगवा थया आधी सागरदत्त पणो खुश करेने ते वश्यते सुंदर एणार वचनापि गोपारे परे मेनी

रथणुणावि स देहो—विहाडिओ पहिया तहि गाहा, अइतिवत्रमहुस्ताहकारिया
 ययरुत्र ति ॥ २५३ ॥—जहा—पस्थिजइ जइ हियए—जणेण सजोय जणियजने-
 ण, तहवि तुमचिय धणिय—रथणउई महइ माणेउ ॥ २५४ ॥ वरधणुणो चितासग-
 यस्स कह मेयइहेहचावत्थो, णायव्वो, वीयट्टिणे—पवइगा आगया एगा ॥ २५५ ॥
 कुमरस्स सिरे कुसुमे—तह मए नित्रिखनेइ जणइ य, पुत्तय चाससहस्स—जीयसु तो
 वरधणु नेइ, ॥ २५६ ॥ एगते तेण सम—किचिचि सा मतिउ झनिति गया, तो
 पुत्रई कुमारो—वरधणु मेयाड कि कहिय ? ॥ २५७ ॥ ईसीसि हसिरयणो—तो मा-
 हइ वरधणु जहा एसा, पवइया पन्निह—म मगइतस्स डेहस्स ॥ २५८ ॥ जणि-
 य मए जहेसो—डेहो निवजजदत्तनामंकी, दीसइ ता कहसु तुम—को एमो वजद
 वाप्ते जगादनारी आवी रीतनी एक गाथा दीडी. २५३

ते गाथा आ रीति दुती.

जे के चेट्यांन प्रयत्न करतो नीजे माएस पोताना मनमां रहुए मर्यना करे छे, उता स्तननीने योग्य तरंज परणरी
 जोइए २५४ त्यारे वरधनु विचारमा पड्यो के आ डोगतो जासर्थ इी रीते गजम पदने ? एयासा राजा दिसेए एक
 मनाजिमा त्या आवी २५५ तेणी हुमारना गाथापर प्रन तथा प्रकृत नावीनि गोनी के छे पुत्र, इजामपे जीयो रहे
 एम कही बरथुने एमातमा तेनी तेना साथे रुदरानी यत करी ज राते थद त्यारे रथनुने तुमार पलययाएयो रेणरि-
 ए शु वपु ? २५६—२५७ त्यारे ससु जग हसनामुवे जोधया ने ए मयाजिमाए मारो पावेगी ते जेम्तो मणिग
 (संस्तर) माथे २५८ थ वपु वे प डेव्यमा जनादस्तरनाई नाम छे, मति कटे के थ मयाइए म रीणा ? २५९

ना स्ति ॥ १५५ ॥ नृण्य तौण सुण सोम—किंतु न तण प्यासियव्य मिस, अरिय
 द्युय पुग्गेरे—रयणवर्द्ध सेट्टिणो भूया ॥ १५६ ॥ सा तवयथायथा निश्र—मठ निठा
 ना—रण ममणुपत्ता, तिजणजजलयमम्महनिदाम्म मद्दहानदिसम ॥ १५७ ॥ त्तिट्ठा
 त्तिणमि अरमि—सा मण म्मिचि म्मिचि कायती, पट्टरिययगन्थया—उमे करपत्तय
 तिमणा—॥ १६२ ॥ तीद समीय गलु—याता सा मण जहा पुत्ति, चिनासायख-
 हरीदि—हीग्माण्ड्य त जासि ॥ १६३ ॥ तो परियेणेषु नृण्य—यद्वृण्णि टियसाणि एव
 मत्तण तिमणुम्मणा य पुट्ठा—पुणो जाय न कहेदु,—॥ १६४ ॥ नृण्य तम्म
 महीण—पिययुजदयाठ नगणठ जहेसा, रज्जती तुज्ज न कियि—अस्मियउ सफ्फ द्या-
 णि ॥ १७० ॥ ना साहेमि अदु ते—परमरय योडियमि, ण म्ममि, टियसे धीलाहेउ—

रथ। १ इ सोम्य, मात्त ण नाए ण यान टुट्ठी न करती आच नगमा णठ नेउती रत्तानी नोम पुवी ने १६०
 न नामागथा न सोरीसाय श्रीनि रावेउ अन्न हाथ ने रण जालन तीत्ता तएण पमयन्थ जोत्ता सोग आलयमान
 य त्तापल पार्थी १६१ त्ती ण त्तिप आउउ हाय त्थणा यो उणस थ ११ ध्यान करती म जा ११० तथी
 त्तन पाम त्त म इगु क इ पुत्ति, तु त्तिवासागमा डोडो त्थण्यटे १६३ त्याग नेना परित्ते इगु के आ रीव रहता १
 ण। त्तिन थया उ आथ उणम रहेती त्ती गुत्था एवा ण क बोवो भदि, नेमासा तेनी त्तिगुत्तिसा नामनी मनी
 थ तो व इ नदरती, ण गुपता तीथ द्दमणा त्पत्ते इउ कट्टी शरती नथी ११४—११० ए माए हुज त्ते पार्थय १-
 इ तु १ थासा त्तिवग्ग च्चत्तत्तार णमा त्थमाणेउ थतासा बुट्ठि नामना नादसा १ गट्ट इती था ११५ मानी नोम

गणमि चदाप्यारमि — ॥ २६६ ॥ नियन्त्राजगेण बुद्धिलनामेण सम गयाइ एयाए,
 दग्गमि कुम्भुत्ताण—जुज्जमि कत्थोधि तत्थगत्थो — ॥ २६७ ॥ विट्ठो अणुत्तरुत्थो—
 कोत्ति कुमारो तथा दत्थो चेत्त, जीणम्मरीरसिरीया—त्रिणायमुहा इमा जाया ॥ २६८ ॥
 त च मण सोऊण—त्रिनाय उम्महो इमीइ मणे, चट्ठोदण व्व जत्तही—उत्तसिअो
 ज्ञोत्तकत्थो ॥ २६९ ॥ द्वात्रियसिणेहयणा—पञ्जासिया सा मए जहा वट्ठे, निय-
 सन्त्रान सञ्चयूत्त मम्मसाहि तो जणिय — ॥ २७० ॥ तीए जगत्तइ जणणी—तुम
 मम नत्थि किच्चिवि रहस्स, जत्तुज्ज नो कहिज्जइ—ता सुण एगगचित्ता त ॥ २७१ ॥
 एयाद पियगुत्तयाद—जाणित्थो एस वज्जत्तो त्ति, पचाञ्जाहिवपुत्तो—रुहित्थो य स-
 गत्तरत्त मज्ज ॥ २७२ ॥ तप्पहिर्द्धिं से हियय—तत्तो नोसरइ सुत्तिण्णकात्तेत्ति, ता ज-

न। नन्दास्य व्याकृत्यी श्रामना वीए अर्पणं म्दगाळो दुमार पणीप गोथो, त्यारथी ए निसंज क्कने कायी ५९वी
 न २६—६५—६८ त सात्तळी हु सपजीण्ड के एणीना गत्तमा चट्तो उदय थता जेप दरियो उचा तरणो गाये
 च उत्तत्त तम साम उत्तस्ति थयो छे २६६ याद मे तेने स्नेहना योन सञ्जयीने यथु के हे पुत्ति, तु खरी गल
 हाय त मन रुही ट त्यार ते बोनी के—२७० हे जगत्तनी, तु मारी मा छे, तेथी एउ रहस्स कोद नथी के जे तेने
 ५९? या मियापत्ताण त्तेने औत्तरयो के ते पचात्त तेथना राजानो नामरा

६५० न तमो—सराण सराण पर मंज ॥ ७७३ ॥ तो पुणरत्रि सा जणिया—मण
 चहा श्रीगिम हुणसु यंत्रे, नह राट मुज्जम जह—सपञ्च चितिय मिस ते ॥ ७७४ ॥
 चाया मरथनण मा—त्रिययामामाणएण मण जणिया, कळे मण स दिट्ठा—सुसरो
 नररीट मज्जसि ॥ ७७५ ॥ मोउ मिसमाहग्गिमियहियया यण जणेद जह तुम्ह, ज
 याह पणायत्रो मंज—सुदर होडिं सज्ज ॥ ७७६ ॥ क्रिपुण तिमसासका—तरस
 दम बुद्धिज्जय यणमा हागयण ममपसु—वेह च तडयने जग्ग ॥ ७७७ ॥ द्य
 णम लेटतुत्तो—हागे नेनु पररुगममनो, पुग्गिमस्स मरे दाउ—तज्जपणाओ मण प
 ट्ठिया ॥ ७७८ ॥ तो चहयत्तये ने—तीण महिओ दयाणि पुण देहि, पक्खिहेह तो
 त्रिया—नुत्तनामसो मण जेतो ॥ ७७९ ॥—चहा—मिग्गिज्जरायपुत्तो—परथणुए

७७३ ॥ तो पुणरत्रि सा जणिया—मण
 ७७४ ॥ चहा श्रीगिम हुणसु यंत्रे, नह राट मुज्जम जह—सपञ्च चितिय मिस ते ॥ ७७४ ॥
 ७७५ ॥ चाया मरथनण मा—त्रिययामामाणएण मण जणिया, कळे मण स दिट्ठा—सुसरो
 ७७६ ॥ नररीट मज्जसि ॥ ७७५ ॥ मोउ मिसमाहग्गिमियहियया यण जणेद जह तुम्ह, ज
 ७७७ ॥ याह पणायत्रो मंज—सुदर होडिं सज्ज ॥ ७७६ ॥ क्रिपुण तिमसासका—तरस
 ७७८ ॥ दम बुद्धिज्जय यणमा हागयण ममपसु—वेह च तडयने जग्ग ॥ ७७७ ॥ द्य
 ७७९ ॥ णम लेटतुत्तो—हागे नेनु पररुगममनो, पुग्गिमस्स मरे दाउ—तज्जपणाओ मण प
 ७८० ॥ ट्ठिया ॥ ७७८ ॥ तो चहयत्तये ने—तीण महिओ दयाणि पुण देहि, पक्खिहेह तो
 ७८१ ॥ त्रिया—नुत्तनामसो मण जेतो ॥ ७७९ ॥—चहा—मिग्गिज्जरायपुत्तो—परथणुए

रागिनि वंद्यारगिनि — ॥ २६६ ॥ निगनाउगेण वृद्धिबनामेण सम गयाइ एयाण,
 रागिनि पुरपुराणो—तुज्जमि यओमि नत्यगओ—॥ २६७ ॥ दिट्ठो अपुव्वरूवो—
 पोमि तुतारो नया दओ रेय, कीणमगीरमिरीया—त्रिउायमुहा इमा जाया ॥ २६८ ॥
 तं च गण सोउण—त्रिराय यम्महो दगीद मणे, चवोदण वय जअही—उह्वसिओ
 पोयवपोवो ॥ २६९ ॥ दात्रियसिलेहयणा—यजासिया सा मए जहा वओ, निय-
 सन्तार सन्तयय ममयादि तो नणिय—॥ २७० ॥ तीण जगयइ जणणी—तुम
 मम त्वि विविदि गइस्स, जतुज्ज नां रुहिजइ—ता सुण एगगचिचा त ॥ २७१ ॥
 एयाद विषयुवयाद—जाणिओ एस वज्जदत्तो चि, पचाजाहिपुत्तो—रुहिओ य स-
 गउय मउ ॥ २७२ ॥ तप्पहिई मे हियय—तत्तो नोसरु सुत्रिणकाद्धेवि, ता ज-

५। दण्णा बदाय आरता बा अरं रुदयाओ तुमार षणीए जोगो, त्पारथी ए निरेन अने जावी धएवी
 २ ६६—६८ न गान्छ। हु मपनीमद के णीना गामा चट्टनो उदय थता जेम दसियो उचा तरणो गळो
 ७ हउउ नम सम उत्रसित एयो ३ २६० बाट मे तेने म्नेहना वोन सज्जनीनि मयु के हे पुत्रि, तु ररी यत
 मय न न रह। २ पार न बोली ते — २८० हे जगती, तु मारी मा छे, तेथी एउ र्दस्य कोइ नथी के जे तेने
 दि उदाय, बाट तु पराद चद गानठ २७२ आ नियणवताए तेने ओउगयो ते ते पराउ तेअना यज्जानो जण्डक
 नपयो पुष ते, अने ते जण नेणीए तेना एवाण यथा गाये मने वन्ती २७३ गामाथी माते यत्त एअवता एण नेता ५।

॥ ५७ ॥
 ६ पर्दे न गसो—मरण सरण पर मज्ज ॥ २७३ ॥ तां पुणराय सा मजे ॥ २७४ ॥
 जहा धीरिम कुणुनु न्हे, तह काह मुज्जम जह—सपज्जड चित्तिय मिम ते ॥ २७४ ॥
 जाया सत्थनण्णं सा—द्वियासासणयए मण जणिया, वहे मण स दिट्ठो—कुसरो
 नयरीद मज्जमि ॥ २७५ ॥ सोठ मिम सादरिसियद्वियाया मयाण जणोइ जह तुम्ह, न-
 यद पसायओ मज्ज—सुदर होदिदं सब्ब ॥ २७६ ॥ किपुण निम्सासकण—तरम
 दम बुद्धिउत्तस उअसा, हारयाण समपसु—जेह च तदचजे जग्ग ॥ २७७ ॥ उअ
 म्म लेट्टजुत्तो—हारो घेवु करुगससतो, पुरिसस्स करे दाउ—तअपणाओ मण प
 हिओ ॥ २७८ ॥ तो जेहउदयरो ते—तीए कहिओ दयाणि पुण देहि, पन्निजेह तो
 निओ—तुहनामयो मण जेहो ॥ २७९ ॥—जहा—सिरिउत्तरायपुत्तो—वरयणुअ-

आत्मन नथ। माओ ए पति न मज्जे तो मारे मरु न जत्र ठे २७३ त्वां परनि मे तेने एतु के दे पुवि, धीमज
 मण इ प्या उअपकीश के ताकनिअवुपार पनरो २७४ आधी करु स्वस्य यद एण्ठे तेनामने आम्बामन करता मे
 वतु न गन्थाव मे न इयाने नगरना वने जोयो ठे २७५ ए साज्जली ते तुल यद योची के जगती, तारा पसाययी
 मार मरुटु मार थश २७६ पण तेन विभास आचारावातर बुद्धिबना नामे प्रा हार अने तेना साथे गयेना उअ आ
 वो आप २७७ एही आ वेववाळे हार करुणामां यात्री माणसना हाये आपी तना रहेग मुज्ज मे तेने मोरना
 व्या उ २७८ आ रीत तणीना नेवनी यात तेने रह। हेने तु प्रतिनेय आप तेथी मे तेने ताग नामतो नेय
 आपणे २७९

लिजो विठचामादप्यो, स्यणत्रइ रपिउमणो--कोमुइ मिम पुणहणिको ॥ २८० ॥
 उरधणुणा कहिय मिण--बुचत सोउ सुम्मणो कुमरो, जाओ स्यणवईए--उवारि
 अणिजात्रियाणति ॥ २८१ ॥ नज्जड नद्विणीउदसत्थरेवि चदणरसेण सित्तोपि, सो
 निअरिट्टजद्वणाल्लो गो णिब्बुइ उदइ ॥ २८२ ॥ अणमि दिणे पुरवाहिराड दे-
 ल्हाउ उरपणू कुमर, आगम्म चाणइ णो इह--तुन्ह सुवट्टाण मुकिय ति ॥ २८३ ॥
 जइहा कोसउवइणा--दीहिण गेसइवाकए तुज्ज, इह पुरिसा पेसत्रिया--कओो य पु-
 रमाभिणा जत्तो-- ॥ २८४ ॥ सबत्तो अम्ह गवेसणमि इय सुम्मए जणे वाओो, तो
 णा।।।।उररण--सागरदत्तेण मृमिहरे-- ॥ २८५ ॥ सगोविया दुनेनी--पत्ता स्यणी

ते आ रति के,

वना महारथमालोकर मुना साथे रहेलो दक्षराजानो पुत्र, पुनमनो चद्र जेप कोमद्रीसाथे रो तेप रत्नती-
 न। साथ स्या चाहेजे २८० वरधनुए कहेलो आ टुचत सानत्री कुपार अणजोपत्री रत्नती उरपण उल्लुक षड
 पड्यो २८१ ते तीत्र निराग्निधी ल्यास थइ नळिनी दळना साथसामा सूतो थको अने चदना रसे द्वाप्यो थको पण
 वत्रा नाग्यो अने स्याण्य शक्ति प्राप्तो न हतो २८२ एयामा एकान्ति वरधनु चाहेस्थी फरी प्राप्तिने कुमारो कहेवा
 काय्यो के तोरे अर्द्धा रहेतु डीक नयी २८३ वेमेने वेलाउपति दीयागाए तने ओषध ६हां माणसो मोकया छे, ओने

य सेद्विपुत्तो—कृमेरेण जहा तदा कुणसु अरह, जह एत्तो निगमाग—सि कइ च-
 मेन एय च—॥ ७७७ ॥ सोऊण सेद्विपुत्तो—सागरदत्तो त्रिणिगत्रो नयग, तम्स-
 द्विश्रो भूजाग—सिग्गिनि येन गया जात्र ॥ ७७७ ॥ सागरदत्त कइअहिनि—उत्रिय
 त दोनि गतु मारवा, तीण न्थिय नयरीण—वाहि जम्लाअयसमीने—॥ ७७७ ॥
 घणपायवतरावदियाइ एयाइ तम्लगमहिनाए, गाणाविद्वहरणजग्गियरहुराम्मणापत्ताण
 —॥ ७७७ ॥ इदुवु सायर मन्नुद्विज्ज तणिय चिराव कि तुअने, एरथा गया तत्रो
 न—निमुणेत्ता जणिय मेण्हि ॥ ७७९ ॥ अइ के अस्से सावि—जाणुइ किं न
 नत्तग्गणुणो, वह मेय सुअय ते—सुम्मइ ता तीइ पन्निजणिय ॥ ७७७ ॥ एरथेन

१ वायतागता एता अरामणी णिआआ नाइए ७७६ त्थरे कुमार शेउना पुसे इयु रु अईयी इ नीकली ज
 य ए एग १ मागी माणएण तपने ए न्नाएयी नीरगी एत्तो ने तने जण थाकाए छन जणण साथे चाना एग
 ७७७-७७७ एण म्मणत्तान म्मणानी पत्ती पावु यतीने ते ते जण एता थग, तयाथा तत्र नगरीया मोइए रडेता
 यथा एरिणाम अत्र म्मणाग ह्मिरोयी त्ता एयए रकी नकीरु प्रोएनी अने गीन ज्जानीना एो रडेनी
 एव युवा सी—७७७ से त्था एइ उती एनी थइ इइता वाणी ए तने इही माका एय आया न म्मन्-
 नी एय, इयु ए—७७७ ह्मन् प्रमे रोण गीर ? त रोपी ने वमदए अने एयवु त्पण एउउ के ते तने एय
 माएण एइ ? ए गोती ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए म्मन्नी ए

पुरे सेदी—धणपवरा नाम जारिया तस्त, धणसचयान्निहाणा—जाया कुञ्जीइ तीइ
 ग्रह ॥ २०३ अदृग्द मुगरि पुताण—रत्तजोव्वणत्तराइ नो कोधि, रुच्चइ वरो तयदु
 —जम्भस्साराहण विहिय ॥ २९४ ॥ तेणथ महजत्तिपरव्वसेण पम्मस्सएण हो-
 ज्जाण, जणिय यन्त्रे जह तुह जविस्सई चक्कव्वट्ठिपर्द ॥ २९५ ॥ नामेण वज्जदत्तो
 —मा कट सो वियाणियव्वो त्ति, जणिय मणेण पयहे—कुम्भकुम्भजुज्जमि जो दि-
 दां — ॥ २९६ ॥ बुद्धिल सायवत्ताण — सतिए माणसमि तुह रमिही, सो
 वज्जदत्तनाभ—तह कुम्भकुम्भजुज्जकासायो — ॥ २९७ ॥ ज किञ्चि तुज्ज वित्त
 —वरधणुणा सगयस्स त कहिय, तह हारेपेसणाइयि—किञ्च विहिय मण तुम्ह ॥

नी जययी हु जमी बु. २९३ हु आठ पुजेना पत्री जपीपु. अने यत्तन पासता यने मीइ वर पमन् पच्चो नहि ते-
 धी तेनामोट मे यङ्गनी आपामना करामानी. २९३—२९४ मारी जत्तिरी खेचत्तने यरु मयक्क थट र्हेया गग्यो के हे
 पुदि, तागे वज्जव्वो पति यगे २९५ तेनु नमदच नाम हे मे पत्र्यु के हु तेने केम ओळ्ळमीश ? यरु योय्यो के
 बुद्धिन अने साणत्तना मरुत्तना युद्धमा जे तापा मरुत्तां मृची र्हेयेते ते तागे नरुद्धत्त
 जाणया तेमन मरुत्तना युद्ध पत्री यपनुसायं र्हेयता तपारो जे एत्तांन हे ते म्हीसत्तागल्यो अने यग के

३० ॥ इयं निमुणियुत्तरी—महं रम्याणं कथादरा एसा, इह मन्नाहा रहस्यो—
 मन्नाहा मयं तुष्णीओ ॥ ३०१ ॥ इह परिजापिय तीण—दूर रत्तो र्ह त माळडो,
 तारा इह रम्याणं—एसा पुद्दा रओ हुत्त ॥ ३०२ ॥ गत्तय मिमीण जणिय मरिय
 मगत्तपुग्गि मह पिउणो ताया ग्यात्तिहाणो—इणिट्टुगो सेट्टिययपत्तो ॥ ३०३ ॥
 पिताययत्तया यो—तुम्ह मन्तय परमि मन्तोमं, इट्तो गत्तय मायरेण परम विट्ठे-
 ट्ठि नि ॥ ३०४ ॥ ता तय गंमो सीत्तु—तत्तुत्तर तुम्ह रुद्धर च त, कुणसु त्ति पय
 यी यम्प—ममुत्त गत्तु मह इम्मो ॥ ३०५ ॥ त्तिओ मारत्तिजायो—रथणुणा तो
 इम्म गत्तया साम्पिचारायाओ—विणियओ गेगडुग्गाओ ॥ ३०६ ॥ पत्तो गि
 विणिययय—एसा त्तिरत्तिरत्तिग्गुत्तर इट्टयसुत्तया नाम—तत्तय चोराण महिय

३०१ ॥ इयं निमुणियुत्तरी—महं रम्याणं कथादरा एसा, इह मन्नाहा रहस्यो—
 मन्नाहा मयं तुष्णीओ ॥ ३०१ ॥ इह परिजापिय तीण—दूर रत्तो र्ह त माळडो,
 तारा इह रम्याणं—एसा पुद्दा रओ हुत्त ॥ ३०२ ॥ गत्तय मिमीण जणिय मरिय
 मगत्तपुग्गि मह पिउणो ताया ग्यात्तिहाणो—इणिट्टुगो सेट्टिययपत्तो ॥ ३०३ ॥
 पिताययत्तया यो—तुम्ह मन्तय परमि मन्तोमं, इट्तो गत्तय मायरेण परम विट्ठे-
 ट्ठि नि ॥ ३०४ ॥ ता तय गंमो सीत्तु—तत्तुत्तर तुम्ह रुद्धर च त, कुणसु त्ति पय
 यी यम्प—ममुत्त गत्तु मह इम्मो ॥ ३०५ ॥ त्तिओ मारत्तिजायो—रथणुणा तो
 इम्म गत्तया साम्पिचारायाओ—विणियओ गेगडुग्गाओ ॥ ३०६ ॥ पत्तो गि
 विणिययय—एसा त्तिरत्तिरत्तिग्गुत्तर इट्टयसुत्तया नाम—तत्तय चोराण महिय

३०५ ॥ नियसति, पद्माण रद्द—महिलारयण च नृसियसरीर, इन्द्रुण म-
 प्परियरयोय कुमर च तो दुग्गा ॥ ३०६ ॥ सनद्रवद्रकमया—उष्पीक्षियधणुहप-
 द्विया द्रोउ, नयनीरवाहभारा सस्ति सरत्रसिण काउ ॥ ३०७ ॥ कुमरेणति धीरिम
 मदिरेण पिंचिनि अम्बुञ्जमोणेण, हरिण व्म हरिणगा तमग्णेण ते हारि माणीया
 ॥ ३०८ ॥ नियउत उचचिन्ना—गाणाउह्वायधुल्मिरसरीरा, आया पद्मायमाणा—
 दिस्तोदिसि निष्पद्धारजा ॥ ३०९ ॥ तत्तो तमेय रहर—भारुडो जाव जाइ वरधणु-
 गा, नणित्रो कुमरो परिसम ससम त पात्रिओ इण्हि ॥ ३१० ॥ ता निदासुह मेग
 —मुहुचा सुवतन रहवरे णर्य, सुत्तो रयणवर्दण—सहेय अइनेहेन्नरियाण ॥ ३११ ॥
 पर्यथतरमि गिरिनद—मेग पात्रिनु रद्दहया थका, कहमनि कुमरो निदासुक्को—पवि-

जां तमन वृमार्गे थादा परिसखाओ देवीनि त्वमपतर पहेरी म्बुनी पत्रो सेंची नवा भेयना माफक चाखेनो मर-
 माट करया चाग्या ३८२—३०७ धर्मता मन्त्रि कुमारे णण जणए क्षोन नहि पापतां सिह जेम हरण्येने नशांने
 तप तन तमने इगल्या ००८ तेओना छत्र अने निगानो पदना थगा, अने तओ त्रोक त्रायुयता ग्राधी जम्बपो वड
 तम। माग्ना पणग्ना पाया मारता चारे गटुमा नागता थया ३०९ त्पारमाट तेज स्यपर चनी कुमार चानतो थयो
 पच मरुतुए वपु क तु इमणा जोर परिश्रम ररी थाययोउ ३१० माटे व्या रपर तु एक सुहूर्चिमत ऊव जइने
 मयार कयार म्नेतःमेस्ती म्बदली मयेत्त मट मवे ३११ पाजानी मर परिकला नीजमणापो जयता माका कटाज कया

३०५ ॥ निमसति, पहाण रह—मह्निद्वारयण च श्रूसियसरीर, इदूदूण म-
 पपरियरनोय कुमर च तो द्रगा ॥ ३०६ ॥ सनद्वघकनया—उष्पीक्षियधणुहप-
 द्विया होउ, नवनीरानहधारा मरिस सरप्ररिसण काउ ॥ ३०७ ॥ कुमरेणपि धीरिम
 मदिरण किचिपि प्रम्बुञ्जमोणेण, हरिण व्म हरिणगा तमरणेण ते हारि माणीया
 ॥ ३०८ ॥ निवडत उर्राचिन्ना—णाणालहधायधुस्मिरसरीरा, जाया पद्मयमाणा—
 दिमोत्रिसि निष्फद्वारजा ॥ ३०९ ॥ ततो तेमेव रहवर—मारुडो जाव जाइ वरधणु-
 णा, नणिओ कुमरो परिसम मसम त पाविओ इण्टि ॥ ३१० ॥ ता निदासुह मेग
 —मुदुरा सुवतज रहरे गत्य, मुत्तो रयणमईण—सहेव अदनेहज्रियाय ॥ ३११ ॥
 गत्यतरमि गिरिन्द—मेग पाविजु रदहया थका, कहमपि कुमरो निदासुको—पवि-

नम नम नुपाणे थाका परिरयागे देवीनि कत्रचलवर पहेरी नुप्यनी प्ठी खेंची नया मेयता माफरु वाणोतो र
 गण वया दाय्या २८२—३०७ ध्येना पदिर उमगे पण जराए कोन नहि पामता सिह जेम हरणोने नशाने
 नप नप नेप्ते हरग्या ३०८ तेओला उर अने निगाने पमता थगा, अने तेओ ओफेक आयुमता राधी जल्पो २८
 र्दी पाता पंगपना पासा पासा गारे गालुमा नाशता थया ३०९ त्याराण तेज रथपर र्नी तुमार पावतो थयो
 पन्वे सपसुए वदु रे नु दमणा जोर परिरथम र्ही थारवोउ ३१० मदि ज्या रापर तु ण सुइरुपात उज इइने
 मते मता. देवमन्त्रेची शकरी मयेज मट मये ३११ पवामा पव पविना नीतरणामा शकता मोका कता मता

यज्ञमाणतण् ॥ ३१२ जात्र निनात्रेऽद्विसतराद् नो तात्र यरथणु नियद, परित्रात्रिय
जलदा—इत्रोतत्रो होद्विद् गज त्ति ॥ ३१३ नजत्रयगहिरयोसेण—तेण सदेो करे
सु पारदो,—(अथाग्र ५००)—पन्नियण मत्रगमाणेण—महवि विद्दु रहस्स धुर—
३१४ ॥ अद्दमहन्नरुहिरधारान्निरा सजायसन्मो ताद्रे, नानादत्रो यरथणु—गृण त्ति
त्रिमण्णिय पडित्रो ॥ ३१५ ॥ तस्स रहस्सु व्वगे—निरुद्धसज्जगचेयणो धणिय, यणा-
नट्ठं सीयल्लजवपणासासित्रो सतो ॥ ३१६ ॥ उम्मील्लियचेयणो—हाहा जाय त्ति
रोत्रिज्ज उग्गो, यणानर्द्धेण क्कह्वह्वि—उत्तरमो रोयणस्स कत्रो ॥ ३१७ ॥ सा तेण
तत्रो नणिग्या—सुदरि नज्जद्द फुन न रिंवि जत्रो, कि यरथणु मत्रो जीवद चि ता
तरम वुत्तत — ॥३१८ ॥ उत्रवत्तु वुत्ता गयण—मिण्हि पञ्चामुहस्स मे सुयणु, जणिय
यात्राणो उय उन्नीयता त उक्ता करीरे आत्रुत्तु जोग ताम्भा वो अश्रुत्तु यत्रो नहि तेण त्रिमर्द्यु के ते पाली
सज्ज आत्तम गयो द्दण २१८—३१२ वाट तण न्या मेत्ता गर्वाग्—अत्राजथी त्ता पानी, पण जत्रा मत्रो १
द पत्ताणा ण्ण मथनी द्रमरी ण्णा नाद्वीथी त्तरमनी ण्णी क्कत्ते त्ते व्हेय वेडा क रचित्त मत्तुने मोदण मानी
२१८ न दे, एम वरदना री त मूर्त्तं गात् ११८—३१९ तुमार ते म्यना खं सारोण चोत्ता म्मीपमीग्गो, त्थारे
नरणीण र्तिः १७ उत्र अत्र नान्नाथी र्त्तं य पामी ते द्दा चाट' हाजात्' एम मही राम नाग्यो उता म्बवतीण
त्तमम र्त्तिः त्ते गता क्रुत्तवाया ३१६—३१७ त्थारे त त्थणीन वेदेष नाग्यो क द्दुत्तरि, वरधनु मया क जीवता ७
११९ ॥ १ न उत्र उ त्थी, ६२ त ११ नी गेय - ३६ ८, ८, मारे पादुत्तु १६ने त्थारे ते नानीके ण्णा वीहाम

गत २ मस्थि क्षणियं—तणुं तत्रो गामपहुण ३ ॥ ३२६ ॥ तत्रो गामपहुण ३ ॥
 —जह यणगहणे इममि सो होही, त इहिटि धुम जम्हा-णसा अरुनी यमे मक
 ॥ ३२७ ॥ तो पेसिया नियतरा—सयतो आगणहि तेहि इम, मिदु जहा न अम्हे
 हि—चोद आबोदत्रो तरय ॥ ३२८ ॥ केरन मेम खुवतो—मन्नीयत्ते पात्रिओ पह
 रिऊण, सुहन्स करसइ तणु—जमजिहासद्विजो नाणो ॥ ३२९ ॥ तन्नयणायाणाण
 जायत्तिन्नयेत्रो स सोइउ सुचिर, वहकहनि डिउससेस-गमेइ रयणीद पत्ताण ॥ ३३०
 सुत्तो रयणउदण—सम मेसो णक्कजाममित्ताण, रयणीद तत्थ धाडी-पन्निया चौराण
 कुमरेण - ॥ ३३१ ॥ दूरायदियुधणुणा—सरेहि कडुयात्रिया दड जग्गा, चौरा पयरुप
 णेण—धुणिया जह घणा गयणे ॥ ३३२ ॥ गामपहुणा सगामेण—दूर मज्जिणद्विओ
 पणयमार, को नाम तुह सरित्त्यो—जयवट्टीमद्विर पुरिसो ॥ ३३३ ॥ पत्ते पत्ताय स

पयणी आरिने गजो ३२६ ए गयत स म सगे जो आ लथा ते हुत तो नही न मत्री आशे, रेपके आ अ
 री मय बज्जाको छ ३२७ गट तणे गम पेतना माणको मोरनाब्बा तेभणे आरीन एम गणु के अमे त्या मो-
 न नायो नयी ३२८ मत्री पत्तन सोइ सुजन्ना गरीले नलीन जमीनपर पकेतो यमनी जीजेजेओ आ गण मत्रीआ
 ध्या ३२९ न रतन सांत्त्री कुभार चारे म्ब पामी यणो यत शोक री जपेपेप यक्कीनी त्रियत पणप रत्वा नाण्यो
 एर गण पदी ३३० ते रतनीना गाय गृतो णसामा एक पट्टेर सति जतां चैरोनी त्या थरु पदी एतेने तुमोरे घ
 बुय गेनी तेवन पत्ता सण गणामार्ग के तेओ आरराएतयी आरशमा जय गटग नागे तेम नाशी गया ३३१—
 ३३२ लारे गाममद्वित गायमणी तने रवाणय नाण्यो के नभारा जेओ जयशात्री पुण्य गेणु डे ? ३३३ गट मत्तान घनां

माग--गामपहु पुष्टिउण परिचिओ, रायगिद्धसमुद्ध तस्सुणण सहिओ गओ वाहि
 ॥ ३३४ ॥ गगमि तत्य परिचायगाण निज्जण उत्रित्तु रयणयद्ध, नयरुत्तरेदेस --पविदु-
 प्या दिदु मंग च -- ॥ ३३५ ॥ अडभृग्ग्जसयसन्निविदु मत्रिणदुच्चित्तकम्मजुय, धन-
 चहर मग मुत्तुगसिग सोद्धतज्यमाल ॥ ३३६ ॥ आन्नोदियाउ नियरूत्तत्रिजियसुस-
 द्विचिया विमालाओ, दो तत्य सुदरीओ--दट्टुण कुमार मेयाहि-- ॥ ३३७ ॥
 नणिय कि तुम्हाण--सहानओ परायारमारीण, जत्त मणुरत्त मुज्झिय जण ससु
 निय पग्ग्जयेउ ॥ ३३८ ॥ नणिय मिमिणा जणो को--सो जो चत्तो मण जणह
 तुज्जो, वीरउ आसणगट्ठण--यसाय मम्हासु काऊण ॥ ३३९ ॥ इय विणत्तेण क-
 द--आसणगहण कओ य उवयारो, सायर माहारपयाण--माद्धओ तदवसाणमि

कुमार गामरानीनी रत्ना वद नेना छेत्तग मये राजपुद्द सपे राज्ञो ३३४ त्या नगानी वाहेर एरु परित्राजसोना आ
 श्रद्धां गनरतीने मेद्धिने तुयाग नगानी अत्र पेओ त्या नेणे एरु मद्देव जेयो ३३५ ते महेत्त सेरुफो स्तजयाळो,
 मत्ता महेत्ता चित्र रंपयी पुक्त, अने उचा गंचार फलवती धत्ताओवी शोचतो हतो ३३६ त्या पोतानाम्पयी अ-
 प्पाट्टानि चीनार विगाळ आयोवाजी ये मीओ नेणे जोइ तपणे तुमाने जोइ तपु के, तपारा जेया स्वनारयी प-
 भेत्तमारी पुग्ग्ने अत्तुगम ननत्तने केत्तीने नत्तता महेत्त ए गु ठत्ति ने? ३३७--३३८ तुमारे तपु के मे तया ज
 नेने पेत्ता २१३ उ ने नेने वशाको नेच्छा बोवी र यो अमाग पा मग्ग्वाती रती आगपण येतो ३३९ आ मीने वी-

॥ ३४० ॥ जणिउ ताउ पत्रताउ—अरिय इत्येव जग्ग्यापणि, येयइहो नामगिगि-
 कतवहुनिज्जज्जोदो ॥ ३४१ ॥ निप आणमपुणाओ—पु-वासग्जनहिउउमडिमि-
 णणे, जो माणदरुनीन—विनयाण मन्नियसूरपहो ॥ ३४२ ॥ णाणामणिणियग्गहा
 पहरपरिच-ऊसाणातिमिचरे, जय न मूरो चनो व्य मिति परतागमुपननद ॥
 ३४३ ॥ तलनाहियासिधपवादेहेतपरिमत्तेमो, उणदुणपिनोदज्जमाणमाणोमडिमि-
 मूदो ॥ ३४४ ॥ विजादेरेहि कीलापेरेहि निज्जमणे द्वि सन्नतो, पग्गिनुज्जमाणदेमो
 —दीसनेउरयसहस्सो ॥ ३४५ ॥ चो मणि जामुसूको—उच्चमित्तो महड अररन
 नाओ, विग्गुज्जुओ न पग्गिओ—यणनियदो णोणघट्टणओ ॥ ३४६ ॥ अच
 तुच्चामु च मेह्वामु सोहति जय ताराओ, पेस्तचरतीओ—कन्दिमणिपिंकिणिउ

र आन नरतत्रुषां वान्यनाम पंत ते के ज्ञापी अनत नीरुणाना पाणी ३४७ व एत्तो
 चांया उ च पूर्वपश्चिम म्दया ररियाना रे। आतेती ज्वीन मापरायां ते पालइत तरीक इव्यां छे, अने ज्ञात्तां गृ-
 र्चना मांन अन्नां छे ३४८ ज्वां अनेर मणिओमी पनाना अन्नायायी अरारी इतउ एत्थे गृयं उ म्पाण व्या
 णाना नयी ३४९ तेनी आउगुत्तो मदन नीपे रहेता गगा अने मिज्जा म्पाटवी शान्ते अने पां उग्गेर अनेर
 अणधिओ मली ओरेउ ३४४ तेणं सपत्ती तफ गात मयथी रीसा म्पना विद्याथण तेना अमुक जाण पांरे उ, अने
 त्तां इज्जत आश्रयं हेता ते ३४५ तेना निम्पण मणिओमी म्पत्तेउ, अन ज्वां कपी उची निनाओ पंकेवी ते
 नयी जण आसायायी प्फरीनागं अयकीये पीमली गाथे नीप पंकेता पाळ हाए तेस ते देयाए ते ३४६ तेनी अति

॥ ६८ ॥
 ॥ ३४७ ॥ जल्यय विजाहरकामिणाण सुहमरुण पसरुण, ।नास ।सहरगयाण
 ससी-मणिदप्पणतीत सुव्वहइ ॥ ३४८ ॥ तह जरय महोत्सहिगधरुव्वीरियफणिदव-
 देसु, चदणणेषु निञ्जयमणाइ कीलति सिहुणाइ ॥ ३४९ ॥ णियमाहप्पोणाभिय
 समत्थसामत्तमत्थयमणीण, वहलकरजालसद्विलेण निच्चसिच्चतकमकमलो ॥ ३५० ॥
 जो तत्थ दाहिणाए-सेढीइ सुदिदुगामनगाराए, सिवमदिरे पुरे अत्थि-पत्थियो जत्त-
 णसिद्दिनामो ॥ ३५१ ॥ जोएह वय सिस्सिरकिरणस्स-तस्स सोहगसप्यनिहाण,
 विञ्जुसिद्धा नाम पिया-अम्हेा तस्से सुया दोवि ॥३५२॥ अम्हाण नट्टमत्तो-जेदो
 जाया अहण्णया चणगो, अग्गिसिद्दिमिरासहिओ-अत्थइ गोदुीइ जा ताप -- ॥३५३॥

ऊची भेलनाओया ताराओ जाणे तेना उंके चान्तो स्फटिमणिनी क्रिस्मिओ जेनी बागेउे. ३४७ न्या निगार-
 रीओ राते ररुनी उंचे रही पेताना मुखे शणगात्ता चद्र तेमनो आरीसो थइ पनेउे ३४८ ज्या महंगधिओनी गरबी
 नकळा पनेया सपेविला चदनना त्रणा वित्राप्रोना जोरुता निर्नय मन रागी रम्या करे छे. ३४९ नया जेना रमामर
 (तेनेटी) पोवाना माहात्थरी सपस्त सामनेना मस्तकने नवामनी मणिओना थारा किरणरूप जउयी हेमंग सौचायना
 रहेउे ३५० ते पंचनी रुनादेवाता गामगराळी चक्रिणश्रेणिमा धिसमट्टिर नगरमां उरुलनशिबी तामे राजा उे ३५१
 तेनी चट्टनी बांमुदी जेनी सांजायसपदांनी स्वाण विद्युत्तनिवा नामे राण।उे अने अमे रे तेनी पुचीओ उंचे ३५२ ना-
 ट्यमत अमार मोने जाइ थाय हेवे पककेला अथारे पिता अग्गिसिद्धी पोवाना भिनो माये मोहोवां जेउे ३५३

ते अणरुत्तकर जिननित्थाअत्ति बोदथा कम्म सुक्क पत्तिअरुत्त

॥ ६९ ॥ पेळइ गयाणे अदावयमि जिणविचवंबाणानिसिक्क, देवासुरस्संषोइ-गाळर मत्तुळविल्ल

पेन्द्रह गणणे अद्रुत्तयमि जिणनिवदणनिमित्त, देवामुरससोद्ध—गजत मवुत्तवित्र
 ॥ ३५४ ॥ त दद्रुत्तुण पयद्धियसद्धो राया सम मिय पयत्तो, मित्तेहिं अम्भेदि य-
 म्मेण पत्तो य तत्थ नणे ॥ ३५५ ॥ गधुत्तेदिं यधुरयंथेदि मिनतनमनमानेदि, म-
 दारपारिजायाइ नियसत्तककुमुमनियरेहि—॥ ३५६ ॥ परिपूह्य चययने—रूपुरागु-
 म्मुगधय च, उग्गाहिकण शुणिकण निग्गत्तो येह्यहरात्तो ॥ ३५७ ॥ निग्गत्ति
 ण पनोध्य च पद्यमयपसमुजसय, हेत्तु अत्तोयमानम्म—मनिविदुं पाण्डुमय—
 ॥ ३५८ ॥ चारणमुण्डियन पणमिज्ज जत्तीइ सनिविदुं मो, नीरत्तत्तयिज्जनह-
 र्गहिराण चारदइ तत्तो — ॥ ३५९ ॥ पारद्वा धम्मकद्दा—गंगेण तेसि ममणसी-
 हेण, तेसि सुराण अमुराण येयराण च जह पत्थ ॥ ३६० ॥ कद्वहीद्वत्त य पेत्तय-

श्रद्धा ण वी एत्ते ने मित्ते अने अमान माये तंभी अनुत्तम तं पत्तय काव्या ३५५ या म्मायि थोर म्मात्त-
 ता, तपराथी योग्यता, म्माणारिजातसारे नेत्तन्ता प्रज्ञेयी जगताने त्ती कपुरअग्नोसुगधी इए द्द म्मुनि वरी
 तं पत्थमिन्दि वीहिर नीकत्तो ३५६—३५७ गाहियत्ते अशोफत्तना नीने वेत्तेत्ता म्मरहित अने मयद्द म्माणु
 णना पुजयमान वे चारण मुनि जेया तेषने जनिपूक न्नीने रागा न्नां वेत्ते तेषाम् सज्ज मेवना जेयी गत्तीग्गणीची
 —नर्पना पर मुत्तीश्वरे ने गुर—अपुरअने विद्याग्गेनी आगठ पंपरया कन्वी शर वरी ३५८—३५९—३६०
 आ शरीर केत्तना गत्तेनी माक्क वामत्त अने अनेकेणत्तु पर छे रिपयोना मुप धीज्जतीना ज्जारानी माक्क इण च
 गुर ३६१ आ जगत्ता नीयेत्तु आणुय गत्तत्तुना मयापरजत्तु छे बहुत्ता तायेनी म्मीनि प रिपयत्तना म्म मा-

॥ ७० ॥ मिमं कथेवर मणेगरोयगिह, तन्दिदडानुवरजगुराद ही तिसयसोम्वाइ ॥ ३६१ ॥ स
 रयसमुन्तमहद्वन्तम जीविय जियाण जण, किंपागफन्न व विवागदारुणा बह्वहसि-
 णेहा ॥ ३६२ ॥ उव्वणययणोद्धोदिय कुसदद्वजवजद्वज्जाउं लद्धीओ, अनिमित्त-
 मेव दुम्भव—पइमण पेम्सइ जणो य ॥ ३६३ ॥ सयद्वपुरिसय्यकारण—सइडु-
 ल्हो माणुसो जगो एसो, निच्च पचासन्नो—परिसक्कइ सब्बओ मच्चू ॥ ३६४ ॥
 मसारपरिच्चाय—आउमणेहि कुसद्वेहि जिणजणियो, सब्बायेरेण धम्मो—परिसुच्चो
 सेवणिजो ति ॥ ३६५ ॥ इय मुयमुण्णिदयणा—उव्वद्वच्चद्विसुच्चवोहिणो सत्ता, जे
 आगया जउच्चिय तत्तो चिय ते नियत्त ति ॥ ३६६ ॥ अग्गिसिहिणा वयसेण
 मम्ह जणगस्स अमसर दब्धु, परिपुद्धिय जहा को—जसा एयाण वालाण —॥
 ३६७ ॥ जयव हो हि, जणिय च—तेण एयाउ जायवहगस्स, जज्जा होहिंति निसा-
 मिउण कसिणाणणो राया —॥ ३६८ ॥ एत्था वसरे बुत्तो—अम्हेहि ताय एस स-
 फक परिणामे जयर छे ३६९ तेषानो पवनथी कोलती दर्जनी अणीए रहेना पाणीनिविट्ठनी माफक बद्धमी
 चचउ छे अने दोको ओचितीरिंति दोरुपळे छु लमा जइ पमे छे ३६३ वली सगज पुण्यार्थनो सायक आ मत्तुपणो
 नर अत्तिट्ठुर्नज छे अने मत्तु हुमेश नभीकया जमेळे ३६४ माटे ससार लोका इत्तनार चत्तुरजोए पूरता आदरथी
 जिनज्जात्ति परिशुद्ध धर्म सेवथो जोइए ३६५ ए रीते मुनीदता १११ सांजनी निर्पत्त सभ्यस्स पावी जे उपाथी आणया
 इता ने त्यो चाव्या गया ३६६ इये अथपण पिताना मित्र अग्गिंशिले आउतर पावी पुल्लु के, हे जगवन् ! आ
 पागोत्तो जग्गे वेण थो ? मुत्तिय बधु के पओए एपमा जाइने मात्तान्ती जाथीओ पथ ते ससिक्की रा

३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९

नपि अत्रराज्ञाश्रो, जा रोपिउ पत्राउ—तान अइनिउणत्रयेणहि — ॥ ३७६ ॥ पु-
 ष्यण सयोदियाउ तह नट्टुमत्तयणाश्रो, विणायवश्यराश्रो—अत्ता एयासि वज्जसुश्रो
 — ॥ ३७७ ॥ होहि सि तहा अणिय—न त्रिगपो णत्य कोवि कायब्बो, सुमरि-
 ज्जउ मुणियण—मत्तिज्जउ वज्जदत्तपई ॥ ३७८ ॥ तव्वयणायणश्रो—मणिय म-
 म्हादि साणुरायहि, तो रहसपरवसाए—तीए चडिया सियपत्तागा ॥ ३७९ ॥ तो र-
 चासंकेण—विमरीयराण मुवागए सते, अण्णत्थ कत्थइ तुम—पउरत्थ मन्नेसमाणीश्रो
 ॥ ३८० ॥ भूमीमरुल माहिरुमाणिगाश्रो डियाउ नय दिट्ठो, कत्थइ तुम विसणाउ
 —णत्थ अम्हे समायाश्रो ॥ ३८१ ॥ अवियक्कियजच्चसुमन्नबुद्धिविच्चममचित्तणिज्ज
 मश्रो, जाय तुज्ज निहाइण—मज्ज म्हाण सुहनिहाण ॥ ३८२ ॥ ता परियकप्पहु-

गोगयी अटवीना अतत्रालने वेहेरु वरती अमे रोय दागी. एयाभा अति शाणपणना वचनोथी
 पुणववीए अमने समजारी, तेमज नाश्रयमित्ता मुवे तोणे अमरां व्यतिर जाणेथो हतो के, एमनो पति ब्रह्मदत्त थो
 तेथी तेणीए वगु के, आ वात्ता वाइ विरुप करो नदि, अने मुनिउ रचन सजारी ब्रह्मदत्तने पति करो ३७६-३७७
 ३७८ ते वचन साजळी अमे अद्रुगावळी धडेने वे वान माय करी. त्पारे तेणीए हर्षयेनी वनीने उतावट्ठमा धोळो
 पना परकारी ३७९ नथी गतीने सकेत फरी जयाथी तेमे त्याथी बीजा स्थळे जता रगा; तेथी अमे तमने शोयनी ।
 पदी ३८० अमे वृषभरपर पगती रही, छतां तेमे रयाय तेव्याया नदि एत्ते दिनगीर थइ इहां आरी ३८०
 मो अत्राणी जातीया मूर्खनी टुष्टि थइ के, अण्णवित्तगु अमने तपार्हं मुल्यकार दर्शन थगु ३८२ तेथी पगेमे
 ग्रा ३८३ व ३८४ र पत्र दे इडा जाम । अमे पुण्यवतीने अतिकर वाए कर्त्तनि अवाक इच्छित्त पुर्न करो ३८३ त्पारे इथेमे

म—सुम महाजाग सुमरिज्जण तद्दा, पुण्यपदं वद्वार—गायसु मभीक्षिय अम्ह
 ॥ ३०३ ॥ तो रहमपरसमाणो—ताथो नीवाहिकुण उजाणो, रत्तीण नाहि मम—
 त्या पत्त विजायमि— ॥ ३०४ ॥ उताउ न्ह ममीं—पुण्यपदं विणीयम्याहि,
 ता उतरन वा अम्ह—रज्जनातो पियजेह ॥ ३०५ ॥ ह्य सतासु ति परपिज्जण
 तामु गयामु पामाट जाप पतोयद नो किचि ताप त धववहमाई— ॥ ३०६ ॥ पा-
 नानमम— ॥ ३०७ ॥ जाय विनसिय मट सुमरिज्जण र्थापदं सचच्चित्रो, अणो-
 मणय माग्ममसमुह माधोयण न तय ॥ ३०८ ॥ क पुञ्जामि पउत्ति—ण चित्तिय
 पनाट्याउ दिग्गा नय कंठं सम्मन्त्रियो—उिआ मरती तय चेत्त ॥ ३०९ ॥ मणोमे

राउत्त थ— इमाग नपन पण्णी उयानवां गत तपना माय रथा मजाा यवातण तपन रतु र थां नगी
 पन तय मते या नणण नेमे पियनवाती मना पुण्यनीयण न— र्हा ३०४—३०५ डीर उ, णम न
 रगिउ णम कवी तथा रान थः एते इमाग आतुसाउ जारा नाग्या ता मन्त्रणर र— र्गातु नहि
 एत इमाग विगार्तु क ण विचारणीआण आ सपत्ती पाया मरती नाग न नहिवाआ इउत्ताउत्ता रप म ३०६—
 एत रान थुत्त णम । लवी तासाउ नवर करी ता राट नगाप त्थार जज्जो नदि एत्त वन सतागतीन त उताा णा
 उण एवामा इणमाउ एगा धर्मा ण मुग्धआसागारा अण पापी वयसाउ पुग्ग या आरी एत्त

साध्यां गगो-यद्वाणाकाराधो परिणश्रेय, पत्तो पुरिसो परिपुच्छिओ य जो जो महाचाय
 ॥३००॥ण्यविहनेरत्या-कहो ना अजानान दिदु ति वाद्या काड जमती-इमाइ अरुवी
 इ मइहमि ॥ ३ए१ ॥ तेणुत्त जत्तारो-किं पुराय तीइ होसी. आम ति, जणिए कु-
 मरेण जणाइ-सा मण जइ रोयती,—॥ ३१२ दिदु। वरण्हसमये-कासि तुम पु-
 त्रिया कुओ चेह, कि कारण इमस्ता, सोयस्स कहिमि गतव्य^१॥३ए३॥कहिय मिसीए
 गगरगिराट किन्ची वियाणिया ताहे, जणिया जण ममच्चिय—त पुत्ति डुहिट्तिया
 हांसि ॥ ३ए४ ॥ तीणच्चिय चुह्वपिठस्स साहिय सायर च सगिहमि, नीया तेण तु-
 म मिय—गेयसिओ नउण दिदोसि ॥ ३१५ ॥ ता सुदर मिहजाय—ज मिद्धि-
 ओ सपय ति नणिजण, सो संस्थवाहगह—नीओ विहिओ य वीयाहो ॥ ३ए६ ॥

प्रथम वायो क ह महाभाग, ३ए० तमे आज के वान आया दरंश्यात्री सोड सी आ अट्टीमा जपती जोइ डे ?
 -ए१ त वाय्या के पुत्र, शु तु तेनो जर्त्ता डे ? कुमारे वगु हा लारे ते योथो के हे जट्ट, में तेने रोती यकी यराटना
 यत नइ एवी में पृश्यु के तु बोण छे ? स्यायी आरोनी छे ? शा माटे आप शोक रेरे डे ? अने स्या तारे जनुछे ?
 -ए२ ए१ यारे तेणीए नोत्ता अयाने मंदक रगु, तेवी मे कांदक तेने ओत्तयी एत्ते मे तेने रगु के हे पुत्रि, तु मा
 रीन तेडिबी यारुं, ए४ यद तेणीना यामने मे त यत रह्नी तेवी ते आरगुमरे तेने बोलाते परे तेकी कायो
 अत नारी एण नराय करी, एण तु स्या येनयाया नदि ३ए५ माटे सारं थरं के लपणा १ मलयो, एम कइी कुयरेन ते
 सारं-शालना चेर तेकी मय १वी कुमार एअरुपेन एण ३१ ३१५. ये उअरुपेनीनो देअरुपेनी काक ५४४

रथणमण्डल तस्मिन्नाज्ञसो जा गमइ दिवसाइ, ता रथगुमरणद्विणो—समागत्रो
 मस्थिय नोऊ ॥ ३ए७ ॥ बुद्धति नजणाई—नजणनेरथधारगो ताहे, तत्त्यागत्रो
 रथण—नोपणमजेण जणिय च ॥ ३ए८ ॥ नो नो साहज्जउ नोच्चकारिणो
 इरदेमत्रो णगो, चउनेत्रो चूत्तरयणसद्धितो सयत्तपियाण — ॥ ३ए९ मगइ नो-
 यण सुयगमि जस्स जत्त कट्ठिनि सपत्त, उअणमइ जअत्तवत्तिणोनि तुम्हाण पियरस्स
 ॥ ४०० ॥ सिद्ध कुमरस्स तय—नोयणविणिजत्ताणहि पुरिस्सेहि, ताहि विणिग्गत्रो
 ज्ञा—ता उमरो रथणु नियठ ॥ ४०१ ॥ किञ्चि रस्सत्तर मपुज्जेमत्त सज्जग मुब्बह-
 तण, आनिगिओ पविट्ठो य मट्ठिरे मज्जिओ सत्तो ॥ ४०२ ॥ कयचोयणकरणिजोय
 —पुट्ठिओ नेण न्ह रयम तुह, नोत्तीणो कथ इमो—डियस्स माओ, जणइ ताहे
 ॥ ४०३ ॥ गट्ठणमि नमि ग्याणीइ—तीइ तुम्हाण सुहपसुत्ताण, ण्णेण पिट्ठो धा

षिचय एसा कथा साग्ग, नेचणो वत्तुत्ता मग्गनोदित्तप आब्बा, एव तेत्ताणो जेतत्त कम्पु ३ए७ ते जेतत्त
 शतत्तपत्त, एसा ज्ञाय एवणो आत्तगतां कथा री रग्गत्तु त्या चोत्तव कथा आत्तीत्तयोः तेषु एव— ३ए८ हे
 शयासाओ, तथा तथात्तनाम कथा क इत्तशयो एक चत्तुत्तनी अने रय आत्तगतां मुग्गपणि अविजो उ, तात्तात्तु माग्ग
 एव एवणो ता इत्तरीत्त तात्तनाम कथा इत्तसा विजिअने पग्गणोत्तरे ३ए९ ४०० जेतत्त वीरग्गता
 आण न गात्र इत्ताने कथी एत्तन इत्तपार गात्तआत्ता पत्तत्तुत्त तात्त ४०१ योरे इत्तए रइ आत्तग्ग पामीने तेने
 पयागत्त जे जेत्ता एत्त नत्त यत्तिसो नदी नराग्गय ४०२ ते नदी रइ, गइ इत्तए तेने एत्तु के हे पिय, तु आत्तओ
 शतत्त कथा इत्तए कथा ते सात्ता ४०३ वत्तनी पग्गत्त वत्त गत्तगत्ता इत्त नेत्तसो पक्क गोपत्तव्यो लेही पत्तना गीत्त तुम्हा

णाविद्यासु हीनासु, धर्माच्छ्रित्यकृत्स्नयरीविज्ञासासु — ॥ ४१३ ॥ सुमहद्वा-
 रात्तद्व्या—नेत्रि कृमारा गया पुरुज्ञाणे, दिद्वे तस्य गद्द्वे—गीयञ्जणिकरियदण
 चना ॥ ४१४ ॥ ममिनिगान्धिमडो—निरकुसो सद्यओ परिजमतो, वदधीयनस-
 माप्रा—चण्डीनाओ विज्ञोवते ॥ ४१५ ॥ हहोहृदण ष्टतयमि कुनयादिया न-
 उञ्जना गदिया णगा तेण—करिणा करुण विज्ञरमाणी ॥४१६ दिना सा तेण ग
 ट्थोररगोचरा दुसारेण, उदियममाणोमधनाहुमुणाञ्जा कमद्विणि टय ॥ ४१७ ॥
 विनुञ्जनेमपया—जयतरलनिद्वित्सयलदिसिनयणा, नियरमय मपेउती—सुमरिय
 मगणतरगणीया ॥ ४१८ ॥ हा माठ माड गदिया—रभउसु करिरमपसा ऽम लुरिय,

रन्तल गुणरागा पयानिटी गृग आना रमण्य आळो ४१० नेमा धनला विश्वायी अत्रापुरीनी मोऊने
 ट गारनी सासना कनकनतनी गपन इर थन, एत वार कुनुहृत्ताञ्ज त वने तुमारे नाला उधतना गया तो
 मयण गान्तो चिनियो गननरने गननागे ण हारी नायो ४१३—४१४ १ हावी मातने नवीनपर एककी निकुसा
 २. माथानु तपना थान कल्या गता मारक गारानी गपनात ज्ञानता आग्या ४१५ न मकरमा ते हावीण रग्ण
 विश्वाय काने कनकनी कननी एक कचण्डिका पकरी ४१६ तुमारे नागु ना ते हावीनी नयपर गुम्भां तेनी
 चाप १ हाद्व्या कचण्डिका मारक वीरानी ४१७ तुमारे वन कुरी गण हुना, न नपवी जोगलक नजर रग्नी अ
 न गायना वा कपार नद्वित्यायी मानीक्यानु कर्ण गजाणी हुनी ४१८ इ या येने हावीन्य राहग पकरी नाप

कुमरादि तस्स पुराप्रो इतीसि वनेतरुधरो धादु, करपज्जनानिभामयानपपाणायावदप्र-
 चासो भ०८ कमज्जणियकुमारगालगक्षयपसरतरोयन्दुंगो, एमेस पापिओ दय म०८
 मा धा०८ गद्वो भ०७ विपरीयपीमणयसओ—कुमरेणापि च सम तदा नीओ,
 चिन्तविहिआल्ल जाओ—यणंण सो मत्तमायणो ४०७ उवद्वठनिमित्तयअमुमत्तयो
 म्किक्ख समारुढां, कुमरो नीतुप्पद्वओयाणुहिं महिआहि द्वीसतो भ०९ तह चदुराहि
 भिगहि—यणत्तो सो करी जहा रोसो, तस्सो सरिओ आवाणयत्तवीणो च सो
 विहिओ ४३० उच्चडिओ जयसओ—अहो परम्मनिही दसो दुमरो, जेण जियाण
 डुहत्ताण—ताणकरणमि पणुणमणो ४३१ कहमत्ति तन्नपरपडू—राया अरिदमणना
 मगा तमि समा ममागओ नियद—दुमरवुत्त मियरुच ४३७ विम्भियमणो य पु-

दयाना आगत जग ग्गती मोरु वरी देवी गुरुना नत्रीरु फाल्लो हाथ धरी नेन वज्रगतो यको गंरुया क्षायो ४
 ७ ०४ तुपर आगत चयत्त तप हाथी गुरु गुप्प यद गुरु जगतो यद, आ परत्त्या आ परत्त्या एष विपार रा-
 यो न हाथी गरुतो एया ४३७ यं तुपो उवत्तरीमा न्दवीन तव एते उतो शक्कीनाया र ते छंकेना माना
 ण्णयाया विवाण्णमं विवतो हाथ नेप विय ध० ग्गो ४२० त्योरे तुमा वीद्वण अरुश ब० तेना ग्वापर र्गरी
 रता नव नानापनेवा पंचमाली गीओ जेनी रही ४२९ गदेत्ते ने एवी मीडो वाणीयी सपत्ताथो क तेना रो
 प उन्नीगया, अवे तन आनान स्तनमं वां या ४३० त्योरे सो कोरु साये कठुवा व्याया क आ तुपर वया पत्तमी
 उ क न दु ग्गथी पीत्तापसा बोरो यवाक्का तंणागे ४३१ ए चत्ते वेदरिने ने नानो अरिदमन राना यो अपी



वदाम ॥ रात्रीणे हरिश्चाण-णीया रहस्येति परियेणेण गिह, तत्रयि न मज्जाणत्-
नहविट मउमन्निवसत् ॥ ४४० ॥ कीञ्चियमुह व्व कंचव-मत्यइ परिचत्तयणा

याया पुत्ति अरुणे त कीस-गरिम पायिया वसण ॥ ४४१ ॥ इय तणिण मा
साहइ-तुज्ज सन्न पयासणिज्ज मे, बज्जा इय परज्जइ-जइति तहात्रिय नणामि

अन्न ॥ ४४२ ॥ रत्तयसम्पाउ तत्रो-रिणो नियपाणदाणत्रो जेण, परिचत्तयया
सस तण-पाणिगहण जइ न नोही ॥ ४४३ ॥ ता मे अयस्ससरण-सरण नि तत्रो

विमामिउ सहिअो, पिउणो इमीइ सवो-दुत्ततो तेणवि समीये ॥४४४ ॥ तुम्ह मत्त
पचयिया-चाव मिस ता पन्निउसु तुम ति, कालोयत्र मेयेनि-मन्निया सावि उरगणुणा

॥४४५॥ गह मञ्जेणवि विणा-कणा नव्वान्निहाणणा विहिय, नीयाहमगव जति वासरा
पाए तना पन्ती अत्तिवाण धरी पाणे ४ ए त्पेके हाथिनो चय य्वा तणीना परिचत्त तणीन य शागदी, णण

तणा त्या म्पान यार शरसिनी मन्नाउ वेती नची ४४० तणान मुये यीवाजत्त्या हाय त्प योन्ती रत्तीनिवी, त्थी म त
न उउ। र इ पुत्ति, तु ओरिनी आया उप्पन वप पापीउ ? ४४१ णण उहुतां ते यानी र तागी आगउ पाए रती या

रत्ती वाइय वा र मन पाप वाण छ, इतां इ उहुउ के राइयजजा हाथीथी पाणाना पाणाना वापय मन जण यती या
उ तना वा। न। पाए पाणिग्रहण नहि थाय तो पाए अरय्य पाएउ तण - ते साट्ठी ए मरत्ती यत मे तना वापन

तपायी ४४२-४४३-४४४ तण णण मन तपारी आणउ पात्वायी ले गोटे आ याउन तप म्मीयारा लोके
असए आरिनी यत गणीन यत्रुण वन णण उउव राग्नी ४४५ तेषज पाणा मत्रीए णण उय नाम यया तेन

गणेण ॥ ४७३ ॥ नो ब्रौ सा न्यवदन्तरामि नियमादराम डापत्रा य, कम्पवश्च इत्य-
 या-यगाभिया नीः नीराहो -॥ ४७४ ॥ एणाणाविह्वयगयग्रहरारास्तामगियापया
 ङ्ग, चुनो प्मरद्विभंमे-यत्तिभ्रौ तीः त्रियन्नुह -॥ ४७५ ॥ सेपत्तो जा चिउद्-
 ता द्याकाभिरिभ्रौ समगुत्तो, नत्नाहपुत्तूनो-गुमसि स्पेहदत्तो य -॥ ४७६ ॥
 नह मीणं नरनाडो-तवदत्तो सेपचदमादय, नहयो नराहिया, मिलिय-तेहि तो
 यर गुणविट्टिभ्रा -॥ ४७७ ॥ अथिमिधिय म्पेणावडयभि चउरगविठ्ठवडयभिभ्रौ,
 नीःसम्पेपत्रणस्रा-स्त्रीत्रपुगमि पेसत्रिभ्रौ ॥ ४७८ ॥ अणमख जा गतु-स पयत्तो
 ताप नीःनगट्टणा दसगाटनवर्देण-दूभ्रौ म्पेभिभ्रौ जणिय -॥ ४७९ ॥ तेण जह
 नीःवगया-तुम्पेपि अमग्मि पर पत्तो, न तन यत्तत्तो-तु-जेहि पुरस्सरे विट्टि-

४७३ पञ्चान न शाप्य भव कउरवरी न्यपनी पयनी पुगी द्वा गदी वा गगा त्रिये अन्तक हायीयादा अन्त रयनी
 म पत्ती आगया गत न्य वीरव कपय, दव वीणि य कुन काह विताप काय जगमः ४२४-४५५ १ मोत्ति
 १५ कगम म्पे हला, ल्य ली र्पेण क ल, न तुम्पेयन गतुत्ती क गुम्प य विह्वयगम, तत्तय, नया प्रयाकाद १
 ११ -४ शालाभा न्यो द्यापि उ-एण उदय एहजा उ- कगदुत्त मेनात्तिना य अत्तिरो कया ४५६-४५७ १
 १ ४ यगुत्ति कयती यगुगी र्पेणो द्यापय न्पेनाम क्तिनात्त न यगम दाहदया ४५८ न निम्पयगणे तसया गयो
 मयपी क्तिनात्तम एउह यम एउहया कउर न्येपु उ कपयन्ता ६७७ १, १ १ तुम् क, वीणिगता म्पेयापय गोरे

नदत्तां नरिद्वयं, कविद्वयं कनड-समतया सजसुञ्जन ॥ ४६८ ॥ तेनज्ञेयं
 त्रियाण-मानोवरितनगयाण य ज्ञाण, अष्टोष्णगयडुस्सहमड्वरतिसमेगविहुराण-
 ॥ ४७० ॥ अण्योरविद्वियमहाराणनीरथ उअनरिसाण, कयनिइयमह्यपहाणतूरन-
 रायरजटाण ४७० ॥ जनविणित्रित्तसुनत्तनिह्विविह्वरुत्तपत्तिअण, फरगतिसोद्वियर-
 मयणमाणयागारमुनाण— ॥ ४७१ ॥ रोसपरवसडुद्वेयधमुच्चतनिट्टुरगिराण, दित्त
 ताणमूनपस्येअनियररिमारिमूराण— ॥ ४७२ ॥ निसियकुहानकयताडियत्रियरुपओ
 नीरुआरुअण यरोरनअणानोअजाणविह्वडियकरिअण— ॥ ४७३ ॥ नीमाणि कुञ्ज-
 ट्ठरागगाणि हामानहाणि जायाणि, आयोद्वहाणि पइद्विण-मइवाराणरोसपसराणि
 ॥ ४७४ ॥ ॥ ॥

न नारीना अवातनी मया कसक रागता माण्यो गवेवा दत्ता, नेमा अता आरवातु कथ सेव दत्तु, तेनी चारे य
 गता अण्ये वाडराराय पन्था माग्या दय्य नेमा विट्ठार यतो गाउया दत्ता पय दीरिअणए सोमे आरता अउरता
 तार नयत्ता सीडि यन गग मय्य मय्ये वनाची दती ४६९—४६७ इवे मय्यन न गताओन साये रागी मड्वमयी
 धीराय वनिपयुन तार वापुवी गग माय्य वायो ४६८ त्यो अअता मुनेगेनीच रया दत्ता अने आ येरला
 गुनग विट्ठार वन्ता अय्य पवचीटार मय्ये योत्तुं तित्त चन्थायी तिरु यद अत्ति अयकर गह्वर कता चाणो
 अत यन्ता नेव वा चाण अत कय्य मुलाय मुव वाताअ वापतया साता ४६७—४७० रोइ यसां एपोस
 मर ताण ४६८ यमनिअानी दयन अरय्य साण, काक पकरकय विद्वान यत्रियरे इही गताया साण ४७१

निम्नगोत्रगृहमाण्डनरत्नयो ॥ ७४१ ॥ नियन्त्रिचञ्चलतद्गुरुजगत्तडा—तस्मिन्
 सौमत्रिपञ्चजनमुक्तयो, जातु जमनपरबोधोपाण परमूमयो—नीमणो ताण पुन्टदि
 ननाणा हयो ॥४७०॥ ततो मुहुत्तमेत्ता—दृष्टु चग तलस्म निययम्म, धिष्टत्तो
 ण दीहो—पहाप्रियो ननदत्तस ॥ ४७१ ॥ तान्द्वज्जोनेन्नादण्टि मिरिचनदत्तदी
 दाण, यद्वेते समरत्तरे—अउरकरे सुरत्तराण— ॥ ४७२ ॥ नपरमिक्तमन्त्रिन—म
 द्देनिसियगधारमद्वधोर, परचङ्गययकारग—मारुठ करयद्वे चङ्ग—॥ ४७३ ॥ जग्ग-
 सहस्रद्विष्टिय—मह पचात्ताहिनगजायत्स, तरयणग्निन्नाण तंण—दीहमीम तत्रो
 त्रिण ॥ ४७४ ॥ गधत्तसिद्धेयत्तरेद्वि मुक्ताउ कुसुममुट्टीओ, वृत्त जद्वेस चङ्गी—
 वारससो इण्हि मुत्तयत्तो ॥ ४७५ ॥ कपिल्लपुरस्स र्हि—वारससासाणि चङ्गत्तिसिद्धो,

आपथी आराश गानी गट्ट, ज्ञाना, दिनात्ता, नत्ताग अने साण्णथी तीक्ष्ण माणसोनी पायो वृत्ता मंकी वती
 अस्मत्परमना शब्दा अद्वयता तेषथी रीजडी तस्सा त्रागी, अने माण्णनी तस्सा साग्गा रर साया ठना रही मुत्तयो
 एत्त रीजान दात्ता ना या ४७० यां उरा एत्थ करी त्ताया नात्ता ताल्या, शाण्णिलीओ नोही पीया नापी, शब्दो
 ना तयाग ना यथी एत्थे अने निशानो नत्था त्रागी, अन्न नदीना ग मन्तरोनी नाही पदेवा त्रापी ४७१ या
 मुट्टी रीत यणा उर होवा दत्ता अने तैदनी उरमीओ थवा त्रागी, अने वायानी सन्त्याणा मुत्तरोना मुत्त
 त्पीनत्त एत्ता आ रीते इत्थे येनाओनी यत्तुगीना होराणे एग्गो मत्त समान इत्थर नदाइ थं ४७० त्यारे एक
 मुट्टये ५,६मंज एतेना सावर्मा चण्ण एत्तय अने धीत्तात्ता वीथ मीद्वियाया एत्तय द्वात्तत्त त्थक् धत्तीगयो ४७१

ज्ञानिय-तुह सखात्मसाम्य ॥ ७६३ ॥
 वमाणस्त, नय दसणमुज्जह-कहिंचि तुह देव चत्तणण ॥ ४९४ ॥ मरुयाणु-
 याइ तेण-पुब्बुवयारे माणे सरत्तेण, जणियो सतुट्टमणेण-नइ मगाहि नर मेग
 ॥ ४९५ ॥ आपुट्टिय नियज्ज-पट्टा मगाभि ज पिय तीसे, इय जणिकण म-
 झाओ-नियगेह पुट्टिया सा य ॥ ४९६ ॥ अइनिजणवुच्चिजुत्ता-पाणण ह-
 वत्ति (इय) नारीओ, तो चित्तिय मेईण-उहुविट्टो परमसो होही ॥ ४९७ ॥

प्रारम्भनी सहायता आपी हुती, अने तेनापर ते चोर जक्ति राखों इतो तयी तेंणे तेंनी पण्य श्रीनि मेळवी इती
 ४९७ पद्य ते बलने त्या राज्याजिपेसनी महिया चानतो हुलो एन्ने तेंन दरराजामा प्रवेश नहि मज्जायी ते गर १
 पे हागी चरचिने जेवा पास्यो नहि ४९८ त्याखाद तेणे छारपाळनी मूर सेना इखा मानी, एन्ने तेंनी म्पायी
 नारमे वई राजाने जेयो ४९९ बीजा आचार्यो एम कहेंछे के ज्यार ते चरचिनि दार्शनने पण न पामो नस्यो, त्यारे
 तेंण एर नारा तसमां तूना स्वसमा झन्कव्या ४९९ पडी राजा बाहेर नीरज्यो ते सपये तेना जे निगानसरो ह-
 ता तमां ते त्वर जोरथी दोमने पेडी गयो ४९९ हव राजए ते निगान जोइ विचार्यु के आ ते रती शु छे ? ते
 धी तेंणे तमने पड्यु एन्ने ते बोव्यो के ए तमारी सेवार्पा जेकवत बीत्यो तेना निगान छे ४९९ तमने सेना आऽना स्वसमा
 पसयांछे पण हे देव तमारा रणनाऽने मज्या नहि ४९९ त्यारे राजा इत्तइणायी तेना पूर्व करेना उपकार मनमा या
 झापी सतुष्ट थइ बोव्यो के हे नद तु एक वर माग ४९९ ते बोव्यो के हु मारी खीने पत्री तेंने जे प्रिय हुशे ते मागीरा,
 एम बही त पताने पर गया पडी तेंणे खीने पडी जोय ४९९ हवे खीओ माये अति निपुण उच्छिबळी हो
 य छे, तेची तेषीण विचार्यु के एला पासे बहु विनय धरो तो ए परस थइ पमझे ४९९ तेची तेषीण कयु के तु द-

तत्र तावत्—रगीभारभारद्वयमिति—मूत्रमिति न्यायात् प्र-
थमं तत्रात् प्रथमं नष्टं, ततोत्तं पुरादिभिरिवावैश्वर्यमसु ततोपि भारतवासिभ्योऽस्मद्विषु क-
मन्तव्यं ननु तत्राद्यत्रात्म्यं निरुद्धिन् राज्ञा नात्र भोजनस्यैव च—अथमेव तस्यैव ना-
स्तस्य—न पुन पुनोत्तं यद्येव ननु—तुर्नादिनीयवारं दुर्जितं दुराप तद्विरुपितजो-
न्यं यथा ननु प्रकृतं ननु च चर्चनित्यं, तथैव प्रथुन मनुजत्वमिति

(७)

अथ तत्रात्—रगीभारभारद्वयमिति—मूत्रमिति न्यायात् प्र-
थमं तत्रात् प्रथमं नष्टं, ततोत्तं पुरादिभिरिवावैश्वर्यमसु ततोपि भारतवासिभ्योऽस्मद्विषु क-
मन्तव्यं ननु तत्राद्यत्रात्म्यं निरुद्धिन् राज्ञा नात्र भोजनस्यैव च—अथमेव तस्यैव ना-
स्तस्य—न पुन पुनोत्तं यद्येव ननु—तुर्नादिनीयवारं दुर्जितं दुराप तद्विरुपितजो-
न्यं यथा ननु प्रकृतं ननु च चर्चनित्यं, तथैव प्रथुन मनुजत्वमिति

अथ तत्रात्—रगीभारभारद्वयमिति—मूत्रमिति न्यायात् प्र-
थमं तत्रात् प्रथमं नष्टं, ततोत्तं पुरादिभिरिवावैश्वर्यमसु ततोपि भारतवासिभ्योऽस्मद्विषु क-
मन्तव्यं ननु तत्राद्यत्रात्म्यं निरुद्धिन् राज्ञा नात्र भोजनस्यैव च—अथमेव तस्यैव ना-
स्तस्य—न पुन पुनोत्तं यद्येव ननु—तुर्नादिनीयवारं दुर्जितं दुराप तद्विरुपितजो-
न्यं यथा ननु प्रकृतं ननु च चर्चनित्यं, तथैव प्रथुन मनुजत्वमिति



तां जेतंशामया तेषां—निम्निचा केड निति असे उ, देवयपसायद्यदा—तओ सुद-
 र्ग्यो नरो अंगो—॥ ४ ॥ जणिओ तेण जहेए—पासे दीक्षारथात्मस्य च, निखि-
 त नत्तादि नुम—त्रियमद्यरचनमुद्दहंसु ॥ ५ ॥ जो म जिणाइ जूग—दीणाराण
 निगाढ धात्रे भिण, अट वहवि जिणामि अह—सो दीणारो मम ण्णो ॥ ६ ॥
 ण्य न सो ययो—निगृह्यो पुर मुहुर रमिज, न क्याइ सो जिणिजइ—जिणइ
 शिर सो पर अंगे ॥ ७ ॥ जह तस्त जओ दुइहो—अइदमत्रैणापि केणइ नरेण,
 नइ मगुयनगजडो—अट्टगो तम्म अत्तमि ॥ ८ ॥ इति

एतं च पश्चात् तदा कदाचन कृष्ण आचार्यो वदति तं तेषामनी महेश्वरीषी पंडिता पुत्री तदु-
 त्तं यथा तदा राजा एक दृष्ट्वा तदा पश्यन्तो धर्मं तेषां कृष्ण के आ पाशा अने मोनाम्होगेयी अरेसो एक
 एतं अत्र सिद्धय चार, एतं वंशुर्मा नरे वं वदंते के—५ त्रे एते तुलामां त्रीति तेने साठ पळने, अने जो
 वा १ न इत् तं नृ एव एत एत दीनत त्री ६ आ त्रीते वे अकार एत शारे तुत्तर एसा चाल्यो, एण ते सोदयी
 त्रीता इहाय अटि सिधं अत्र वीगाइले त्रीको उ हुंवे ज्ये ज्ये अत्र अत्रि नातर माणसवी एण रसांओ दुसले दे,
 एत एतं एतापी न ६७७, एतं वरीव एव ते एतं दुपंत दे ८

किं कृष्णाद् वैश्वि—सुरेण कौजह्वेण सन्नाड, धन्नाद् मेधियाद्—जार
ह्यासस्स तगायाद् ॥ १ ॥ एगो सरिसप्तपत्यो—यस्मिन्तो ताण मज्जयारमि, आत्तो
न्यात् ताद्—नणिया एगा तत्रो धेरी ॥ २ ॥ दुब्बनवेहा वाद्धिक्कूमिया किं चिरोय-
निदुग्गी, ते सुण्यसणाहकरा—विगिचण ताद् धन्नाद् ॥ ३ ॥ ता जा सरिसप्तपत्यो—
युत्तो सोचंन सा तथा काउ, पारठा मेनेज्जा—किं त पत्थ सरिसप्ताण ? ॥ ४ ॥
एमेय मणुपजम्मो—अणोगजोणीसु परिजमताण, पत्तो जट्टो मणुयाण—दुब्बहो
मोहमनिगाण ॥ ५ ॥

गीता,

वात्ती म्या के संद देवण कनहटणी जलहन्तु तमस थाय अने नृण एत्ता कथा ? त्ता रे नृण स
मत्ती'एक एत। नावीने ने जंठवी नावा एती एह म्थकि सोमीन वयु के एमांगी तु गम्भ कुणे एकी छे २
एव ने कामी इका शरीरवाती, अट्टियदी इणायती, अने एव गेगवी विगु एनेती रोधे दाय गृण्ड वद त था
एव ठपस्वा नगी नगी एले सगण ने सगमती एत्ती एती जगण था जगण नेम करवा मानी, हेरे शु त
कामी त सगमती एती एका क ? ए एत रीत मोहमनिन मनुयल अनेक योनिशेषा जल्ता मेट्टु मनुय
एव एकाए एव एव जनु क ने एरी मत्तु दुर्जन ए ५

इदं अत्रिय वसतउर-—नयर नामेण धणुकणसमिठ, पोढपरफमरतिओ-—अियमत्तु
 आसि तस्य निवो ॥ १ ॥ चउविहदुच्छिसमेओ-—अदनिम्मनपिउटाकुनममुव्वत्तो,
 आसि अमच्चो सच्चो-—निच्च सच्चो निवडकत्ते ॥ २ ॥ गज्जटस्यणिविद्या-सुसिणिढा
 णेगक्कडिया य, नरवदणो तस्स सहा-अहेमि रिठचिच्चगोत्तसहा ॥ ३ ॥ तस्ये
 वेक्के थत्ते-अस्सीण सय समत्थि अट्टहिय, इट्ठ अस्सीण सहस्सा-णगारस उसय च-
 उसट्ठा ॥ ४ ॥ एउ कात्तमि गाण-उट्टमि रत्त निसेममाणस्स, नररदणो तस्म सुओ
 -अट्टस्यया चित्तइ कुच्चित्तो ॥ ५ ॥ रत्त जहाकहच्चिपि-सपत्त सेहण नि जणमाओ,
 ता थरि नियपियर-मारिय गिह्हामि रत्त मिण ॥ ६ ॥ नाओ य तस्स नाओ-—

इहा धनर-थी सरण वसतपुर नय नार इट्ठ, त्या र्था एतन्वी जिगत्तु नजे रात्ता हुवो १ तेनो गो
 यच्छिगत, निर्वत्त कुलमा र्थेने सत्य नापे अमान्य हुने, ने रात्राना काममा हुयेश नेया र्हेने २ ते रात्रानी
 धनमो अउ लनसत्तो, बीसि, अन्नक चियणपणालो अने इयजना मत्त हरया समं एती एउ मत्ता हुती ३
 त्या एउ एउ थाननाया एउमो अउ अमी एउने थामा हुती णप अथार हुजार उतो अने चोसउ भरो हुती ४
 आ र न यथा शकन्ती ते रात्रा राय रत्तो रत्तो एवामा एउरेत्ता तेनो पुत्र पुत्रउच्छि चः पित्तया चागथो ए ग
 उर गय न रत्त महेत्ते तेषु सार एउ बोक्कित्ति डे, सारे थारा उमा यणेने मारिने आ राउय मारे नेउ २ तेना अजि
 माय अमान्य पण्णी नीशे एउने तण गंत्ते तेनी मत्त आपी त्यारे गवाए पुमने गोत्रावीने रुपु के तारे मत्तरी रा

अथ पञ्चमदृष्टान्तप्रहाराया

श्यां चि त्तिप्रपोयम्म-नेमि नामो समुद्रमज्जमि, अश्वसणमि त्तिणिय-तत्ता-
हमम गु मणुयत्त ॥ १० ॥

एव शवर्षा द्यान्ती मद्रुहाया वंदे छे-

एव शवर्षा वरुता वदुहाकीना ने ए-नाना मद्रुटना त्वे नाश पयो हवे ने ए-नेनु अ-एरण क-एना नेओ
एव शवर्षा वरुता वदुहाकीना ने ए-नाना मद्रुटना त्वे नाश पयो हवे ने ए-नेनु अ-एरण क-एना नेओ

(टीका)

श्यां श्याणगमयत्तनचिचीद नामचितीण, आमि अमुडियचित्तो-समुद्रदत्तो
चि तादंता ॥ १ ॥ सो अश्रया श्यादं-नाणाविहवरयत्तिययोहित्तो श्याणद्वीर म-
दगथा-चिचित्तो श्याणाग मनेंगो ॥ २ ॥ वृशियमगोरहो सो-वधियो जा एद
वसुटिमज्जमि, नयरीद पामचिचीद-अमुंनं नाव व पोय-॥ ३ ॥ पुणसराणण नित्त

श्रीवा

श्यां श्याणगमयत्तनचिचीद नामचितीण, आमि अमुडियचित्तो-समुद्रदत्तो
चि तादंता ॥ १ ॥ सो अश्रया श्यादं-नाणाविहवरयत्तिययोहित्तो श्याणद्वीर म-
दगथा-चिचित्तो श्याणाग मनेंगो ॥ २ ॥ वृशियमगोरहो सो-वधियो जा एद
वसुटिमज्जमि, नयरीद पामचिचीद-अमुंनं नाव व पोय-॥ ३ ॥ पुणसराणण नित्त

आपश्यन्तूनां स्वन्थापि दृश्यते रत्नदृशतो—

यथा—आमि सुमेसतनये—नयरेहिरपजरणसमादणे, दन्तो अचन्तु-
 यभूञ्जायण धणयदत्तो ति ॥ १ ॥ जायमि यस्तमहे—तमि पुरे जम्म जत्तिया
 अरिय, धणकोनीउ, पत्ताया—तापद्या सो समुस्सेद ॥ २ ॥ सो पुण दन्तो मोनी
 हि रयणमुद्ध करेउ मसमत्थो, तेसि माणग्घत्तणओ—नी उच्चद ता पनायाओ ॥
 ३ ॥ कात्तेण तमि बुद्धे—जायमि गयमि कदयपिप समण, कत्तोपि कज्जसओ—बहिया
 देसतर दूर—॥ ४ ॥ तो तरुणतुच्छिणी ते—तणया कोऊद्वइ पनागाण, काऊण
 मणे रयणाण—विश्य ऋउ मारदा ॥ ५ ॥ निहिया धणकोनीओ—पत्तेयमहमि
 पचवत्ताओ, पणपणोद्धिररुणकणिरकिकिणीजात्तकलियाओ— ॥ ६ ॥ नियपासा

आपश्यन्तूनां चण्डिका आरतौ गतं गीतं रीते षण्ण आण्णो छ जेप के —

‘पायशाळि जनोयी रमाकीणं मुकोशठ नगरमां अति अत्तुत ऋद्धिवागं मन्दच नामे शेउ हतो ?
 न नगरमां रसना महोन्मय आरता जेने न्या जेत्तमे मननी मोनो हती ते तेत्तनी रमाओ गतो २ षण्ण आ शेउ
 पास अमुल्य र तो होवायी तेनी विंमत नहि अक्काइ शकतां १ धमाओ गतो न हतो ३ चत्तन जतां ते बुणे थयो
 अन्न ते एवेवेग वाइ रापसर गाहेर दूर र्शानेर गयो ४ हुवे नेना कानी बुद्धिवाग पुतो धनाओनु कुतुहळ मनमां
 शार्थिन ग्लान बैरा वाग्गा ५ तेपणे धननी यणी ज्ञानो करी चाट्ठेक महोत्समां पांनवणा, पवनथी स्वणवण
 कर्तो, किकिणीआवाही, परसो धमाओ तेपणे पोताना घणपर पररागी णम पासता तेपतो चाप आओ ६—

अथ पष्टष्टातसप्तहगाया

सुमिणमि चद्विगिणे—भरुगरज्जइ दोग्द वीणाणओ, नाण णुताय सुमिणे—
तद्वाहसस गु मणुयत्त ॥ १३ ॥

इह उवा ह्योत्तनी सप्रदगाया इहे छ

स्वप्नमां यट गत्ता एसन वाहु मत्था, वीजान राजप मत्तु थाद रान पाउ कतेनु प७ ध्यजित रग्तां न
जाणी एक प गापाय रथा, ओने तु स्वप्न मेत्तास मुड म्मा ह्ये तन पराने न मत्तु जप दुर्जन उ त्ती
भासत्तम मनुष्य जप र १३

टीका

अस्य अरतीविसा—समुजया जा जिणेउ ममरुपरि, अदनिम्मवविन्नमसा
—उज्जेणी नाम पत्तपुरी ॥ १ ॥ उग्गपरद्धमनसत्रियिसयवडिसिमरुत्तो कच्चानि
उणो, नामेण जियसत्तू—ननाहो तच पाड्डेइ ॥ २ ॥ तत्थयस्य सत्थयाहो—समस्य-
देसेमु पत्तमहारो, अयनो अयत्तो वय थिरो—चाणी जोगी मत्ताजागो ॥ ३ ॥

नीम

अरती नेममां जार कद्धिना योग अमरापुरीने पण नीतया तंवार रहेनी उज्जेणी नामे मोची नारी छे ?
तन नारे एत्तमथी सचत्री णिगाओने नीत्तार रत्ताज्ज जिशसुसाजा पाउन वग्ते उ उवां सयया देशामां यंवार
कनार, त्यागी, जोगी, महाजाययान् अने अत्ताजा माफक थीर अत्तक नामे सार्थपाह दतो ३ वडी त्यां तात्तय

विद्या रत्नामयः, परं सच्चिदानन्दं—पञ्चासत्समय वासचरणे सो, पत्तो
 गमा—न परमं न नियमि गेहमि, गिञ्चिचिय मूनञ्चेमि ॥ १४ ॥ अत्राचरण
 या ॥ १५ ॥ नगिरा पुनि परममु—जो स्वच्छ तुच्छ अगमि किमेव ? समण पे
 विद्या या नगिरा अष्ट नो ग ॥ १६ ॥

१. वाच मत्रा मास विद्यामयः, निर्वैराचर्यी रत्नामयः वाचो ११ वाच न सांज मन्मना गतं परं
 वाचो मत्रा १२ अत्राचरणं न गतं वाचो मत्रा, गतं वाचो मत्रा, अत्र वाचो मत्रा
 वाचो मत्रा १३ अत्राचरणं न गतं वाचो मत्रा, गतं वाचो मत्रा, अत्र वाचो मत्रा
 मत्रा १४ अत्राचरणं न गतं वाचो मत्रा, गतं वाचो मत्रा, अत्र वाचो मत्रा
 वाचो मत्रा १५ अत्राचरणं न गतं वाचो मत्रा, गतं वाचो मत्रा, अत्र वाचो मत्रा
 वाचो मत्रा १६ अत्राचरणं न गतं वाचो मत्रा, गतं वाचो मत्रा, अत्र वाचो मत्रा

Handwritten notes or scribbles at the bottom right of the page.

गिणी जमेर मुनणेक, असमाख्यात दसा-समूलनातात वट्टीओ ॥ ७७ ॥ तो न-
 णामु मनेडेय-किं काही सोपि तात मित्रामो, पहिया चेकी चाणाविओ यूसो ज-
 यययमि ॥ ७३ ॥ तचो तेण कचे-वेचूण इसु डुगेण तमजक, गहिया, डो वट्टी
 आ-डुगण ने अहिनसराणे ॥ ७४ ॥ सेवेण चाउजाय-तिमयेण डुगेण ताउ
 वक्रिकण, तह गदनीस्याओ-सूनासु पोड्याओ य ॥ ७५ ॥ चाउजाएण नासि-
 जणणीक इमियाओ-पेडसु विद्याएअतर दोण्ट, अत्रिनेसेण जसमन रिहाउ स-
 पमिया तण ॥ ७७ ॥ अययेण पुण महतो-अथयओ गरियो, नउण मजक,
 गरि उचुट्टी-तहो चउजठ तहा विहिया ॥ ७८ ॥ एणतेणेय गुणे- एसा पे

मार। गदना गहिन गाठा पाऊताची नीय ७७ पाए ह्व मट्टेपे कहरपना जाए तशु मार 'त उगागीअना
 अगदना दसा तदी तपोय या पाऊताचीन तन मणउ ७३ पाए मट्टेपे दसा मदी नड तपारी ये कोनीना
 तगा तपया त काकीना ये तका शपना नीय अत काकीनी उ काकीना एर स्थान, य
 यार तपय त काकीनी तदी गदनी मदी अत नेपा शरा पगरी ७४ ७७ पडी त गदनीन ये गरा
 तनी द'णयातनु अतर तुय एण यण मडनन गरा- शरण तवी गदनी पाऊताची ७२ तपचाए त पान सावी म
 त त त त त पारण मन एक पण गाडापर तापनेसनी इत ७८

बौद्धाणसमा—गारुडो चितित तश्चो द्यरो, ही ही उसणाण उसा—उसणाड ज-
 यो जन्नेव ॥ ३६ ॥

कार्यन् प्राय न गर्हितो विप्रिण कस्यापदोऽस्तगता—स्त्रीञ्च कस्य
 न यन्ति शुचि मन, को नाम राज्ञा प्रिय, क काञ्चस्य न गोनगतगत कोर्या
 गतो गौरय—केना दुर्जनयापुरासु पतित इमेण यात पुमान (१)

विभु व सच्चिदानन्दो—निगच्छ जीव ताव अयत्रोण, अयत्रोणरेण सिं
 —गिण्दिहय केसेसु सो जणिओ ॥ ३७ ॥ किं ते केरमि दर्णिह—ज रुच्छड त करेसु
 सो जणह, नियदुच्चरियससाओ—जमह तुहगोयेरे जाओ ॥ ३८ ॥ ययाणपउत्ति सो
 तम्स—सोउ मन्निपत्तमाणसो जणह, ही देवपरिण्दिण—सुयणावि जमानह दत्ति ॥ ३९ ॥
 ग र्हु ३७ हर ११११ गजयाना गम मृदेव विपारवा नायो के हाप हाप' व्यमनोना वीध आंग मन्
 वाप उ ६ (ज मा ११७ छ १)

पदा गजवा गेण ठतो नयी ? या व्यमनीव आश्रदाआ नयी हती ? वीआए रंतु मा आ पृथ्वीवा
 गेयु नयी ? गजने गेण मिय होय ? मोयना हाये वीण नयी सपुतो ? क्यो मागण मान पांमे ते ? अने यो
 माणम दुर्जननी जावमं वही जेप तुगुग म्हु ?

नयाणीचीनीयथायथा किंयना मापकत्याची गारुडी गयो एवामा अउठमन्तूत हाये तेना मायाना वा
 ६१ नीन १११ १७ हरन्वर्तुवस्तु १६ ? इहेय गेथयो के नन्नेसु १ नेवर, तेमहे मारी मूढी यानना योगे हू नारे हाये
 सपुताया तु ७० तनी वेत्तगानी ह्य गजान अउठ अउठ पायी यथ्यो क नयीयो गन ते शुनतो एण गाजवा पके

॥ ४७ ॥ गायमेत्तेण वि य—द्वयो न निमित्तयो समीपेति, बद्धतो निन्दुरमाणसे-
 ण ही क्रियाचरियाइ ॥ ४८ ॥ विस्तरिय मिए नृण—एयस्स णिमत्तण न तेण
 स्य क्खे दाहिइ द्य चित्तिज्जण तेणेन सह चद्धिओ ॥ ४९ ॥ एण ॥ एण ॥ एण ॥ एण ॥
 —न तेण सत्तासिओ मणगपि, तो पत्ते तइयदिण—ते अरुति मइस्थिया दोनि
 ॥ ५० ॥ पत्ते वसिमसमीने—आसासपयेणेण मम एत्तो, इर सुय्यारकारि ति-चित्ति
 उ मूनदेवेण —॥ ५१ ॥ जणियो जइ प्यट्ठसु-नियकजे सज्जाहि म जइया म
 पत्तज्ज मेज्जसु-तप्या ज डेमि ते गाम ॥ ५२ ॥ विणपहरडुगे गाम-समागओ
 तथ चिसयणहाण करकडियपत्तपुरुओ—अकिडिठमाणे पविठो मो ॥ ५३ ॥ कुम्मा-

पणामा पनात्तान पक्व गावा माव्यो ४७ मूत्तय पास वज्जा उता त क्खार मनयायए त्ते वन पायथी एण नि
 मत्ति न रया क्खणाना आवागन पियार क' ४८ मत्तये थारुं क ए निपयणा वला नूती गयो नाग ड, तेथी न
 ण न तथा क। ता एण राव आप्प एम धारी त तेना साथे चानतो थयो ४९ एम मीम जिये एण ताण तन न
 गा न रगु इव नी-। जिन त रने अन्नी उरत्वा ५० उली पाते आस्ता, मत्तवे विचारुं के पणे नीतु रुड नहि
 ना मम आत्मा गमीन रत्त्या ए पग ठणार रत्त्याज छ तथी तए वगु रे—५१ ह इड, हवे इन तु तारे राम
 जा एण यार मन गय पामना साजळ त्तारे मारी पाते आवज के जेयी हु तन एक गाप आपीश ५२ वणो चना
 मत्तय गाप पाप आत्त्या त्या जैयि मागया मांरे त द्वायमां पानपुजा त्त्ते गात मनथी ते गाममा पत्तो

गयणे— ॥ ६१ ॥ मुनिव्रतचतुष्टयस्य-मग्न ११ पञ्चानिओ नरेइ तओ, गणिय च देव-
 दत्त-वृत्तिमहम्म च रत्न च— ॥ ६२ ॥ कृष्णमासेहि अग्नेसागदि त्रिहिय च जोयण
 नेण, अमयमयज्ञायणेण १-नाठ सपाविओ तिति ॥ ६३ ॥ उदायनगरनयर-पओ-
 मसानमि पाविओ तत्य, देसियसहाइ सुतो-पचायसमयमि पासेइ— ॥ ६४ ॥ पत्ति-
 पुत्रचमरुन-मडधनचपहासियदिसोह, विज्जत मल्पणा देसिओपि त येइण अ-
 ज्ञा ॥ ६५ ॥ पडिनुद्धा ते जुगम-हत्तयोच उट्टिओ तओ काउ, अइमदजागधेओ—
 तेमि सा देसियाण पुरो— ॥ ६६ ॥ जा पत्तेइ सुविणयफन्न च पुठेइ ताउ गम्मेण,
 ययगुलममगामरुयत्तओ तुक्क ति नाहरिय ॥ ६७ ॥ पत्तो य नीयद्विससे-जाइज-
 मात्ता पाण्णया अरुण पग नाण्याशाठी जनेन इइ शके डे एसां आराणां र्हेन मुनिनत्त ११ी बोवी के हे
 मन्त्र ११ माग १ गारुती तग ११त्ता गणिता, इवार हाथी, अत राउय मागु ६१—६२ हरे गकी ११त्ता
 अरुणाथी तग जातन करे, अत जाण वणे अपुत्तनु जेतन करु हाय तप ते तमि पाव्यो ६३ त साजता ११त्त १
 जात नगमा आब्या पत्ते ११त्तिक सत्ता अर्थत वर्यागुआनी धर्मशाखां युग ६३ त साजता ११त्त १
 ११त्ता मजाया ११त्ताअत मसाशनी रत्ता पूर्ण चंद्र पाते पी गयो हाय एम स्वरुणां जोयु, अत नीजा एक सेवार्णु
 पग तपत जाय ११—६५ तत्रा १ ममात्त जाणी उठया तयां अत्तिमद जायमाओ वर्यागु ११त्ता वर्यागुआना
 आग ११त्त ११त्ता मरुत्त ते वात वहेता साग्यो अने ते स्तनु शु फठ था ते पुठया साग्यो एत्ते एक जण वरु
 ११त्त ११त्ता पाउ ११त्ता साइ मत्तशे ६६—६७ वाद बीजा ११त्त ११त्ता साइ परपर छातु नग्याता ११त्ता पणीए ११त्त ११त्ता

—नीदमय मरुतओ मद्यो, त रज्जु माणवेदं—निजइ जा उज्जयमीण— ॥ ७६ ॥
 ना चिनद मिमेय—सन्ध पुत्रुत्त मत्तियग होही, तस्से दयागयपोढपुण्यसद्यो पुर
 नत्ता— ॥ ७७ ॥ उग्गाडमूनविषणो विहुरस्सरीरो अपुत्तओ मरइ, नरनाहो दिव्वाइ
 —अट्ठिणाविज्जतितां पच्च ॥ ७८ ॥ तेवरसो तुरगो—अत्र चासरजुग च तह कत्तसो,
 ता अयात्त उहु ओयरति गणमु रज्जस्स ॥ ७९ ॥ मग्गिजइ तररण—जोग र-
 ज्जम्म चद्यगटंमु, दिन्नेदि नेदि नयरीइ सन्धओ हिरुमाणुद्धि — ॥ ८० ॥ दिहो य
 गगरुद्धा—डिचरत्रो मरगमामनगनो, रत्तणस्यस्यस्यस्यओ—मम्मिमुद्दयमुद्दियसरीरो—
 ॥ ८१ ॥ ममुत्त भत्तां यो मूनदेवनेणो नओ गट्टेण, पारळा गनगजी—दुण्ण हे

इन व रोन उरुत्तवो अणण ७५ यो अण्ण व इहव कथ क नीनिगणयो इहेयु छ के गले मारी नारवा एत
 १६ उ पाए एन पाए जावा एवी नेमा एन इरुदियां मं तथा सारा ७१ मूकेन विवायो पदया के ७३ येनेया
 गणव क्तार ही पूजा ६६३ उरुयो इता त्त पुण्य इत्यनो आरत्तात्ता सीरे ने नगयो न रवेन पतिो गत्ता आरुग
 १७३) कन्तारी निगुण्यः अमुषिङ्को धान वग्गा, उरुवे (नरेगत्रा ए-साधु) पौच मि-नीगा कएत्तो आयो ७७ ७८
 पौच मि ७ ७ इयी गदा, उरु, जण इव इत्त म्यन अत्तिमित्त कर्णो एत्त रु नेवा मग्गनी देवत्ताअ
 ११७८ था ७७ न मिज्ज अयो नीगीसो वरने पाळ चग्गन्दी शरम न्नेण नान शाइ डे ८० न दिव्वाणे ७१
 ७१७ ३६५५ गौपयत्ता एत्तवग्ग एग्गुइवतो एत्तव गाल्ही सइससत्ता, शय गंणायवी मिसे, मगीवी चीनेसा,
 वक्का ५७२४ धाए एत्तव अरुत्त मग्ग एत्तव इयीर ल्ल म्भंज इरी, इत्त जोइएण मेण म्भोग्गो कया ८१

दहितप्रपुत्रोत्तरोत्तरायणो सोमिरो जहिडाण, सुविण मगतो सो—किलिस्सिओ
 रात्र मन्नुय ॥ ९० ॥ जह तस्स प्यमुविणयलाओ अइडहहो तथा जठ—म
 ग्युत्त मणुयाण—अपारससारनीरहरे ॥ ९१ ॥ एसो सेसमहाणयत्तेसो पत्याम्मा
 गत्ता जाण, तेण जणिज्जइ सो अत्रया उ चित्तिं नरनाहो ॥ ९२ ॥ इअ खज म
 यमहाणाण ररररणण य सहस्सो, एगित्थ देवत्ता—ण अत्थि तो गुण मा-
 चाइ ॥ ९३ ॥

न चान् निगुणत्त न चहीण क तथा आवी राग्यसुद्धि मत्थो ८९ एवी त र्ही छासगट्ट जोजन करी यवेत्तपणे
 गुत्ता इहो न त्ती गह ज्ञाना यणा वत्त ज्ञानी इधान यत्ता नाग्गा ९० ह्वे जेम त्ते एव खन मत्तु अति दुर्जन छ
 नप अ अपार मगाए ममुत्तमा मनुय जप त्तु रपु नो परीन मत्तु दुर्जन छे ९१ ह्वे इहो मत्थाए होगवी क
 थाना चारीना चाना नाग छे न रहीए हीण क ते मत्तव रागा णक्करा विक्का चाणो के मने राग्य ९२ गुत्ता
 इत्ताए हावी मत्था, एण एक च्च र्चत्ता नथी तथी ते मने उणु नाग छ ९३

यत्त —नेन्द्रविनिग मत्तुड निक्कारण रत्ती—वसणसागणि अमूडइ विहमि अणुल
 मी सत्तणि मत्तमहायइ मूहनि सोमथिरि—माणुससगमि सगु कि सगह सिंगु
 गिरि (१)

न पाउ वट्टु छ क धरुण सागीन न न मत्त नहि, विना चाण मीणि राग, तेकरा मट्ट पत्ता मुत्ताए
 नहि यत्तया यत्त वन नहि, मत्तम सत्ताए राग, गारी र्चत्ताओ हाण, चंड नेओ मीनक होय, एता सत्तन माणवनी
 गावत्ताए राग उ क यत्तावनी गेपया एण उ १

नाथ मन्त्रद्वय ॥ ए० ॥ जह तस्स प्यमुनिपयलानो अकड्डहहो तथा जठ—म
 गत्रा जेषु, तेण चण्डिज्जइ सो अन्नया उ चित्तेइ नरनाहो ॥ ए१ ॥ गसो सेसरहाणयन्नेसो पर्यायमा
 यमरुणाण ररवारणाण य सहस्सो एगित्थ देवदत्ता—ण अत्थि तो ण्ण मा-
 चाइ ॥ ए३ ॥

न चाइ निपुणनज त वहीण क अथी आथी राअयसद्धि मत्तया ८ए एथी ते इही छासगाटु जोगन करी येषे उरणे
 गुत्ता रही सज्जनी गह जोगा गणा वाक्व तगी हेपान यया ताग्या ए० ह्य जेम तने एउ म्बन मन्नु अति दुर्जन ने
 नम अ, अपार मसार समुत्थमा मनुष्य जम जनु एयु नो परीन मन्नु दुत्तने उ ए१ हने इही मरुसार होवाथी र
 धाना वाक्कीला थादा चाग डे ने वहीए छीए के ते मूत्तेर रागा एक्कया चित्तया वाग्या के मने राअय मन्नु, मत्तया

यत —नेहद्विनिग मेहडड निवारण रसी—वसणसगणि अमूठइ विहदि अणुल्ल
 सी, सज्जणि सरत्तसहायइ सइदि सोमथिरि—माणुससगमि सगु कि सगह म्निगु
 सिरि (१)

न माए वयु छ क म्हेहमां द्वागीन जे तन मेत्तज नहि, बिना वाग्ये मीनि राग, संकटा कट पक्का मुत्ताप
 नहि, धनमां उच वन नहि, सज्ज सज्जार रावे, सारी देवयागे हाए, चउ जेवो शीतठ होय, एग सज्जन माणुसनी
 सारत्तमां म्पणे उ ने पहासनी गेएए स्तणे छे ?

ये सा तस्म—उचिञ्ज फुसइ जा चरणे ॥ ११५ ॥ फसाणुमाणजागियनिचरणा
 पयण मगया तमि, ता जाणामड त तह—वह सो तुरिय त्रिणिअपत्तो ॥ ११६ ॥ जो
 उण अद्धो सो पायसोयउमेण ताय कूमि, अम्मतणहीरतने—गिअट तीण गयड-
 याण ॥ ११७ ॥ कोनाहद्धे कण एम चाद ढ्ह निगओ ममाहितो, तो मो गयगम-
 हाओ—अणुअगो मगओ तस्स ॥ ११८ ॥ नाओ य मूउदेणेण—एम जहा गइ
 तुरियपयचारो, तो नयरअरसिअतरमि—परिलडिओ नीओ ॥ ११९ ॥ रोमोअमज
 माओ—अगणेण सिअ विहाअिय कयस्य, अप्पाण मवत्तो—स नियतो पिछओ कत्ति
 ॥ १२० ॥ गयगमि अिनगो—नीयडिणे जा पुरे जमइ राया, ता कअडअडियपट्टग
 सअइयतणू तओ तेणो—॥ १२१ ॥ डिट्ठो रत्ता कथअइ सेअण अम्मरे कुणेमाणो, नि

नाणी ११५ तथा मुहुपाठ पान पर्यायी तेषीं नारी नीरु के आ तो रामना ए उ एने नेशीए नेवार मोहि
 त अइ नेने एा नशायु के ने त्वायी अनरी नासय मरुयो गकी गीवा योइ हात ना नेने न अशहीन श्री एम एम
 ठाना मिने अनिउठा अचायां धकेती आपनी ११६—११७ पाठळधी तणोर गुमा पानो के आ तो मारी पामयीना
 शीने गच्या जाय डे त्यारे ते चोर तखार दइ तेना पाउन गच्या ११८ ते नेट्यो आवतो हुता तेने मउइदे अशी नी
 ओ एवे ते नगरा गेणयां स्थपेता गिअसिगना नीचे बीरना वधि चरइ अथ तेणयां ते गः गुसुसना मेरयो तरिजे
 रअ शितन पानी पौतान कुनारे मानीने ऊट पाउने कयो ११९—१२० बीवा दिन रामा हायरीएर वन। नगरा फरवा
 वाण्यो क नग कयथी पाग गंभोने शरीरन अंको साखनार ते गाने गे।एर क्या सोवना जाया एउने नल ओळव।
 शरीने नेने पौताना पर तेने आपणे १२१ १२२ पउरी रावे वानिती चल वही एउने क्या मन पय्यां वाट अनि

पञ्चत—मस देहोत्रि जीणसामरथो, मूनासमागमणसणत्रिहिणा अनमि मोत्तन्नो
॥ १३० ॥ इति

शरे वरु प्रो जाय त्यारे शूली गमान अणसणनी विधियी अत छोनी म् ११०
(आ कथामा नय प्रस्ताविक श्रोतो दे त सायामा माये झीणा होय ना १३३ गाथाओ पाय के.)

अय गाथाद्वारार्थ

स्वप्ने इति छारपरामर्श—चन्द्रप्रसने स्वप्ने इय चन्द्रपानद्वक्षणे सति मडक-
राज्ये उक्तल्पे सपन्ने छयोदेशिकमूलदेययो,—कृत इत्याह—वीणणओ चि स्वप्न-
फनव्यजनात् कार्पटिकफनस्वप्नपाठकृततात् ततो देशिकेन ज्ञातव्यजनप्रस्तुतस्वप्ने
राज्यफनेननुष्ठेनुताप पश्चात्ताप कृत, सुत्रिणे इति तत पुनरपि प्रस्तुतस्वप्नत्रा-
जाय स्वप्ने शयने प्रकाले सति तद्व्याजसम प्रस्तुतस्वप्नज्ञानसदृश—गुरुरभारणे—म
नुजतर प्रस्तुतमिति

द्वे स्पष्ट गाथाना अङ्कारार्थ वहे दे

सप्तम्या एते द्रष्टव्यमय स्वप्न आत्मा दैविक (नेमार्गु) अने मूलदेवने ए वक्षने प्रं म्नाव्या म्पाणे नाहु
अन राज्य मळया शायी एम थनु ते कहे छे—स्वप्ननु पठ म्नाश ररवाची अर्थात् वापनीओ वहेद्व्या अने स्वप्न
पाठके वहेव्या तेना पठ म्पाणे नेम वन्नु त्यारे नेमार्गुओ आ स्वप्नेने नी रीते म्वाणा तु ते जाणुनि तेनायी राज्यफठ
मठ ते म्पना पथलाप कर्वा वाट फरानि नेवु स्वप्न मेटरा तणे उपन करवा मंरनु तर्मा नेने ते स्वप्न मळे तेना नेवुन
आ मनुष्यणुं दे

न्ययानेहि मग्निज्जा मति सय समुन्ढा, परिणयाणुतरमति—गित्ता अतेउरे सा
 उ ॥ ७ ॥ अन्नद्वयपरामापसगयासगत्रो य नररदणा, निस्सुमरिया चिरेणय—इद-
 वु आनायणणय त—॥ ६ ॥ जविय मणेण ससहरमरियपसरतकतिपच्छारा, का
 मणिणा धया जा परिणिज्जाण मुमा—तुच्छेहि पुच्चमावमि ॥ ७ ॥ एव जणिण
 गया—नीटमम न निमीहिणि युयो, तउ गहाय ति तहच्चिय-पाउच्चूओ य से ग
 त्त गत्ता—जय नग्निने समुन्नद—॥ १० ॥ त साहेज्जनु तदया—तहति तीणति
 परगत्ता, निद्वी पिउणं, तंणाति—तुजमन्मि लिहियाओ सो ॥ ११ ॥ पच्चयक-
 यणानि गानत गन अन्नपुष्पा पात्ताओ नीरी १५ य यत्त गत्ताप नूनी नूनी गणीम्भानी सात्तणं गुयायत्ता
 म्भानि जणियणाओ, अन्न सध्यानीन त्थी मृन्न सग मी ल ? ६ उ त्थारे वतुच्छि वतु क हतू अ त्तप प्रपणनीन
 पाव तावती पविपूनी उ ७ वय मतिनही गत्ता न गात्ती मय रव, अन्न न इगत्ती हाणयी गत्ता तेन गत्तं
 मन्न वत्तण न ११ ग्गोस गत्तगी इभीसत्त मित्त वही १२ य यत्त गत्ताप नूनी नूनी गणीम्भानी सात्तणं गुयायत्ता

द्य नाहि परसयणेहि—तजिणण उनेहिया उरुणा, अञ्जनमहासुभ्या—ताहे
 जाया नरिंदसुया ॥ १९ ॥ रायात्रि उइयर मिण—अयाणमाणो मणमि चिंतद,
 अचक्रकनाकुसना—मममेन सुया पर णरथ ॥ २० ॥ सो पुण सुरिददत्तो—अज्ञा
 कनान अह्निओ सोय, अगणंती समयसा—चेडरूपि पन्चूट ॥ २१ ॥ अट
 महुरानवरीण—पन्यनगराहिनो निययथम, पुड्ड पुत्ति तुहरसो—जो रोयद त प
 णामेनि ॥ २२ ॥ तीण पयपिय ताय—दददत्तस्त सतिया पुत्रा, सुन्यति कच्चाटुम
 ज्ञा—सरा धीरा सुरुना थ ॥ २३ ॥ तेसि एरु सुपरिमिउकण राहाइ नेहनिहिणा
 ह, जइ जणसि ता सयचिय—गचूण तहि नेमि सि ॥ २४ ॥ (अ० १०००)—
 पडिनत्त नरअइणा—ताहे पजराइ रायरिणीण, सा परिगया पयटा—गतु नयरमि द
 दपुरे ॥ २५ ॥ त इति सोकण—बुट्टेण तेण दउन्नअइणा, कारनिया नियनयरी—

उगयी मेज्या एवे नेआ महाप्रबं रया १९ आ व्यक्तिल्ली राजने रइ खर न होमाथी ते मनसा धालो ने नेउठ
 भागज पुत्रा अयत्त कलाकुटाउ २० आ तफ सुट्टेचने तेना सरली वययज गोपीओना पुत्रो हेराल बरला
 नपनी दस्सर राज्या सर ते सगळी वयओ शीमी रयो २१ एगामां मयुरा नगरीया पर्वन राजा पोलती पुत्रोने
 पउग हागो के पुत्री, त्त जे म एमट होप ते पणानु २२ ते पुत्री बोवी के पिताली, इद्रत्त राजाका पुत्रो कला
 कुटाउ, दाग, धीर, अन मयान् सनज्याउ २३ मांठ जो त्मे व्हो तो डु जाते त्या जइ तेमाना एकेने राथोवपथी
 पाग्वीन एमट करी एणु २४ राजार ते काज माय रावी एने ते चारे उउमजथी इनेर जया नीकळी २५

त्रिय-मन्त्र मेतो कुणसु मञ्ज ॥ ३३ ॥ धरणसु नियकुन परम-मुद्रद नेसु रज्ज,
 मणुज, जिण्हहि जपमाग-सगुण त्रिविध कुणसु ॥ ३४ ॥ एव रायसिरिपिन-प-
 चसप निन्दुर नरिदसुय, परिणसु कुसनयाण-राहाहेह अहु वाउ ॥ ३५ ॥ एव
 नेत्तुसो रायपुत्त-सजायओहु निद्वटमोहु, परसेयविणु अदचित्तसुन्दु-दीणाणुणञ्जु
 पालतसुन्दु, ॥ ३६ ॥ विजायगु नयनञ्चिय तु-ज्जायमाणु विह्वलजिमाणु, देट्टेउ
 निपतु पोरिसु मुपतु-थिउ थनिउव्व इहजतिउ व ॥ ३७ ॥ पुणरपि जणिआ
 राणा-सपोह वज्जिन दे पुत्त, कुणसु ममीहिय मरथ-कित्तियमेत्त दम तुज्ज ॥
 ३८ ॥ समोद पुत्त कुणति-ते पर जे कनासु न त्रियइहा, तुम्हारिस्ताण स कह-
 अकनररनागुणनिहाण ॥ ३९ ॥ इय सन्नतो धिट्ठिम-मय्यविय सो मणुग म-

इव गौरी माग पुत्र श्रीमाळिने गजाए रयु के दे वर, अहा तु माग मनबछिन सरर सजे ३३ प्राण्या कुत्रे
 अत्रताए, आ ना रागती गुरी उन्नति वर, जयवत्ता उपाग, अने शत्रुओने नागज रर ३४ अने एष वगीन
 ग पथीनी सांय वयन आननी मुनि नेरी आ रागपुत्रने गजापीधी उट रासा राथोवध करीने पण ३५
 आम कहती व गजकुमार गजरासां पदया, तेनी न्य उतरी गद, व पवीनाथी जीगइ गया, नेसु मन शत्रु वद गयु,
 तनु मुन अम ओवा गगया पदी गवां, कनी अगवो जला मारी, तेसा इरीरनी मति जतो रही, ने न्याय नीनिनी
 उग गरी दग ना थं, व नगपण थद पओ, तनु अजिमान उतरी गयु, व नीन जोग नागो, ने हिमम हारी ग
 थं, अग वनया हाप के गूर नरकी नीपो होप नेप ऊजो रही गयो ३६ उउएए राजाए पगीने तने वयु के हे
 पुत्र, उ गजराए पतीन थारनु पार पाद, तन आ ने सा हिगारवा छे? एग, गजराय तो ते के जे रुजओसां गग हो
 य, पाए व ललाटिमान, माग नाल गनराए शेलो? ३८ ३९ एष वयाथी व अजगण ठां जराक धीजइ पकनीन,

६। सग्रहगाथाना अङ्कसाथ कर ए —

रस्यी जण्णीना क-शाहरणमां एरुमे के निर्त्ति नाम्नी राजन्याना ग्णान्मा रागारे कर्ता, अण्णकीनेत्री आंग्र
एने क नक्ययी बीज नहि खुवयी नजरे आउ गगना उपर रहेथी राया नाम्नी कळवात्री प्रकळीनी मारी आंग्र
ए नय्यतु ग्रहण, गगना नाचे रहना सानना नीचे रह्या गुंठरे क्युं अने त्याकड वाण मज करीन तगत न
ण गरा बीरा एन्नी विना ता साकड पर्येज गणद रहे रे

अन्येषा तु घागिशते श्रीमाशिप्रभृतीनामशिक्षितहस्तत्पेनाद्बन्धराधायेध-
त्रिधाणा—अन्नयनवृत्तिअन्यत्र इदयाद्वद्विस्तान्नाष्टा तत प्रस्तुते विमायातमि-
त्याह—तत्रेदोनोपमो राधायेधाद्विदोपमानो डुराप इत्यर्थ—मनुजलजो मानुव्य-
प्राप्ति, दत्तिशब्दो गायारिसमास्यर्थ

एण चीना श्रीमाळि गंग वारीग राजकुमारो अण्णेळवापना हायवाळा होरायी रागारे करगानु छिट मेळवी
गस्या नहि तेथी तपना गणो नदययी जता रवा गार एवी मस्तुत वावर्मा शु आणु ते वहे छे — ते रागानी आ
त ग रागा मग्गो मनुव्य जम्पनी माप्ति एवी हुर्वत ते इति शब्द गायानी परिसमाप्ति माटे ने

अथाष्टमदृष्टातसग्रहगाथा —

चम्मानण च्चददुमज्जत्तिडुडुडिगीचटपासणया, अण्णय्युडुणगेसणोपमोमणु
यनजो उ ॥ १३ ॥

हेवे आउणा छान्ती सग्रहगाथा वहे रे —

गामना जता सागथी न्नायवा द्दु रच रहेना छिटमायी कासीए पोतानी फोक वहार क्काम्नीन च्च दीजा
गन् रीना ग्यट इवीन त त छिट्टन गायवा माल्या, तेना सार्वो आ मन्स्य अपनी माप्ति छ तु गळ गायवा प्रवा
अथ उ १

यण्डागस्त, इय चित्तिय निवृद्धो—तेसि अनेसणनिमित्त ॥ ७ ॥ आणीयसयनस-
 यणो—जाय पनोएइ त किन पणस, नो पासइ गाउसेण—पूरिय तय्य त डिइ ॥
 ७ ॥ पत्तेनि कोमुई तमि—डुहहा ससहरो य नद्धमज्जे, अञ्जकओपइयज्जिओ य
 जह डुहह गय—॥ ए ॥ तह ससारमहइहमके बुडाण सयलजतूण, पुणरवि मा
 णुसजम्मो—अइडुजहो पुणहीणाण ॥ १० ॥

७

गायानान वनाय एम चित्तवी तेमने शोथी आणवा तण इक्की मारी उ हरे त जया सारा सणाअने नेधीन त्या ओ
 य नय्या ताम्मा ययगवी ते डिट्ठ वाद जवायी ते क्या पण देयायु नहि ७ कडि लिट्ठि वीड वया मडे ता अजवाली
 शन मरवी दुर्नत्त, तपन गाग्नी नरुतर विनाना रड मरयो दुर्नत्त ए रीत्तन या ससारम्य इहमा रेनेना सारा पु
 ण्णहान जीयान परीन म्बुय्य जन्म मरु अति दुर्नत्त डे ए १० ॥

अथ गायक्षरार्थ

अतिमहत्तनिविडरजाय्या चर्म चर्म सेयादासचय—तेनानच सर्वयाडाडि
 ता यो हदस्तम्यमध्ये यत् कथचित् तुष्टप्रमाण डिड सजात—तेन विनिर्गत्या डु-
 न मरुपस्य प्रीयया गज्जदेशेन—चक्रस्य नजोमयजागजाजो मुगाकस्य—पासण्य
 ति—लौचनाय्या कदाचिच्चिकनमचूत् ततस्तेन स्वकुडुमप्रतिमचक्रिकवितेन श्री
 राममरुप्य—अद्वत्यतुडुरुणति अन्यत्र तत्स्थानपरिहारात् स्यानातरे तुरुनेन निमल-

पत्ता मुमेशमिहरे—गणेशो जूय मेरे काउ— ॥ ७ ॥ अगरो उण त समिल—पहा-
 रिया पुत्रयराजनदीसु, गिल जुग च समिता य—पेड्डिउ ते तओ उग्गा ॥ ३ ॥
 मायवन अपोरे—सा मसिवा त च जुग महोगाड, अदचनचकुलपरणप्यणोद्विया-
 ६ नमनाद— ॥ ४ ॥ यमाड तलय बहुफान मायओ नउण तेसि सनोगो, सजोमेवि
 न याआ-विट्टरुपयोगो उ मसिनाण ॥ ५ ॥ जह तीण समिझाण—विट्टपपेसो अ-
 ट्टर दुवना, नह मोद्धमूदचिन्नाण—माणुसत्तपि मणुमाण ॥ ६ ॥

श्रीका

एतत्त श्रीर श्रीर वे नो जगे कृतञ्जल तीरे तुम्हीना विडवंधी सपत्ने तत्त वृगी पाकीने, परीनि आ
 मवत्त मारीता विडवंधी श्री श्रीर एत जे ते अराय तत्तु ण्य मत्तपा गाफीने मरु पर्वती मेचे आत्ता चत्त एदिचे हार
 वा (पर) वान तत्र मल्ल मरु मदी ते ल्या ताली अने बीजा न्चे ममेठ वन्ने पत्ति मसुद्र तामु दोकी अह ते ल्या
 नार्थ) अने गती वद्या (कथा) कास वागा १-७-३ इव दशियला अन्तार पायीमां ते मवेउ अने घुसरी च
 इत्त) अका ना प्रारद मगामी वानती परचान पत्त २-१ कवामुगी मत्तना म्ही गाकी गरा, पण तेपलो मयोग
 न न गल अने उग मोग एती एण मत्तज्ज विण्ण वत्तन न वता ४-५ मत्त त्म ए ममेठनो विट्टण परेरा एवे
 अविण्य पत्त ३ ए वारव वाराना दोचन भुवमणु पत्तु एग अति दुर्मत्त ते ६

अथ गायारराय

उद्विन्ति उद्वयोउद-जुगे वि जुगे गुरं-जुगानि पूर्णमिन्न विज्ञा-अपरति अप
 र्थिना गतयोरे-ममिता प्रीत्य विज्ञा सान्यापि रीरुगिमात्यां वेमात्या,

आ य नियमम्, अत्रिचागिमत्तणेण १-द्विसोद्विमि ते गया अणयो ॥ ३ ॥ विद्या-
 णगाह—॥ ४ ॥ गौत्रीणाणि, ण तेसि-अण्ण जोगो, ण्यावि सो थजो, सजाओ,
 ण गमा—माण्याण तुओ मणुयजाओ ॥ ५ ॥

गीता

ली का क २३ एक ध्यानना कृत् कृत्का करीन एण दूरा कर्या क नना अत्रिचाग्य परमाणु ररी नाया
 नना याण २३ना २४ गानन दाय एक मोदी नरी करी कनी गव जवन न प्रकृता मादी ७ हव आकरा प
 या २३ विद्याय क १ योड, हव करीन कर, २ ते गणतुआ एकजा मठ डे अन्न न मन्न वेगार थाय छ १ णम जो
 मी २३३ मन्न अन्नक हठण कण बली ग्या, २७ ३ गणतुआ मण न दगा अन्न न मन्न वेगार न भया तेम जीयाने
 २७/३ २३ २७ ३ द्या मनुयण २७/३ २७ ३ ५ ५

अय गायादुर्गयं

परमाणवि परमाणु दक्षिणायगमजं—धनीमाण वि मन्नम सप्तद्विस
 यण वृणतं यन्त्रिं योत्रिना गुंण ११ १ १-नलियामेकरोपरिद्वि
 यण विषययण नयित्तने प्रसिन्धय भंगे मेरुगिगि नैपो ११

विष्टतज्ञानपत्ता—अपि ते होल्ल दसापि पुण अर्या, दृढतियज्ञानगय—न
उणो मणुयत्ताण सोमा ॥ १ ॥ इसदुवन्न माणूसत्ताण पाविउण जो जीवो, न कृणुइ पीरत्तल्लिय
सा यदमममाणाने ॥ २ ॥ जह गरिमज्जूढोवगयरो, मच्छउव्व गवगद्धिओ, मगुर
पभित्त वन मओ—समदइओ जह्वन पम्मी ॥ ३ ॥ सो सोयइ मन्नुजरासमयओ तु
शियिन्पस्मिन् तो, ता पासइ निवतो—कम्मजरपणोहिओ जीवो ॥ ४ ॥ का-
उण मोगेगाइ—जम्माण मरण परियट्ठण सयाइ, इमणेण माणुसत्त—जइ लल्लठ ज
हिण्णिय चीमा ॥ ५ ॥ त तद्वइइहवन्न—विन्नुवयाचवन्न च मणुयत्त, इत्थुण
ना पमागइ—सा काउरिसो न सप्पुरिसो ॥ ६ ॥ (उ)

इहां ध्यांतप आपत्ती ए दश यात्रा इतु कर्त्तव्यं, एण णट्ठित्तिस्य मनुयणु परीन हे मोग्य, नहि
ए सो ए सा रीन मनुयणु इन्नज्जाणीने जे नीर पत्ताइ इति नहि ए त नया जपमां जतीया शाक क
श ॥ अण गाणी पत्त सुगइ रहेता हावी कांमां पत्तायत्ता मए, जात्तां पत्ता मण, अन्न तोपात्तां सपफाय
सा पाठी शोभ परे, तेण ए मयु अने जरा व्यागळ सागर थइ यावी निदांमां अर्थान् पणु ण्णां पत्तने ल्यारे त शो
ए एव ओ ल्यारे वंयां जारवी वीमातो नीर पोताने जाणीतो थएज जोरो ३ ४ ज्याग नीर सत्ता जन्म मणान
ए एव एवो ॥ एणुएव ॥ गदि ते सणुएव ६ ६

एतदाविष्टो हि जीव एकैन्द्रियादिजातिषु दूर मनुजत्वनिवृत्तपास्तु अरघद्वयटीयत्र
 क्रमेण पुन पुनरामर्त्तते एतदपि कथं सिद्धमित्याह—यत्कारणाद्दीर्घाघाघीयसी
 कायस्थिति पुन पुन मृत्ता तत्रैव काये उत्पादन्नद्रव्या चणित्ता प्रतिपादिता सिद्धा-
 ते ण्वन्द्रियादीना एकैन्द्रियर्षाद्रियादिद्वन्द्वयाना जीवानामिति तामेतेकैन्द्रियभेदान्
 पृथिवीमायिकादीन् पंचैव प्रतीत्य दर्शयन्नाह,—अस्सरो सप्यणि सप्यणिउ ण-
 गिन्द्रियाण उ चउण्ह, ता चेवउ अणुता—अणस्संदण उ बोधव्या ॥ १७ ॥
 अज्ञान अने म्मात्थी धेरापनो नीव मनुष्यपणापी तन्न निरुण एरेंद्रिय वारोनी जातिअणोमां अरहन्नी
 एमाउ माएउ परी एनीन जग्ग्या करे हे ए एण केय सिद्ध थयु ते वहे हे ने कारणे सिद्धानमा एकैन्द्रिय केन्द्रिय
 मा जीवानी कायस्थिति एत्ते वारवार मरीने तेन कायनां उत्पत्ति दीर्य एत्ते चारे वारी वृहसी हे

हा एकैन्द्रियना पृथिविवास विगरे पंचे भेदना समथे ते कायस्थिति ज्ञानेहे
 णाम् अरवमाणीआ कायस्थिति नाणवी १७

अस्सरोसप्यणिसप्यणी उ ति—प्राकृतत्वादित्रिकािको निर्देशस्तेनास
 न्याना उत्तरपिण्यसत्रपिण्य — (टीका) अत उक्त

अस्सरो उन्माणी अरगाणी—इहा माहत्तना वृद्धि
 णाम् अरगाणीआ णम अर्थ वरयो

मन्त्र ए क पवित्रीसाय गुरे गामा जीर मति क्री परी उक्तो एक गामा अग गा उक्तो
अवगापणीआ गृथी रहे एण मन्त्रनि रायना मणीआप उक्तो नचो अने उक्तो अगणी उक्तो
गामे जस्यथी ना गामा अर्धुचैत्र रहे
अयोत्मर्षिण्यनसर्षिण्यो कि प्रमाणमुच्यते ? डादशागमानचक्रमुत्पत्तिग-

नमर्षिण्यो तत्स्वरूप
उक्तोर्षिणी यन अर्धुचैत्रिणु रायमान शु च ? यार प्रागापुं कान्त उक्तोर्षिणी अगणी उ,
तु मन्त्र आ प्रमाण हे

यगा—इस कोडाकोडीओ—सागरनामाण हुति पुत्राओ, उस्तद्विणीयमाणी
—नचयोन्मर्षिणीण वि ॥ १ ॥ उच्येन कानसमया—ह्यति प्रोनव्याणीइ नग्हमि,
नासि नामविहत्ति—अह्वम चित्तरस्तामि—॥ २ ॥ सुसमसुसमा य सुसमा—न-
इया पुण सुसमदुसमा होइ, दुसमसुसमा चउरयी—दूसप अदूसमा उडी ॥ ३ ॥
एगचर विजागा—ह्यति उस्मपिणीड उच्येन, पन्चिओमा परिगामी—नचरि विजागे
तु नायना ॥ ४ ॥ सुसमसुसमाट काडो—चतारि ह्यति नोन्निरोभीओ, निणि
सुसमादराओ—दुत्ति जेने सुसमदुसमाण ॥ ५ ॥ एका कोनारोनी—जायीसाड
जा सहस्सहि, गसाण होइ, ऊणा—दूसमसुसमाद सो काडो ॥ ६ ॥ अह्व दूसमाई काडो—
गामसहस्साइ एक्कीस तु, तानदओ चेन नये—कावो अदूसमाण वि ॥ ७ ॥ इत्यादि

स्विति वेद्यो धर्मो वागस्थिति छे, एष ते शा शरणे याय छे ते कहे छे ते कहे छे ते कहे छे
न धर्मो यत्न करो १८

(टीका)

एषा चेष पुनर्जाधीयसी स्थिति असकृदेनेकरान् अनेनेपु जेनेनित्यं
दोपासेनत दोपाणा राहुमकचवत् शवाधरकरनिरुघातम्पद्विधनाम्य जीम्यमानि-
न्याथायक्तया दूषकाणा निविन्नेदोदयाज्ञानजयमोहादीनां-यदासेन मनोनामये इ-
तकारिता पुमत्तिसहोयैराचरण-तस्मात्-नेपामित्याह-धर्मनामचित्तानां शुनधर्मा
चारित्रधर्माच्च सर्वथा वाद्यचित्ताना स्वप्नयमानाम्यायामपि तनावतीर्णमानमा-
नामित्यर्थ

टीका

ए वादी वागस्थिति अनेत्तार एसेके अनक नयोसा दोपो सेववाधी याय छे दोपो एसे एना किगानी
हरीपाद बनार मसिनक्ती राहुना यापक दूषिन कलार तीव वेदोदय-अज्ञान-जय-मोह यारे नोपो, नेपु मनान
बयापके वरण वारापण अनुपदेननयीने सेवुं तेनायी ते याय छे कोने याय ते कहे छे धर्म वागचित्तनायने
एते के शुनधर्म अने चास्त्रि धर्मोवी सर्वथा बहेर मन रागनाराओने अर्थव स्वप्नया एष त्यां मनने नहि अनाला
जीवान त्वी साची स्थिति याय छे

मम्यन्त्य एतन्व गगणम् अहो एतन्व भवे मयन्तम् अहो ते न इहे ते—एतन्व गगन् त मगनि न इहे तु गग
अनन्व गगणम् एतन्व अहो एतन्व भवे मयन्तम् अहो ते न इहे ते—एतन्व गगन् त मगनि न इहे तु गग
न इहे तु गग

गन्तसति यद् विधेयं तदाह—
नवात्रयटाक-पस्य आनश्यन्प्रविष्टादिजेदज्ञानं श्रुतम्यं ब्रह्मणे गष्टष्टेस्ताननुष्ठिह-
शतेनागीशरणे तस्मात् कारणात्प्रवर्तितय—इह यत्ने विधेयतया उपस्थिटे—
प्रथममादौ

एष ते त्वारं शु कस्तु ओम्प ते इहे ते
अन तस्मारस्य कृत्यानाथी इती पापवाना पर तस्मान् आनश्यक तथा अग प्रकृष्ट एत चत्पाय भुक्ता प्रदुष्णमा पस्य
आश्रयान नज मयना जे आनन् पाप तेना आनदयी अगीशर करामां मरर्तुं ओम्प न मोरे इहेतु ए क—
यत्

पढम एण तत्रो दया—एन चिट्टइ सन्सजण, अप्पाणी किं काही—किं
ना एण्ही डेयपापग (?) सोचा जाणइ क्हाण—सोचा जाणइ पापग, उजयपि
जाणइ सोचा—ज डेय त समाचरे (२)

समश्चा—सती पुत्रो य अन्नश्रो त्ति ॥ ७ ॥ ण्णामिय पर्याये—देवीण जायदोह
 लाइ नियो, जणियो शसायमे—ण्णस्सज करोवेह ॥ ३ ॥ दुक्खिणाहेण इरयी-
 गहेण सत्ताविण्ण नरयदण्ण, पन्निण तन्वयण—अन्नयकुमारो य आदन्नो ॥ ४ ॥
 तो नइदण्ण ससण—धननिमित्त महात्तीद गयो, विट्ठो तेहि च सम्भो—सुप
 णिच्चो अदमहासाहो ॥ ५ ॥ साहिद्विओ सुरेण—होद्वि त्ति विचित्तसुसामेहि,
 अदि सित्तो स सादी—कयोमसोण अन्नण ॥ ६ ॥ अह दुठिरिण्ण—त
 त्यासिसुरेण नित्ति पसुत्तस्स, सिट्ठ अन्नपस्स महाणुजान मा विदिदिसि ण्य ॥ ७ ॥

गीता

गणपदुत्तरणयो मय्यसत्तनी शिवत्वा नाड हर्षत्वा इह यथाण्यत्ता शणिक नाम गता हेतो ॥ ७ ॥ त्वेती
 आत्वा अन्नपुरतो श्रेष्ठेन्द्रणा नाम गणी इती अने तार बुद्धिगतो अन्नयकुमार पुत्र मती हुत्वा ॥ ७ ॥ एर गत्ये
 तीन गद्वसो यत्ता देणीए राजते क्यु व पाण पाए एव यत्ता मेहेव गगरी आपो ॥ १ ॥ नदि अन्नचारी शस्य
 पत्ता ॥ दिउथी मुत्ताने गताए देणीने हा पातीने अन्नयपुराले ते गतत इत्तम क्या ॥ ४ ॥ त्योरे मुत्तार सय
 त्ता भत्त मेत्तया अन्नयकुमार अत्तीना गणे तेषणे त्ता जग्गत्तार अन्न भोणे शात्तावाटु गाम जेतु ॥ ५ ॥
 गान देयायो अविष्टिन हातु बोदए एम थारी अन्नयपुराए चपत्तास करी पूत्त अने कृष्णी त्वेती प्रजा स्त्री ॥ न्यारे
 त्वेती बुद्धिये रुद्रा चपत्ता तत्पत्ति देरे रते अन्नयपुराले रत्तमा क्यु के महासुजाव आ त्तात्तने नदि यत्त

द्रियाह, अययफचाह पुणरधि—पद्योगामिणिसुविज्ञाण—साहि मोगामिज्ञाण ग-
 ऊण—समव्यियाह पियाह दिष्टाण, पस्त्रियुनदोहचा सा-गन्त गेडु समाहत्ता ॥१७॥
 अह अयरातरतकरपनोयण राक्षणा कुणतेण, पुनद्विणद्विष्टकनपड्यत्रियल मय्यो ह-
 य मूय ॥ १८ ॥ जगिया रमगपुरिसा—रे केणा सो विद्वुचकननरो—विहिओ
 त्ति तेहि जगिय--देव, न तानेत्य पर्युरिसो—॥ १९ ॥ नृण पविष्ठे, नय नीर-
 तपनिसतयस्सय पयाणि—कस्सवि दीसति महीयझामि, देव चीज मिण ॥२० ॥ ज-
 स्सा माणुमसागत्य—भेरिस तस्स किं परराणिज्ज—नत्थि चिय चिततेण राक्षणा
 मिच्छ मच्चयस्स ॥ २१ ॥ एवविहत्यकरणसम लहु अहसु पुत्त चोर ति, जह ह

का वदसा पळ्याग आग जोयो वा रात परना अयनामिनी विद्याथी तेणे माल नपावीने केरीओ उतागीन परी
 नययनामिनी विद्याथी माठ ज्यां हती त्यां करीने हर्षिन थफ ते फळो पोगानी पियाने सोण्या, आ गीने मोहता प्रपया
 थी न युगे गर्व परा वाणी '५—'६—'७— हवे (वरनात्तिने) नृण नृदा जानेतु अयसोत्तन वरा गनाए
 आगसा न्तिसे जायसा पळ्याग नव्यावगतो ते आवा जोयो '८ गनाए रवेयाळने वडु के अणे । आना फळ कोणे
 उतारी ज्ञीयां छ'नेओए नचाव वाळ्या के हलु, इहां बीजे माणस तो बीसटुह पंडो नयी अने मनीनपर नीकळ्या
 क पनवाना, राक्षनां फळां पण नणानां नयी मोरे हनु, आ अचरानी अ बाल हे 'ए—२० गनाए विचार्यु के
 जेनापाने आवु अमादुपी (न्विय) सापर्यं छे, ते रीशु शु न करी शके, एय वारी तेणे अजयवुमारनेक्यं के

५१॥—सभूमणा कृद समागया त सि, इय तेण सा पुढा—सिठ तीण्य जहवि-
 त ॥ ४४ ॥ अन्नो सद्यपदणा—महासर्वं म ति ज्ञायमाणेण—चवणेषु निवभिक्ष-
 ण-मानागारेण नो मुञ्च ॥ ४५ ॥ पत्ता रसमयपामे—सिद्धो से मासियस्स उत्ततो,
 अयो महयत्ताया-ग्ग्या, ना उञ्जिया तेण—॥ ४६ ॥ इह चात्तिेण निवभिक्ष-
 ण पाणु तेणरि विमुञ्च, चोरसमीने च गया—सिद्धं तह पुञ्जवुत्ततो ॥ ४७ ॥
 तेत्तिरि आण्यमाद्दप्यस्युत्तरपस्यवागहिं—सात्तवारथियवदिक्काण सगिहमी पट्ट-
 विया ॥ ४८ ॥ अत्त आत्तराणममेया—अस्ययदेहा अत्तगसीना य, पत्ता पडस्स

न लीनती न न इच्छी कय कणीत्तया न- नेरीव युक्कयता मलीने न्गाणयो अने ननु के दु ते पुत्ती इहा
 आरी ई ४४ न्ग गुरुं क आरी रीने नृ पण्णाणय वय आरी इच्छी? नारे नेरीव वत्ती चा नद्दी ४४ मात्पि
 विचारुं क अत्त आ या स्यवन्दिहागी हागरी क्यपती न्गाणो एव विगरी नेण पोपदीने तने खाने इरी ४५
 ल्यांती लींवि शकयताप अत्त। मातीना इत्तव न्ग एत्त के इच्छो, आ कत्त पद्दाननानागाली माणे ते
 क अत्त नणे त्रीत्तीने न्ग यत्ती न्ग एत्त पत्तदीने नत्त पुच्छीदी री एत्तने न पाणाल आमी अने ल्पने तणीए पू
 त इत्तने क्कीर्त्तियाया ४६—४७ एत्त एत्त ननु तां कत्तवत्त न- नेरीना पत्तकी पत्तने नने पण्णदीन नरे
 ल्पणाने न न्ग ४८ इच्छीकी ४७ इह न न्गाण एत्तव इत्तने अत्तदिक्की-त्तणी इत्तने वत्तियाणे आमी



तेषु प्यपि नाह-नमरत्रिजावनेण निययेण, कहिओ य नदयरो सेणियस्स एसो स
 मग्गोनि ॥ ५९ ॥ राणानि सत्तिय देइ-सवक जड कहनि निययत्रिजाओ-सो
 पाणो तो मुचह-इहरा से हरह जीय ति ॥ ६० ॥ पन्निन्न पाणेण-त्रिजादा
 णवि, अह महीनाहो-सीहासणे निसत्तो-त्रिजाण पडिठ माहत्तो ॥ ६१ ॥ पु-
 ण्णकत्तयचुक्कित्तियानि राणो न उति जा त्रिजा, सो ता तज्जद रुठो-न रे तुम दे-
 सि मम्म ति ॥ ६२ ॥ अज्जयेण जणिय मिहदेव-नत्तिय ण्यस्स वेममति दोसो,

गानी आरंभिते क्री मंत्री ५६ मातृग योग्यो केचोएए छुकर वर्यु डे के अण्णे एकात एता तेने गेणा साये जसाटीधी
 ५७ माता आम गेय्यो ने पय्यी अज्जपुमार गुरु के ए पोर छ एने परकानीने पृष्ठु के ने मीयो रेप गारुओ
 ५८ नो वरु के मारा त्रिजात गयी मे तेप वरुडे त्पारे आ सग्री हुकीरु अज्जये रेणिते वही थए राणाए
 पणायु के जो ए मातृग गोर रीत मन पोतानी त्रिजाओ अपे तो तेने मरो, नहितो मारी नाग्ये ६० त्पारे मातृगत्रिजा
 आरग रान थयो हरे राजा विद्वात्पार मेओ रही विजाओ जणय चापयो ६१ हने परोफरीने जेजना पण तेराजने
 से गनी नहि एने ते गुम्मे थद तेने तखोरुग नाग्ये रे तु गोगर रीत शीलसतो नयी ६२ त्पारे अज्जपुमारो
 गुरु रे दे न, र्हा एलो तगोर गोर नरी, तेपके त्रिजाओने तिलपथी ग्रहण रत्ता ने आरंभे डे अने फलत्पक

॥ ५७ ॥

विज्ञाहरण साधितो कोनो

नमः प्रागादस्य जतमुत्परि चिद्व्यागमे
प्रयाति सत रत्यानि समवायो भीतन निलमेरागरत्
वाणरन्त्याप्रकानरन्तस्य समुत्तनत् त्वो विद्याया
रगात् रगात् रयागमे तन्नु गदात् श्रेणितेन हृष्टे
विद्यासि सति संय त्वा, अगानरगात्ति चोगोरगागोराग व्याज्ञा

(टीका)

(१)

काड कुमारी कथं मित्याह

दृग्निसिद्ध्याय पद्देयत्य मारामदुमुमगहमोसो, ननपरिणीयन्नुयगम-पडक
दृग्निसिद्ध्याय गमण ॥ २३ ॥

काड कुमारी पति कथा माते पतीगमांची दृह्न सात्तं पकनाइ नती पणस आर पप रास रत्ना
रत्ना थ्या तणीए पतिने कथाची तेणे रजा आप्तां ते त्यां नता झानी २३

(टीका)

काचित् कुमारी स्त्री—पद्देयत्यमिति पत्यु दृते देवतापूजानिमित्त— आ-
रामकुमुमसि आरामे मालाकारस्य सनधिनि कुमुमान्यरचिन्वाना—गहमोसोति
मालाकारेण कदाचित् गृहीता ततो मोक्षो मोचन दृत तस्याप्य-ननपरिणीयन्नुयगम
ति ननपरिणीतया तया प्रथमतपत्र मत्समीपे समागतव्यमित्यन्नुयगमे दृते सति
दृहकुमार्या, पद्देकहणिसिद्ध्यायगमणति तत कायेन तथा परिणीतया पत्युर्ययास्यित-
नस्तुकथनमकारि, तेनापि निसर्जनं व्यथायि तस्या, तदनु गमन मालाकारसमीपे
तथा प्रारब्ध,

काड कुमारी स्त्री पतिना माते देवतानी प्रजापता पाटीना गीचामांची दृह्न सात्तं पकनाइ
पारणक्षी तु पद्देक्षां पारी पाते आप्ते एम रत्न करीने तेने स्त्री तेने

२३

गामीन राक्षस अणुत्पत्ती तथा गोसंघ अणुत्पत्ती इती पति पासे पाडी आनी गट, अन्नयमुसारे गठयुं के
ष्मां बोधे दुष्यर कयुं त्यारे सर्व सत्ताज्जोष पातानो अन्निस्राय मत्तदिल कयां

इसावुगादणाय—चौरगाढ पुत्र विक्रमहणाओ, दलो तत्राणासणभूमी पाण
स्स परिणामो ॥ २५ ॥

इय्यो दु कालु इज्ज कान थु चार परमाथो पूळा विद्यानी गत कही ते तिया अपरानो न्द यथो मा
काने कमीनार वेगान्थो तेषी विगा नहि परणमी २५

(टीका)

इय्यलुकादीना इय्यलुक्कचक्रुचौराणा ज्ञान सपत्तमजयमुमारमहामत्रिण ततश्चो-
रस्य ग्रह पुच्यति पूष्टधासावजयकुमारोण यथा चो त्वया कथं बहिरयस्थितेन
शहीतान्याम्रफ्रवानि ? तददु—विजिति विद्यामसादत इति निवेदित पाणेन अय
—कट्टणाओ अन्नयमुसारेण श्रेणिकाप्रत पुन कथना अस्य दृत्तातस्य विहिता, त-
त दनुश्चक्रुणस्य तद्वाणति तस्याएव विद्याया दानद्वङ्गाण कृत, प्रतिपन्न च त
तेन, प्रारब्ध च श्रेणिकाय विद्याप्रदान आसणभूमी पाणस्सति आसन जूमी पाण
स्य दत्त, आत्मना तु सिंहासने निषण्ण श्रेणिक,—स्ततश्चापरिणाम सम्यगपरि-
णामन विद्याया श्रेणिकस्य

टीका

अन्नपट्टणान इय्यादुक्क चक्रुक्क तथा चौरानी महिती मटी, पट्टने चोने पकफयो तेने अन्नयमुसारे पृष्ठयु
के अर ते वाहर शहीनन गी रीते आंगमानएळ सोड्या ? ते मागणे जणायु के विद्याना पसायथी आ वात अन्नयकु

यत पठ्यते—

त्रिणपण सुय महीय-कहति पमाया त्रिसुमसि सत-त मुग्धाइ परजने-नेन
 लपण च आनहइ ॥ १ ॥ त्रिजाति होइ वक्षिया-गहिया पुरिसेण त्रिणयसतेण,
 सुकुतपसूया कुलनालियव्य पर पइ पत्ता ॥ २ ॥

(७)

त्रिणपणी शीमनु गाव क्ताव प्रमाणा क्षीणे ब्रह्मी जगत्तो ते पञ्चव तस्य उपस्थित थाय उ अत्र हेने क-
 र्वाङ्गान पपाके छे (१)

एता कुन्मा जन्मती कुन्वीन गाग र्मा पन्ति पामीने र्मात्वा थाय तेष त्रिणयसत पुणे प्रदूषण कर्त्तनी त्रि
 था र्मात्वा रहे छे (२)

अमुमेवार्थमन्वयत्यतिरेकाभ्या मानयद्वाह, —त्रिहिणा मुग्धापण—एव
 चिय सुत्तपरिणती होइ, इहारा उ सुत्तगहण त्रिजायफल मुणोपव २७

आ न गतने अत्रय अने व्यतिरेकी मारे छे
 विधिपूर्वक गुणो त्रिण र्थायी ए रीत मुग्धी परिणति थाय उ एण नीची रीते मुग्धेण मलां त्रिरीत
 एव थाय ने २७

(टीका)

त्रिहिना मन्त्रीप्रसार्जितनिपद्यानदानकृतिकर्मकायोत्सर्गकरणादिना सिद्धात
 प्रसिद्धे, तथा गुरो सूत्रार्थोक्तप्रदातु सूरेर्निनयोऽप्यत्रानाम्ना

त्रिपर्ययफलमेव दृष्टातछारेण ज्ञानयति

समाणीयपि जरुदये--दोसफटाचेन हत सिद्धमिण, पत्रचिय सुत्तपिट्ठु--मिञ्जज-

गेदणु पोय ॥ २७ ॥

उमदु पठ दृष्टान् आप्तिनि क्णानिं छे --

नाचना आरणां शमनीय पण नेण वगैरेउ ए आणीनी यान छे नेण विग्यानरूप उचना आरणां यत्र पण नाण्टु २७

(टीका)

शमय--त्युपशमयति शमनीय पर्पटकादि तदपि--क्रिपुनरन्यत्तत्रमोपहेतुर्धृता-
त्रि--उत्तरोदये पितादि प्रकोपजन्य-वरोदये--किमित्याह--दोपफलचेन सक्षिपानादिमहा-
रोमविकारहेतुरेव हतसि सश्रिहितजव्यसन्ध्यामत्रण--सिद्ध प्रत्यङ्गादिममाणप्रतिष्ठित
इदं पूर्वोक्तं उस्तु दृष्टातसुपददर्शं दाष्टान्तिकयोजनामाह

टीका

न्यत्र शमयि ने शमनीय पापक योगे ने पणु --- तो पडी तेना प्रमाण देतु वी वासनी श्री यान करी --
पिनात्रिचना प्रकोपयी मण्डेहा तामर्मा नेपने यकार डे पत्रे के सक्षिपान योगे महामोग विकारो हेतु यः पदे छे इ
सत्या, ए वात मरुतान्त्रिशमाण सिद्ध छे आदृष्टान् आप्तिन्योक्तिरनी योजना करे छे एन रीति यि यावरूप - वरना उच्यमानं
यत्र पण नाणर्मा

सा , दूयेषा कथने मुक्ति -पुमो वैनयिकी जिने ॥ ४ ॥ पूर्ण कुहेतुदृष्टते-र्न तत्व
 न्निययने, मडनश्रमभारम्भ-जोज्य चर्मज्ञवेरिव ॥ ५ ॥ अतथ्य मन्यते तथ्य-त्रि-
 पतीनत्रचिर्नन , दोषातुलनास्तिक-उजरीव मधुर रस ॥ ६ ॥ दीनो निसर्गमिथ्या-
 त-न्नरानत न मुयते, सुदरासुदर रूप-जात्यथ इव सर्वथा ॥ ७ ॥ देवो रागी,
 यत्रि मगी-रमं प्राणिनिमुचन , मूढदृष्टिरिति त्रुते-युक्तायुक्तत्रिमेवक ॥ ८ ॥

१ प्रथम शक्ति क प्रकृतिवत्, गुण के निर्गुण व छे एष चोक्तु ने अंशान्तिक छे (२) वीरगाण सर्वज्ञे रहंया
 श्रीगोत्रीशक्ति मय उ क नदि एष मरुग्य कथा ने मौरिकि डे(३) मरे अण्णो, मरे क्षिणाल्य मरे त्रेो, अने सर्व पया
 इयत्र मण्यते ए एष न पुमान्नी बुद्धि छे अने स्विन्नमण्योने वैनयिकि पिश्यान्व इहेसुं डे (४) च्छारोला गैलण ना
 मयना कथरना नतीया मरुतं दया नदि ये ये नुडेनु अने अग्निपी चरुकरन्तो ग्ही नन्ते कन्नव नदि रे
 एत एषामुद्राडु पिश्याव ड (५) मशियात्तं चददा चरी अथ वीयोने पीतु एष मने तेप मोरने मरु मने ने स्वि
 रीव मचि मग्नी (६) रुदांर गुण अे गुण क प्रभुय दन्ते चोः रीते श्रेण्णी मके नदि तेप अे रिगो
 मयाचन मग्नी व नदि मयने अने निर्गदियन्व मग्नी (७) द्वादि पिश्याचाने पुण्य गुणगुल्लो वि
 एव नदि कर्मा मग्नीन अे वदं ए ईत्तं नमेदान मचि मग्नी एष छे, अत मग्निनी डिगले पने कथा रे अे, मा
 १ ७ एव रदि मग्नी (८)

चंद्र चंद्रिनामैयुगांशारकतत मगो गोगविशेषमयोगेदय उदुचरस्तय ज्ञेय

७ शिवाच ना देवत बाज्य शीरपी एत गुण उ अेय उण्य हार्ण अेय एत ते एष मग्नी

त्रिगुणिरिगाम्म उ-आचार्यरूप्यनाम अजक्यण, चउपरिस्स उ सम्म
 —परगु नाम अग ति ॥ १ ॥ इसरुण्यन्वहारा—सउपरपणगदिस्मियस्सेय,
 उण ममयाआ धिय—जे अगे अछायस्स ॥ ७ ॥ इसवासस्स विवाहो—एमा-
 रमयागम्म उ ध्मे उ—गुत्रियविमाणमाई—अजक्याणा पच नायव्या ॥ ३ ॥ वा-
 रउग ॥ ४ ॥ चोन्मयागम्म तथा—आत्मीयिन्नायाणा जिणा निति, पन्नरसवासगस्स
 य-विट्ठीयिन्नायाण तव्य ॥ ५ ॥ मोन्मयागमाईसुय—गणुत्तरवद्दुटिगमु जहमय, चारण
 गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —

एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —
 एव गणुत्तरवद्दुटिगमु अ गीव उ —

नीर मागमणे ॥ १ ॥ जायात्रिजती पद्यग—तीरे उदगस्थि सीहनाणए, सिरिउर-
गणे सुदरिगहुरागे निष्ठ वदुधरणा ॥ २ ॥ चित्तत्रिणोण मणरणद्वमी जाडसरण-
मरण देवपट्टिा पियकमहण रणो ठ समोही ॥ ३ ॥ सागरयी सिवयुठ—
विउन्नदिसया परित्ठ सामदण, आवावगा णिमित्ते—अद्याण कोपेतरा देवे ॥ ४
॥ वंगममसा मन्नासासामण गरिम सुदिठ्ठ ति, नेहीमीयारादण—एण सउग्गय
विसाय ॥ ७ ॥

सिवाचार्यकथा

मन्नेय जमुदीये—तारह्यासमि मासमपुरि ज, विउदुजणद्वियवहरिणी—अ-
णवमयपयट्टारममन्ना—॥ १ ॥ सिरिमासुज्जिणवरमणिण्डिमिउज्जवियकुमुयवणा,
गुयी अण नं वव प्रीति अ गणव वीय तीरे मओ गवा, लांगी पाग वठ्ठा— (१) वदुण जालु नेओ पा
जिणु मन्वी वित्ता अण नं पाणी पाण जर्ज मिद्रे मावा थणे चण थणे थोपुत्ता गजए मुदरीने पकडी ते ते
नार मादिय वया नपीण नायनी वयावी वागवने गतार तेने परी (२) विविना मने वांएण नाप कस्त
नन आदि म्वाल पायी वण अणुणव वदु, अने वेद थणे तेणे मुदरीज नीठनी फरीआ वरी पोतालु म्य पाण करी
वाण वट्ट । गतान गवार वणा (३) थान्नीव मिदुगुनि विविण्ण मन्नीन वीजिन वरी सामागित्तु आ
एणव इण पाण व वीजिन वरी मने व नदि अतारां ये वांउरवी गुण्ण अने अंएणी गतान वयो (४)
मावा वीणव वण गारा व गंरट्टे ज्ञान अां गुण्ण ठे येण थामि तथा वीज नामि थद एम वमा एणज्जाणुं प

आ नेव विण मव वंनेव ईणुगी पाणक विराज्जव सन हज्जाण, निरेव वीण मज्जेगाराणी, श्री

गमि होइ अमगीओ, काउरिसो त्ति विमुचइ—पुब्बसिरीएणि अचिरेण ॥ १० ॥
 ता पुब्बपुरिससतइसमागय जाणअत्तवाणिज्ज—पकरेमि पुब्बधणविणसणेण का चगिमा
 मज्ज ॥ ११ ॥ कि सोवि जीवइजए—निययुयउयइज्जाणणइवणेण, जो उडिय पय-
 इइ—न मगगणण पइदिणवि ॥ १२ ॥ विजाविकमभृणसइइहणिविच्छिइ जो धर-
 इ जीय—तस्सेव जीनिय उदणिज्ज, भियरस्स कि तेण? ॥ १३ ॥ उप्पज्जति विणस्स-
 ति—एगसो के जयमि नो पुरिसा, जइवुयुउ व्व परमत्थरहियसोहेहि कि तेहि?
 ॥ १४ ॥ कह सोवि पत्तसिज्जति—न जस्स सप्पुरिसकित्तणअसरे, चागाडुयुणगणे-
 ण—पढम धिय जायए रेहा ॥ १५ ॥ इय चित्तिज्जण तेण—परतीरइइअन्नरुपइह-
 लय, पारे पारावारस्स—ऊत्ति पयुणीकय पोय ॥ १६ ॥ गमणुस्माण च त पेडिज्जण
 काम थया वार रेहे ने आ नोवर्णं निगय ठे अने ते कापुरय छे एम मानी तेनी पमे रहेवी बट्टमी पण नेने थो
 मान बत्तर्णं छोनी न्नी रहे १० मटे इ गणअनी परएए अवेसो यहाणोने वेपर कू तो डीक नेओ रहेी पृ
 वेत्तु थन खाता मारी डी शोना गणाय ? ११ अे पोतानी वंगोची थन वपावी माणणेने नरोज न्न नयी आपणों ते
 आ अगवर्णं जीर शा वामनु छे ? १२ अे विद्या अने पयानमयी बत्तणवी वरुणुववेने जीवे छ तेनु नीनित वयाणरा
 गोय छे, वानी बीजानु ते ना वामनु ठे? १३ आ जावर्णं पाणीना पपेरा माफक कया अनेक पुरपोअनमता मत्ता नयी ?
 पण तेवा परमार्यं रदित जनोची शु न्यु ? १४ सज्जोर्णं अे नानादिणो अेने पहेवो पवतो नहि हाय तेना पण शु
 ववाण पाय ? १५ एम विवविने तेणे बीजा कठि नहि मळेतेवा मातची वहाण चरीने दरिया पार जवा ऊठ तैयार व्हे
 १६ नेने जवा व्याइउ वपसो जोइ अन्नि विहकवएणणी अत्यत गोक वरनी मुन्नी वहेवा वागी के हे अय्य पुन,

मन्त्रिणं मातृत्वा निन्त्रिरामानिभक्तनयणसद्विभक्तारा, जहानिहिसुपद्मगनुनिडुनिह मु-
 यति न्य ॥ २६ ॥ कष्टकद्वि धीरिम धारिज्जहा नदेण जपिय ताहे—सुयणु विसे-
 य भाग—अंसि ग्रथनरमिणमुही ? ॥ २७ ॥ को नाम मयडि, जए—जो जस्स
 नेर ममणाए—याउन्भूयाणि, नया—जायाणियजम्ममरणाणि ? ॥ २८ ॥ कमडामु-
 डि पउययाणंगंरुचूकामाणिस्सति रविस्स—उदयपयानविणासा—पददियस चिय नि-
 यतनि ॥ २९ ॥ मित्रा न सुय तुमण—जिणिउयणमि ज सुरिदामि—पुउमसुकयम
 यमी—इत्यापय उअवहति ॥ ३० ॥ कम्ममत्तयतिजणू—सुयणु किं णत्तिणि परि-
 नाया ? जनि उअयजमर—जमन्ठ इअमणा उदोअी ॥ ३१ ॥ इय एअमादनय

वना वप उउउता ताग गतगण्ठी गठ जगन दीन वपत्ती गुदरी ज्ज न्ठ नना कउ वगी ---२५ न क्ते वउगी
 न अउषण गग वकना आउउअयी ताग म्गिना सगपी बागेता पाणीना विउआ धरती द्वेष तेप रोवा सागी
 २६ गग तप तप हीर त नी न्ठ वपु व दे गुनु, अति गगु मुग परी आप नां शाक रे उ ? २७ दे पृणादि,
 जगुस पवा बाण जग्गा उ क जेन मज्जे व उअ पण्य नी वता २८ दे कपमगुवी, जो आराजना वूनामणि
 गणन गयन गग म्गात्र उअय, वनय अन विनास ए अण अकयाआ वगी रही उ २९ अयवा ते जिनमपान
 वा उ वती गाउउनी उ ईअ पण पृक्कनरदना अण पुगी अकया पाप उ ३० दे गुनु, कपयाराची जनुअोनि गा शोह
 मग्गना उ वप गवव। गये उअयना पावक उ वती वास ते वती ज इउ उ ३१ आरा आरा वनोपी गुंद

शसन्ति सा निरस्तिया धरणिन्दे, मुञ्जानिमीशियच्छी—मयव्य ठाऊण गगामेग—
 — ३१ गणकुमुमसुरहिमात्यमणागउमइध्रचेयणा दीणा—रोत्रिउ मारवा निरिउ
 उमयपम्मुक्रपोकारा ॥ ४० ॥ हा अजउत्त, हा जिणयरिदपयपउमयूयाणात्त, हा
 सवम्ममहानिदि—ऊरथगप्रो देहि पन्थियण ॥ ४१ ॥ हा पाप वदन, धणसयाण-
 नेहनासेपि कि न तुटोसि ? ज माणज अजउत्तोपि निहण मिण्ह समुयाणीप्रो ॥
 ४२ ॥ हे ताय सुयाउल—हा हा हेजाणणि निक्काम्पेम्मे, उहजल्लहिनिमन्थिय की
 म—निययथय उमेहेद ? ॥ ४३ ॥ इय सुचिर विज्जित्ता—निउडपरिस्तसमकिन्नामि-
 यमरीग—उररमनिदित्तयया—सुत्तिमउमय अणुहमती—॥ ४४ ॥ तुरगयरिवाह
 ण—तत्यो गगण गिरिउरनियण—दिट्ठा कट्ठि पियकलामेण, चित्तिप च उमं ॥ ४५ ॥

तस वदो अत मूर्धापो भेती आगो र्थयात्, एम म्मेक्षीनी मारक थको गार रही ३९ छात्रा यत्ना क्रतयी गृणधि
 भगत वन आनो न तग शुद्धिमां आरी क नीन थः चार दु खयी पाग म्हो रुक्मा क्षणा ४० हे आर्षियुत, हे
 त्रिदना एग गजराको आगस्त, ह मर्दम मर्दाविधि, तु र्थां गयो उ रेउ उचार दे ४१ अरे कुना देव, धनराजा अने
 प ना नागपत्ता पय तुं प्रायोनद्वि ने जयो ह अनापि, ने आ गने आयुंयुने पय मारी नाल्यो ४२ हे पुत्रीर तत पि
 ना, इ निरयउ मपरात्री माप, दु गना द रेषायां वदयी क्हाती पुत्रांत तमे र्थ उलयो छो ? ४३ एम यया यत्ता रि
 ४४ गगो ना परिश्रवणी थार पाथी दाय गउ धरीम जोरे दु र्ग्यो मरसा थः रही पयायां यादने फरसा मारे ल्यां
 आसता श्रीपुराण विधरर नामना र, तप गने जार अने आ रने तये रिगाउ ४५—४५ त विजाता ताल्यो के आ

सम्प्राणदाणसप्यणमसम्प्रहारक्षियत्ति सुणमागो-महुरगिराव नरिदो-गगतं सुपरि न
 ण- ॥ १३ ॥ सत्सिमुद्धि सरीरमणनिठुईहर पुन्रफाजुगत-सोन्नूण मग सठि-न-
 द्विद्विय तुज त्रिसपसट् ॥ १४ ॥ पदत्रिणयोगोपहया-सु-सारा मुयणु, तुक्त नय-
 नया-दीयसिद्धोपवत्ता-माजदमाउ व्य पमिनाद ॥ १५ ॥ मा मुयणु तु-यण पन्-
 णिद्विय १ जणमणाणद-सोयविम-रु-पु-वीक्षिय मुनत्रिणद मोहम्य ॥ १६ ॥
 अचतसुदरपि दु-मणोचिरामपि तुयणदुतद्वपि-पठनट्ट नट्ट या-रत्यु सोयति नो कु-
 मना ॥ १७ ॥ ता होल भूरिदण्णिण-कुगसु मह परयण तुम सट्ट-भ, पट्याउचिय-
 पत्तिदो चय तुत्त कुणति बुहा ॥ १८ ॥ अचतसणकट्टुय-अस्सुयपुन् च तीट सो-
 चो म-उरजगजयसट्टा- गट्ट उरवाउलमणा- ॥ १९ ॥ क्षणिय जो नरपुग

रा) १ भाट नथो न माणपर खुट थद हव एग मालीने मरुराणीवी परति मुदरीने तेणे आ ममाणे नपु हे चट्टुणी,
 परि अत पनन सथाय आणनार तासो पुंवे दृवान रीसारी दनेने मारी सपेइय ममाणे तु मोक्त वितासा रग रेपके हे मु-
 ननु तारी आ मुदुमा बाया ररोजना शोकधी जेम मागनी ररमाय तेम ररमाइ आय छे ५४-५५
 ह पुननु पुनमना चद्र पाफक बोवना पत्तेने आनद दापक योत्तने गाक स्य तीला वपुवी काफलां रुकु वागनु नधी
 ५ उरुजना खोवायनी क नाश पांमेनी अत्यत मु-२ मनोहर अन उचज रीजना पण शोक ररता नधी १७ मटे
 गाहु व-वानो जर नधी, तु मारी प्रायना सकन ४४, सपनु मायसो यत्तेने अनुसराती मृत्ति करीने जे युक्त होय
 न न वग ७ ५७ आ रीननु अत्यत रीते वाक्कां ररुदु वागनु प्रग म्हापि नहि साजठेनु साजलीने मुदरी जतजग
 यानी वीथी जोर छे सपा पम्हीने कठेग बाणी के हे नरेश्वर सारा बुग्गा ज-मेना जगत्वा मसिद्ध न्यायवाग्गना १
 ताराण तपाग जेग, पुण्यने आनु यो-नु यन्नु नधी १९-६० पार्वी साये ररु ५ अत्यत अनुत्तिग, उलयवोत्तने

उ सव्यजतेण ॥ ६० ॥ अहं नचतेण कर्हिपि—सुदरी रायमद्विद्धिनिमद्या—विद्या
 तेण चिरपण्यजात्रियसत्तनयेण ॥ ६१ ॥ कस्य माणं विद्धे यं विन्निवयनेण तेण
 पुण्णकत्तं—जाई सरिया नाओ—सज्जोविय पुज्जुत्ततो ॥ ७० ॥ तो परमं निज्जेय
 —समुव्वहतेण चित्तिय तेण, हा हा अण्णयनिहिणो—धिरय्यु ससारयासम्म ॥
 ७१ ॥ जेण तहाविद्धिनिम्मज्जियेगज्जुत्तो वि धम्मरागी वि—अणुसमयसमयसत्तियवि-
 द्वियाणुहाणकारी वि—॥ ७२ ॥ तहं ताल्लभणं तसओ—तिसम्मस्सं गरिम्मं ममणु-
 पत्तो, निरियत्ते उद्धतो य—सपयं किं करेमि अहं ? ॥ ७३ ॥ अहंया किं मणेण वि
 चित्तिणं इयं अणसराणुत्तपि—पक्खेमि धम्मकम्म—पज्जत्तं जीवियद्वेण ॥ ७४ ॥

राजमन्त्रिणां आज्या न्या व रादरो खुर पत्रयी नात्ता वागथो ६० हवे नातां नात्तां तेषां राजा काम वेत्तती मुन्त्री
 न ज्ञात्वा शब्दवती मीढिना योगे विस्मर आस्तोषी रोह रीति मुदरीनि जोह ६१ ते वि गाराय नाग्यो के मे पने रया नी-
 त्री छ एय वात्वार चितरता ने जानिस्सएण पाम्भो, अने नेणे सपय्ये पूर्वं उर्ध्वत जाण्यो ७० त्थोरे ते गान्गए पयप नि-
 कं पायीन चित्तय्यु कं आ अर्थेत्ता निधत्त सपान ससार यात्ते धिरार ते के जेना व्योधि हु तेरा निर्णय विक्काले छां
 धर्मा रागी छत्ता अने अतिसपय सिद्धात्तमां वदेव निया कालो धर्मो पणं चान्मएणना वसा आधी विपमदगा पाम्भो हु
 एव हु तिर्पणामां रथो हु भोत्तु शु वरीशकु ? ७१—७३—७३ अथवा आमं चित्तव्यापी शु रत्ते ? हवे अत्रसयो
 मय धर्म कर्म कर्म अने अणमण वरी जीवित्तो अत्र क्षात्तु तो डीक छे ७४ एय ते विराणो रया त्थोरे नेने गजराएवो

द्वेषण मा—अह मुदरि देरिस तुम काह्नी ? सःअथयरपभियरकारण उगगा मूरु—
 ॥ ८० ॥ किं दीविण पत्रोयण—सत्रो तुमचिय मस पमाण ति—इय निद्वियतच्चित्तो
 —त्रेया सात्ररियनपरीण—॥ ८४ ॥ तक्षानमुण्णिपहाणा—सिद्धायरिया गुरु पत्रिहरति,
 नेति नीअरिमणनिमित्त मह वयमदिमपण—॥ ८५ ॥ विमित्तता नेठ तय—ते
 सि मसीने तहाविहअसन्ने, एगागिण च सामइयमुत्तआज्ञागनिमित्त ॥ ८६ ॥ ज
 णत्रो य तीठ मूरी—यद्विय चानयनेद्वियरुगा—सयय रोगयसात्रो—सामय्यमुय
 त्रियनिय मे ॥ ८७ ॥ होठ वयापरा मे—देहा वावग मिम गण एग, गुरुणा दिन्नु-
 यत्राणेण चिनिय नोचित्रो मसत्रो ॥ ८८ ॥ एगागिणी ज मेसा—नहा अकावे मह

कथा पाए गहरी यत्री हागरी काण पातना मय दयण त स्वीयां ८२ हर त्व मुदरि तय क मुदरि, तु
 डा मीय ' न संधी क मय अराने डर कनना मूर ८३ अन दीवानु शु वाम पके, मारे मन नमे जे वहा नेत्र
 मयाण ए आ रीन त्वा चित्तना विदय तापीन त त्प श्रान्ती नारीषं चियना १ वाट्या गुनियोषां प्रयात वृत्त
 गिआपरात मीन्नी फोडा कथा माए मयरीन वपन्नीनाय निचिन ररी ८२-८४-८५ एण तेंने नीद्विल ररीन तथा
 चिअरारागण तणवतीन ममायिअयुतने आतारा त्वा तेषना पाणे तें त्व अट मया ८२ तेषीण मृत्ति रया
 १ हाप त्वा रीनाम वपु क तपसत, हा ना सा ३ द्रु गाने यरगुव कती गः तु—माए मातर दणा ररी एक द्रुग
 त्वा न ८६ च , आता पाए गण उरयग २. आता न री के आ उचिन मपण नयी ८७-८८ तेषज आ पारी

... इति

नदन समुत्पन्न
 यथ स्वापत्यमेवाहवच्छरण
 स्पर प्रीति प्रसर्पयती सपद्मा समये म्यापि प्रस्तापे परतीर जत्रधिपररून नद समुद-
 रीमा ययो तदन्यागमने प्रत्यावर्त्तने परतीरात् ॥ ? ॥ यानस्य प्रमहणागम्य निपत्ति
 िन्ताडा सपद्मस्तत फन्क काष्टशरत्नमासाय तीरे एवस्मिन्नेव मेलासूत्रे छे अप्यु
 चीण नन उदकार्यो परिक्लाम्यन्नाद सिद्धेन हत सव् यानर सत्तात त्त्रथ श्री

मन्त्र १०६

इहा मधुहयायानो अक्षरार्थं कल्पि ग्रीष
 च्या नगरीणा धननाम शउ हलो, तेनी सुन्नी नामे पुत्री हुती पूर्वं समुद्रना वंउ अपोत्ती नाप्रचिमी नागी
 वा वसशाउ हवा, तेना नन्नामे पुत्र हुलो ते य शैउ शारक हुवा तेषण पोताना दीवरी दीवरीनी सगाड करी हुव
 न् अन सुन्नीन पारकर मन्नुत मीति म्याइ एक याने सुदरीने सावे द्वाद नद र्तियाना पद्वेते पार गया, त्योची पाडा
 वार्ता (१) वहाण नदा पार्युं त्यार पार्युं मेन्वी ते वे जण एक्कन विनारे ठन्वी वा पण्णी कोटे पग्ना नन्ने

५ अतस्तस्या च सत्ताप इत इत्यर्थं ॥ ४ ॥ तौ ज्ञातृज्ञानं तस्मिन् प्रकाशं इ-
 ता—यथा सर्वज्ञात्मानमीदृशं सुहृद्व निपुणप्रज्ञापस्वित्कृषिा इत्येतेषां त्रयो
 —आहिनीयागात्प्राणानि योधि पारगतगादिनामंश्रामि त्रैधाविनीयानां समभुदन्त्ये
 पा च त्रीन्स्य सम्यग्दर्शनाद्विपुणस्तपस्व्यादयमृतर-स्य त्रेपुणसिंघानरगुजान
 मनायास्तपस्वित्त्रिपुणस्तपस्व्यादयमृतर-स्य त्रेपुणसिंघानरगुजान
 प्रत-ज्ञानादौ सृष्टानुसारादेव महिमया च रत्नं त्रिद्वैयमिति ॥ ७ ॥

सत्ताप इत इत्यर्थं ॥ ४ ॥ तौ ज्ञातृज्ञानं तस्मिन् प्रकाशं इ-
 ता—यथा सर्वज्ञात्मानमीदृशं सुहृद्व निपुणप्रज्ञापस्वित्कृषिा इत्येतेषां त्रयो
 —आहिनीयागात्प्राणानि योधि पारगतगादिनामंश्रामि त्रैधाविनीयानां समभुदन्त्ये
 पा च त्रीन्स्य सम्यग्दर्शनाद्विपुणस्तपस्व्यादयमृतर-स्य त्रेपुणसिंघानरगुजान
 मनायास्तपस्वित्त्रिपुणस्तपस्व्यादयमृतर-स्य त्रेपुणसिंघानरगुजान
 प्रत-ज्ञानादौ सृष्टानुसारादेव महिमया च रत्नं त्रिद्वैयमिति ॥ ७ ॥

अयं सृष्टानुसारप्रवृत्तिमधितृत्याह
 आसत्प्रतिद्वियाण—विंग मुत्ताणुसारयो मेव—उचियजणे पक्तिं सन्तरय

सहि सूत्रानुसारेण प्रवर्त्तमानो—“ जगत्तदभिदमित्यमित्य चोक्त ” मि-
 ति नित्य मनसानुस्मरत् जगत्तमेव बहुमन्यते सजातजगत्बहुमानश्च पुमानत्रिव-
 त्त्रिनेमेव जगत्तदज्ञानत्राक् सपद्यते

यथोक्त

अमन्वयज्ञाने भिन्निओ—ज्ञानो तज्ज्ञानसाहचो नियमा, नहु तत्र रस्मिठ —
 पुणोपि तज्ज्ञाने मुनेइ ॥ १ ॥

इति सर्वत्रोचित्यप्रवृत्तिरासन्नसिद्धेर्जीयस्य द्विगमुक्तमिति ७

एतद्विपर्यये दोषमाह

आयपरपरिचाओ—आणाकोपेण इहरहा णियमा, एव विचिंतियज्ज—स
 म्म अइण्णिउणाणुद्धिण ॥ ३६ ॥

अ मात् न पुण्य मृतानुसारं प्रवर्त्तनी धरो “जगत्तं आ आ आशी आशी रीते कहेव ३” एव इमेशां मनसं स-
 तान्ना भवा जगत्ताननुज इदुमान कभे जे अने जेने भगवत्तन्मा बहुमान रहे त पुण्य तो गण विजने जगत्तानुपणानि पापे
 जे पांडे कहेवु छे के

अत्रय जावनां ना जार पाणो तो ने ज्ञानो नियमा मायक थाय ३ त्र मात् म्मयी पापानु नांनु परीन
 ताराणामा नहि म्मय (१)

एवमा मात् मरती वासोमा आंबिव्यणो मरति कर्त्री ने आसन्नसिद्धिगामे जीसु र्जग क्यु
 ष्ठी उच्यती रीत चान्ता दोष स्तोत्रे ३

वाती रीत र्जनां आज्ञावय एतो हेोगयी निकम स्वसना उद्वारलो पन्थियाग थाय हे, एव अति निपुण
 नदिधी गयक विगावु ३६

अत एवाह

बुद्धिबुधा मनु एव—सत्त बुद्धति, एवण सन्नेति, ता तीइ नेयणाए—
 ता न नइदिहवति ॥ ३७ ॥

(टीका)

बुद्धिबुधा अतिनिपुणोदापोहरूपप्रज्ञासमन्विता—एतुराधारणे—ततो बुद्धि-
 बुधा एव एवमुक्तं च तस्य मूयानुसारेण मृत्तिसासद्मनिद्विकल्पीयाना इक्षणमि-
 त्यस्य इयं अग्रोद्यमाह नपुन सर्वेपि बुद्धिविरुनाअपीतिज्ञान बहुबुद्धियो-
 अस्यास्य मामान्यबुद्धिति इतश्चातप्रयत्नेरपि मोक्षमपार्यमाणत्वात्

एषी न मूलकार इहे उे ने

बुद्धियत्ता न एषी हीन मत्त अणे च, एवण नदि जाली इहे मणे बुद्धिनी वच्छिन्ना मडे तेना जे न

या इति इती ३७

श्री

अति निपुण उपाहाइएवइत्याग न ए हीने एतत्त एव के गुणानुसारे मृत्तिए आत्मनिद्विक नतीने
 एवण ए व एतत्त मत्त ए (एवकारानु) एवएव इहे ए नदिके मणे अग्रान् बुद्धिविरुना होय १ हेमके एवबुद्धि
 वा १ अन्त मायाय बुद्धिसाग गीरका एवत एव एवण एववत्त मत्तये एव एवता नती

यथोद्देश निर्देश इतिन्यायात् बुद्धिनेदानात्

उपनिषद् वेणुप्या—रुमय तह पारिणामिया चेत, बुद्धी चउबिहा एतु—
निश्चिदा समयरेऊहि ॥ ३७ ॥

(टीका)

उत्पत्ति प्रयोजन कारण यस्या सा औत्पत्तिकी आह—द्रयोपशम प्रयोज-
नमन्या—सत्य, किंतु म मत्प्रवृत्तगतात् सर्वबुद्धिसाधारण इति न प्रियदयते
नान्यग्रामधर्मादिभ्रमेष्टयते उत्पत्ति विहाय यदत्र, लप्पत्तिगीति निर्देश्ये उ-
पनिषद् इति निर्देश म प्राकृतत्वात् परमन्यत्राप्यन्यया निर्देशहेतुर्न्यय ॥ १ ॥

अम उद्देश कया द्वेष नम निम्न कृतो ए पाण्यो बुद्धिना जेद बहे ठे

अंतरिकी वैतपित्री, वयंता, अत पारिणामिनी एम चार मकरे सपयना जण पुण्याए बुद्धि कानी छे ३७

टीका

उत्पत्ति छ मयातन कहे कारण ननु न औत्पत्तिकी शिष्य नहे ठे के एतु कारण तो इत्येवमप छे गुरु क-
ए छ— पाणी काउ एण न मा अतएग उ एत मरे बुद्धियां कारण कारण म्य ठे कहे केनीविज्ञा नयी इहा उत्पत्ति
निहाय बीजा शाश्व क नम केमानी अयेव दानी नयी

इहा उत्पत्तिगी वं म्य कारण जेठे मने कय उत्पत्ति एम निर्देश कयो छे न माहाराणना सीपे छे एम
बीजा कारण एम बीजा रीश निम्न उ ननु कारण नेत्र नजानी (१) निम एमने गुप्ती शुभ्या ते ते

श्रौतयज्ञिन्या इदं प्रतिपादयन्नाह

पुत्रमदिष्टमसूयमेदयत्सतणविशुष्कगद्वियरथा, अन्वाहयफत्रजोगी—चुन्दी उ-
प्यन्तिया नाम ॥ ३ए ॥

(टीका)

पूर्वं तुग्युत्पादात् प्राक् अदृष्ट स्वयमनन्वोक्ति —मसूय इति मकारस्याद्वा-
ङ्गणिक्रमादश्रुनोऽन्यनोपि नाकर्णित—मेदयन्ति अत्रापि मकार प्राग्वत् तमोऽवेदि-
ना मनमाप्यनानोचित—स्वस्मिन्नेत्रे ज्ञाने विशुद्धो यथानस्थितो यद्हीतोऽप्यारितोऽ-
यन्निप्रत पदाथो यया सा तमाऽऽद्याश्रुत्मेदिततङ्गणविशुद्धशहीतार्था, अन्वाहय-
पत्रजोगी इति दन्तेऽस्मिन्निदृशपरबोमात्रिक्रम फत्रातरानाधित ताऽप्याहत्तमुच्यते—

श्रौतयज्ञिकी बुद्धिस्तद्वृत्तं—

यत् अन्वदीना अणमोनाया अणविवारेवा अर्पणे तेन ज्ञाने खोत्तर इति एतन्नार अन्वाहत्तपत्रात्री तु-

दि १ आत्मविकी ज्ञानवी ३१७

गीता

बुद्धि उत्तरयानी अगात्र पात्र न ज्ञानेसो, रीना ज्ञानेयी नहि मान्त्वसो, मनयी अणविवारेसो ज्ञा ते
त एव यथावग्नितरण अत्रिदत्र ज्ञानेतेन ज्ञाने प्रद्वग रगी तामय तेवी अनेष्वर्थात्किं इदमज्ञानेयणी अत्रिक्क
तसागयी अत्रिगि एवा अत्र्यहत्त एत ज्ञाने ज्ञानेयनी बुद्धि ते अत्रिचिकी बुद्धि ज्ञानवी इहा मन्दिद एव

यञ्चारे इति षट् (५), सरु (६) काका (७), उच्चार (८),—गयघन-
णगोद्वलजे इति गज (ए), घयणत्ति ज्ञान (१०), गोज (११), स्तज (१२),
—बुङ्गमग्निस्थिपक्षुत्ते इति कुञ्जक (१३), मार्ग (१४), स्त्री (१५), छोपत्ती
(१६) पुन (१७) इति—एतानि सप्तदशपदानि तत्रज्ञातसूचामात्रप्रधान्येति
न सूत्रेद्विका कार्या

तत्राद्यज्ञातसप्रदगाथा

अरुदसिद्ध मिढ कुम्फुन—तिवनाबुगहथिय अगन यणसने, पायस अक्षया पत्ते
—यानद्विद्या पच पियरे य ॥ ४१ ॥—टीका—अस्तो नटस्तच्छृत्तातगता शिवा
अरतशिवा मन्वो मेप १, कुम्फुटस्ताअचून २, तिवत्ति तिव्या ३, यणुगत्ति यानु-

१०) गोज, (११) स्तज, १२ कुञ्जक, १३ मार्ग (१४) स्त्री, १५ ये पति, (१६) अने पुन १७—एष ऽ मर
पदो ते न उदाहरणनी यूचना पात्र करे वे, एते इहां धारिक नञे अर्थ करवानी जग्न नथी

त्यां पहेद्या उदाहरणनी सप्रदगाथा वहे छ

अरतशिवा, म, कुम्फुट, तिव, यानुजा, अच, वनवक, पायस, अजिवा, पच, तिवद्वद्विवा, अने पाच वाप

टीका

अरत नामनो नर तेनी वातयां आबली शिवा ते अरत शिवा, मे पटने मेप, कुम्फुट एद्वे कूको, निजो,
यानुजा एद्वे यानुजानी गयघ, हायी, अच एद्वे कूको, वनवक, पायस अजिवा एद्वे सररीना अणनी गोजी, प-

अर्थ ७, शब्द ए, इजायमहति इडा न मम १०, शतसहस्र ११—एतान्यपि स्व
यमेव सूत्रतया व्याख्यास्यते एतच्चाद्यसप्तहगायाया समधीनि शतशतानि चैका
इति—मीलितानि अष्टाविंशतिर्भूतज्ञातानि श्रौत्यस्मिन्मा बुद्धाविति (१) ७

अथ नैनयिकीस्वरूपमाह

अरनित्थरणसमत्था—तिग्गसुत्तरयगहियेपेयाज्ञा, उच्चओलोगफन्नमई—वि-
णयसमुत्था हवड बुद्धी ॥ ४३ ॥

(टीका)

इहातियुक्तार्थं बुनिवहृत्यइअरइव अरकस्तस्य निस्तरणे पारप्रापणे समर्थो
अरनिस्तरणसमर्थो, त्रयो र्गो श्रिवर्गं लोकक्रेथर्मार्थिकामा—तदर्जनपरोपायप्रतिपा-

१ श), अर्थ, गय, भारी इच्छा अत्र सो हुआर —एम एण सूत्रकार पोंतेज व्याख्या करों एम पदेती गायना सत्तर
२ अने आ गायना अग्यार फली अडावीश मूठ उदाहरणों श्रौतचिकी इदि पेदे ते

हुवे नैनयिकीतुं स्वरूप कहेते

३ जारने उपाइवा समर्थ, अण वर्णना मुख्यार्थना साले केनारी, उच्चपत्रोक्तां फल आणनारी विनयवी उचरन्ती
इदि हेए ते ४३

टिका

इहा अति पोटं कार्यं दु म्हे उचरन्ती उपाय एव हेतावी जार रूप गणायछे तेने पार पोडोचान्ना समर्थ, अण
४ एणे ते विवर्णो अर्थात् श्रोतवन्धि धर्म अर्थे अने काम आणवा तेना अर्जनना उपाय बनावनार ते सुत्र अने तेनी व्या-

श्र ६, गर्दिन ७, लङ्गण ८, मथि ए, अगद १०, गणिका च रथिकश्चेति ११, शी-
तसाटी दीर्घं च तुण—अपसन्त्यक च क्रौंचस्य इत्येकमेव १२, नीत्रोदकच १३, गो
—घोटक—पतन च घृत्नादित्येकमेव १४—एष तेनयिस्या सर्वोग्रिण चतुर्दश ज्ञा-
तानि, गतान्यपि स्वयमेव शास्त्रकृता व्याख्यास्यते इति नेह प्रयत्न (२)

उत्रत्रोगद्विहसारा—कम्मपसगपरिघोद्वणत्रिसाक्षा, साहुकारफवर्द्ध—वम्मस
मुरथा हवइ वुठि ॥ १६ ॥

(टीका)

उपयोजनमुपयोगो त्रिद्वितकर्मणि मनसोऽजिनिनेश—सारस्तन्येन कर्मण
त उपाम—अन क्तु मरी तरफ म्नु एम एक उगहरण नेवतु पाणी, तथा बग्द-गोदो—अने जाकपी ए पक्तु पण
एव उगहरण—एम त्रिनियि के वुने तीद उगहरण छे एली पण शास्त्रकार पोनेत्र व्याख्या करनार छे, गोरे इहा
अप ए मरुथी तम्बी कपी द्वेता

द्वये कर्मकार्तु स्वरूप वहेठे—

उपयोगयी गान जानारी, कर्मता अन्यास अने विचारयी विशाह, अने सावासीकं सफल कर्मता बुद्धि
हाय छे ४८

टीका

उपयोग छन्ने अमुक काम्पां पननु रंघाण—ते वदे सार एद्वे ते न कामलो परमार्थ केनायी जणाय

स्तुत्राय (३), जोयेयति इर्गोकरश्च परिपेक इत्यर्थे (४) मुञ्चति मोक्षिकामो-
 ना (५) घयति वृत्तप्रज्ञेपक (६) पञ्चक (७) तुष्ठायति तुष्ठायाय तुष्ठा तु
 टित्त्त ययति सीञ्चति य स तथा (८), गर्दङ्गि (९), पूङ्ग य इति पूत्तिक ऊद्-
 यि [१०], घन्चिन्गारे य चि घट्टकार कुञ्जकार [११], चित्रमरश्चिन्मं-
 यिना [१२] —एव छाद्दश दृष्टता र्मजाया मतो एतानपि म्य सूनरुद्भणि
 व्यतीनि नेह द्रुतो विस्तर [३]

अथ परिणामिकीस्वरूपमाह

अणु माणहंउद्विच्छत्तसाहिया ययनिमपरिणामा, द्वियनिस्संमपल्लमं—यु-

ठी परिणामिया णाम ४८

पानी पगाना, इतमद्दल्लव- (पी नागाना) द्यपक (ताक) तुन्नाय एन्ने नूत्ताने गीत्ता, र्गिकि (युषा) प्रतिक
 एत्त वन्ध, यसा एन्ने बुचार अने निरसार एत्ते निवारो—एय र्मजा दृष्टिये नार उदाहरण उ एमनी फण
 गुयाए पात व्याया वन्ना उ नेधी अंम एनो विलार बरला नयी

इवे परिणामिकी मुञ्चिनु सम्प कहे डे

अनुयाप हेतु एतत्तवे साधना। योनिपच परिणामपात्री अने द्वितानि थेएस पन्चाली मुद्धि ने परिणा-
 पिच। नाणरी ४८

—नयनपङ्कजातान गायानयेणाह —

अज्ञान—सेठि कुमारे—देवी उद्विद्योदयो ह्यड राया, साहू यणदित्सेणे—
प्रणदने—सायग-अमये धए गमण—अमद्युते-चाणके चेर अवनजरे य, ना-
मिक सुदरी गद-नदर-परिणाभिया बुद्धि ५०

[टीका]

अज्ञान इति अत्रयकुमार [१], मिट्टिति काष्ठेष्टी [२], कुमारे इति
अत्ररुमार [३], देवी पुण्यत्यन्तिधाना [४] उदितोदयो चत्रति राजा [५],
सायुश्च नदियण श्रेणिरपुत्र [६], धनदत्त मुसुमाकिता [७], आरक [८],
अमाय [९], अमक [१०], अमाल्यपुत्र [११], चाणस्यश्चन [१२],
म्यूननदश्च [१३], नागिरसुदरीनदति नासिस्यनामि नगरे सुदरीनदो यणिरू

इव यत्र गायत्रद परिणामिकी बुद्धिना उगाहण कर्तव्ये छे —

अत्रय गड, यया, श्री, अन्वित्तय राजा, नदित्तय गा, धनदत्त, आरक, अमाय,--शमक, अमाल्यपुत्र,
म्यूननद, नागिरना मृन्वीर्नद वर, अने परिणामिकी बुद्धिना धृप--५०

श्रीर

अत्रययया, शमक, अमाय, अमक, अमाल्यपुत्र, नागिरना मृन्वीर्नद वर, अने परिणामिकी बुद्धिना धृप--५०

नरहसिन-मह-दुःस्कुन्त्यादिना अष्टाशक्तिगाथाज्ञियावत् -

उज्जैणिसिद्धागामे-त्रोपर रोह-णमाउपसणमि, पिनिसेनेतर-गोहं-प्रायान-
दणोप म-दुदद्या ॥ १७ ॥

(टीका)

सात्रप्रमद्वचमननृया नयर समुद्रुरथाणो हा, नामेण उज्जणी-समस्तिय त्रिलिय-
णामुरजराणा ॥ १ ॥ तस्य रिउपम्यपिसोह्वारओ सदुण्णी सुददपणओ, आसी
जियसन्नुतामा-नरत्ताहो नयणुणसणहो ॥ २ ॥ मो बुजद निरपज-नियरज चो-
जराया नुयणे धम्मरथकामपुरिसस्यसुदराराहणपहाणो-॥ ३ ॥ नाउयनद्वरहाणय-
मीयादुमु मोसज पर पत्तो-कोउहल्लतरल्लमणो-सविज्जजणजोगयज्जेसु ॥ ४ ॥

२४ वचना उग्रहणोनु स्वल्प स्वारया यातर शश्रातमां नरहसिनमेतु १५ ए अत्रि १२यात्री मग्रहणा
थान अउत्ताश गथाआरक कर्णवी यत्रोदे -

उत्तणो पामेता मिहागामसा रोहो नामे उवत्ते दुत्ते तनी ओग्गा तने छु म आरणी तेची नेणे थापन प
पुण आरता बढी वापया पदयो सत् ग्या मनीन देखीन मानीती ररी १२

मात्तर दानो सणमार २१, जारे धनबली अने योग देपदिररात्री उज्जणी नाप नगरी ते १ त्या दुग्ग
नाना पञ्च नामी नामनार ' सण गुण सन् ' ट तेची अने न्याय रत्तनार जित्तु नाप राता दन २

न गता पर्य अर्थ अन काय ए ११ ये पुग्गपदने मेशर शक्तो थसे पातना चाग्वा अन अररा जरेया राग्ग
न जालरता दुत्ता १ रडी त नरक, नुत्त, कथानक तथा मीन यणे विद्यागतनेने योग्य रायामो वतुहल्लना वीथ मन १

1. प्रय जासुंश्चो जहा तोय, परमसु चरपुरस्ता मस जाद सहसुद्विआ काड ॥ १२ ॥
 नार म निवासोमय—शक्राण श्रोयणेहिं जोणद, ताव न द्विदो, पुदो य—चक्रा, सो
 मय पर्युम्भो ? ॥ १३ ॥ भणिओ तेण द्मेण—दिमात्रिजागेण सुखियुखिय सो-
 गजना म चिदो—मा माणसु अणद्धा ताय ॥ १४ ॥ परिकत्तिय नद्वसीच—महि
 च निदिना यरा तओ नीण—नरदो सन्नायपपणादरहिओ तओ जाओ ॥ १५
 ॥ पजा-पयणिगया—मा जामड कुणसु यत्र मा एव, सो जणद न मस लछ—यद
 वि मा यद यद्विम्म—॥ १६ ॥ तह कुणसु जहाणसो—नुह जाणओ मज्ज आय-
 च कुणद पन्निन्न भिम रोहण—मात्रि तह यद्विज यग्गा ॥ १७ ॥ तहचेत्र खणि
 मज्जो—स्यापि मुनुद्विओ जणद जणम, सो एत एव पुरिसो—कद्विति पुदो य वि-
 जणारि ॥ १८ ॥ या नियम चिय आय—इमिजा चाणद पेउह इम ति, स विज-

1. चांगरी जस पाया च यद स्वया नद्वि' यो नो पुण्यु क सीरग, न परयो पाणम र्गां उे ? १३ रोहण
 कर्ण च द्य लिय मय च उतासय यन जय पे दाया दे तिया य चत ग्योरी जाणेसा स्वारे चत पोतानीनी
 म। चणदय पारिज न्नाय वीन आदी क्री 1 नवी माय मरगनी यतवीन नद्वि कर्त्ता नेहो रहेस ज्ञाणो १४
 १० आयो न आणो यणाय क्री गहन क्रेस वाणी के सीरग आर्त्त म क न चोदो क तु पारी माये सीपी
 यमो ज्यो न यमो मीपी क्वणि, एव एवं क के जेपीव मांे वाय पाण आरर वर रोहण तेय कय कउसु
 ज्ञान न यण जना माय मीपी कर्त्ता मानी ११—१३ कय एव कयस पराणे नव रीन गुंओ उज्जीने ने काने वहेस
 ताया च द्य एव पुण चर एवर्त्त च ने कर्त्ता उ ? १८ चर नेव वाग्नीन जण पारी क्णु के आ गुयने आयी

उत्तम इह—जा ज्ञान इ न निरुद्धसि—रायउद्ध तुगपासाय ॥ २६ ॥ कर्तो राय-
 नो नियो जात्रो ॥ २७ ॥ तो रोहृगण नयरी—सन्नित्यर त च राउद्ध कल्पिय, तुन्त-
 कत्य निरासो—भणित्तो रत्ना, तत्रा ज्ञानइ—॥ २८ ॥ इत्येय सिन्धागामे—जरहृस्म
 सुत्रो वसामि कजेण—पिउणा सन्दि इह आगत्रोभिह, सपड तद्धि जामि ॥ २९ ॥
 राणो पवमयाइ—मती एगुणगाइ अह सति, नो चूडासणिसरिसो—तेसि त मगाण
 णइ ॥ ३० ॥ तत्तो एणमेत्तात्रो—काउ कजाइ आगत्रो जरहो, तेण सम सपत्तो
 —स गहत्रो निययगाममि ॥ ३१ ॥ आरह नरउदण—तुद्धीइ परिम्यण तत्रो,
 तस्म, जणित्तो गामो चाहिं—सिला निसाइ लियजा तीण—॥ ३२ ॥ मनियपरिस-

नारदी गहृ न्यायो वसा धरा न्यायो के रोहृए तेने त्यथो चावता ना पानी अने रपु के आ उग पहेनयाटा दर
 चालन वम नु नयी जालो २६ राजाए वपु के इहां ते दरवार क्यथी ? एगामां यथो ससत शङ्कन थयो तेथी राजा वि
 गामां पनया २७ न्यारे गहृए त्यं चीनारेनी न्यरी तथा निसारालो दरवार न्यायो राजाए पृष्ठु के तु यमो रहो ?
 रोहृ वोडो क—२८ पणसा गिवागाममां हु चरतन्तो दीनरो खुडु वापता माट राए गयो इहा आरानो डु, अने
 हरे पाउ त्या जउ डु २९ हरे राजने एक उणा पासो मनि हुना तेथी ते कथाना सत्यर जेय एक मनि ते शोप
 ता इना, ३० पयाया करतमान नरव वप पवती आबो एधे तेना साथे रोहो पोलाने गाम आबो ३१ गद राजाए
 कनी युद्धिनी परीक्षा करती शरु करी तेथे गामता चोपेने फरयाबु के बोहरे जे पोरी शिक्षा डे तेने ३२ आनुगतु

ननभूमिगणणेण—धनयउत्थजणेण य कओ सो, जरहताणयस्स रोहगनामस्स मह-
प्यचायेण ॥ ४० ॥ विहियो सयाओ से—अन्न आयुडिज्ज सनिहिय, इय रोह-
गम्प वुद्धि—जणिया उप्पत्तिया नाम ॥ ४१ ॥ एम अशेसुनि मंडगाठ नाणसु जो-
याणा मज्जा, उप्पत्तियवुद्धि—जा ग्यमहापरिस्समत्ती ॥ ४२ ॥

ए माउमणमि—पित्तमेवतर गोहे—जायारुहणेण मच्चुटओ ॥ ४३ ॥ पित्ति
मम मुंजेणीगमणिगम पम्हुछणाडिणियत्तणया, सद्धिट्ठनयरिद्धिहण—रायणिसेहो
णियममि ॥ ४३ ॥ पुडा सानु निमित्त—मत्तिपरिडा सिलाइमकण, आडणोसु
रना ल्पिन गान। शाननाना रसा र्द न्पार क्युं डे ४० त्यारे रीजा पाले ऊननाने पढी रायाए ते गत नकी र
१। एय गजनी उट्टि न आंपत्तिकी मण्णवी ४० एय ए गहनी क्या पूरी थाय त्या नगण वेग कोरे क्णणोपो
आपत्तिकी वन्दिनी याक्ता कमी बची ४२

हवे पूर्व कर्त्तवी चार मयइहायाना अइगर्ग ररीय उीवे
उत्तली पावना गिज्जाणमपन गदो नाप लक्खे हुतो त्त त्ती आरया हु त् आरती तेथी नेण तेना, य
एव गणुण आरसा कही वरुण पाक्यो वाउ उया वगती त्ते मणु कमी पावे पानीनी करती एउ ते वाप क्को
उत्तली न. पाडा वरया वर वरप वीगपावी तेन नदीपर पत्ती वाप पाडा गणे नेणे एक वा
ती एग आउवया गनउत्तली पाण पय गमान आरमज्जे

गणार्थं — एतन्व्यादेशस्य वृत्त मन्त्रो हि यमस चरन् याम्भून इच्छते, सतत वृम्भ-
 ज्ञानाप्यततयानामदमो मुचतीति अन्यूनाधिस्यनता सजातास्येति (७) ए
 अथ कुम्भुनेच्छिषार— बुज्जायन्तो कुम्भुकोत्ति यस्मिन्कुम्भु निगा आणा,
 आत्मिसगपन्निनपप्रांगसपादणा णर ॥ ५७ ॥

(टीका)— योधयित्तयो युक् कारणीयोय मम कुम्भुत्स्ताम्ब्रयूक, — इति
 गत्या निम्नमम उच्यते यो यते— प्रति कुम्भुत् द्वितीय कुम्भुत् निनातरेण द्रयेपा
 आडा गडा प्रदिना तत आदर्शके दर्पणे यद्विजसेन प्रतिपिन प्रतिकुम्भुत्तया स
 रम गाम ग्वा र्भु ३७ मावता केन्तु इमेना ताम देवता कल्पा जयथी म्भेत्वा ए रीत केतु रठ गजन कथर
 नदि एतां गारु मृ प्ता म्भ ए ए ग्वाग्गणाय उ ए
 हव इत्तान्तुं डाग र्भु ले — गज्जण द्रुवम कर्था क मापा इत्तमा म्भिा इत्तमान वधारु त्योरे पक्व आ
 शिगामान्तुं पत्तिर्विष क्वाची न द्रुवम एग पान्ता ५७

आ माप इत्तमाने बीजा क्वाचा विनात समात्तुं प्थी गज्जण आडा मात्तानी त्योरे रोहाए आरत्तामां त
 न न प्रतिर्विष एत्तुं अने एन ने गाम्पना इरीर शान्ते न न पक्व क्वाचीने ते आडा गुरी म्थी, नहिंके बीजा रोदे
 पयाग कर्था कमे इत्तान्ता जागे द्वाकथी पान्ता मन्निर्विक्ते इगीक पायी नारे मग्गएथी उग्गाह पुक्ति तेवा म्भे

ननु गण्ड दया ॥ एए ॥
 (टीका) — ततो गालुकारहस्य सिक्तामयपरत्राल्लक्षणस्य ब्राह्मसिराज्ञा, इत्या राज्ञा-
 नगिन - यथा — जट्टप्रयोगमस्माकमीदृशो परहक इत्यस्मात्सराणात् इत्त समर्पे
 यत इय युय प्रतिज्जद गालुकारहकप्रतिपत्तक गयमुक्तो राजा प्रतिज्जणति यया
 - तिमप प्रतिज्जदो नयति कुत्रापि इति ज्जणत यूयमेव माम्भ्या ततो रोहस्यशिक्षि
 तैरप तस्मत् — यथद गालुकारहक कुत्रापि जयति नयेत्येवरूप तस्तु जानाति डेय
 (७) ॥ ७ ॥

गानुसानी गय गोरनवानो दुस्स ग्या गामभियाओए त्तु ए अमे जोड नथी मात् नमना मोक्कना गनाए
 य शु नमना रथा एण थाप छे ते जाणोते के ? तेओ रोह्या के ते ता तथेज जाणाओ एए
 यथ वनाओ च्छां पाक्कानो त्थार राहाए गीमवेग गामभियाओए त्तु के एवी गण्ठी महात्ता मात् रेवीनी
 एना नमना पाक्काना च्छाम इहेत्ता राना रोह्या के शु एतो नमूना बाइ उक्काणे थाय छे ते तमे जणामो त्थार य
 शांगरता त्थारा गम्भ्या के रेवीनी यथर थाप छे के नहि ते यान आप्तन गाणो डो ७

गानुसानी गय गोरनवानो दुस्स ग्या गामभियाओए त्तु ए अमे जोड नथी मात् नमना मोक्कना गनाए
 य शु नमना रथा एण थाप छे ते जाणोते के ? तेओ रोह्या के ते ता तथेज जाणाओ एए
 यथ वनाओ च्छां पाक्कानो त्थार राहाए गीमवेग गामभियाओए त्तु के एवी गण्ठी महात्ता मात् रेवीनी
 एना नमना पाक्काना च्छाम इहेत्ता राना रोह्या के शु एतो नमूना बाइ उक्काणे थाय छे ते तमे जणामो त्थार य
 शांगरता त्थारा गम्भ्या के रेवीनी यथर थाप छे के नहि ते यान आप्तन गाणो डो ७

—यमिति, न नि अस्ति नाद्रिता निरोद्धते, नच पुगदि रायरीति नतो भगी-
भुञ्जोत्—रिमसो मृत ? तैरुत्—ण्यत्रियत्रिस्त्रे रक्षति तोरण चानाति, रि र-
य प्रामीणा विद्य (७) ॥ ए ॥

आणर मग अगड—उदग मिष्टति मीद आणण प्राणगोनि नेमट—
इत्रिय सावरण मित्तीअ ॥ ६१ ॥

(टीका)—नन आनयत स्त्रमरट दूय अत्र,—दुन,—उदक जन तत्पयधि
मिष्ट मधुरमित्यस्माद्धेतो —अत्रदि नगर्गमितिमचारनयामगंन ज्ञानात्रिमम
प्रमाद्धिगमानि कृञ्जज्ञानीति इत्या प्रामाट्टानयनमादिष्ट ज्ञानामिति

अस्यमाज्ञाया पतिताया सत्या तैर्ममियके आरणसंरुण्योद्धनोऽङ्क इत्यर्थ
इत्यस्माद्धेतो प्रेषयत एतदावर्षिना कृषिका नगरोत्सवधिनीं सुदृग्भमिसा, तेन नदनुमा
त्राणा, अम गाम्पलोया शु नाग्निप ? ए

पीवृ षाली द्वारमी नपागे वृचो इहो चागे एगे दुस्म धमं तेषं एगु व न जगती द्वेषयो नन गानगी
नगरी गारमी मोस्वो ६ ?

टीका—यत् नपागे कृचो इहो वायो नेपके तेषु षाली पीवृ छे, एतत् ने अर्द्धा नगरीयां मोन यस्मीना रा-
ण स्वान वगना रस जगधी वचना पाणी गाम्पी गणो डे तथी गाम्पना वृग वास्वानु तमेने परमापु उ आ
दृाप यथा न गाम्पनीयाओए ते आङ्गा ए रीने अन्वधी के अर्द्धानो कृचो जगती डे पाट तेने खैन्तारी नगरी नगरीनी
एव गामी चर मोस्वोचो के तेना मार्ग छावीने अणाले वृचो नगरी तरु आये मतस्त्र के राजा जेप गाम्पी न

अग्निं सूर च विणा—चावन्मग्निं हि पापम् कृणुह, अवेत्से सपान्गण—मु-
 क्तुमुक्त्वाह गयस्स ॥ ६३ ॥

(श्रीश) --अग्निं वैश्वानरसूर चादित्यं विना अन्तराणा—चावन्मग्निं हि हिंति
 —चावन्मग्निं चावन्मग्निं च द्वीरेण च पयसा पापस परमाद्य कुर्वन् अग्निना
 न्वा गानाङ्कारुणे आपतिते सति सपादन द्रुत, कयमित्याह—वल्कुळटिकोमणा उ-
 र्मुटिका नाम नहुकानगमिद्धितगोमयादिकचरपुजस्तस्योष्मा उगागस्यर्शचिङ्गाण
 म्मन गतम्यान्शस्य

गल्लगच्छिंस्तेनिरिक मृन्मपञ्जान मध्यनिद्रितससमुचिततदुचडुग्ध त्रिधाया—
 गाय उरुरटिकारभ्य निद्रित तत कतिपयग्रहरपयते सुपमच पायस सजात राज्ञश्च
 निद्रितमिति (१) ॥ १७ ॥

गसह राहगाओ—दस ति नाऊण आणये राया, आगञ्जउ सो सिग्ग—
 आग अन् गुं १११ चावा अन् २१दी दूसात् ११ एव दूस्सय यत्त उक्करीनी याक रंत्ते न्नाय्यो १२
 श्रीश —आण अन् गुं १११ चावा प्प दूरत्त दूसात् ११ आ दूस्सय यत्त उक्करीनी पत्त यणा काठ्ठी
 १२ ॥ १११ आण यणात्त १११ नो १११ो न्नी वाग्गी व दूस्सय यत्तयो १११ो रु रोहानी गसाहदी त्पणे पाणी
 ११११ आण सट्त्त न्ना अन्त्त दूध चावा जरी उंत्त उक्करीनी दूत्तु वाद वेत्सात् पद्दोरे ने वेगार गीनि दूयाक
 ११११ पत्त रात्तत्त आणी १११

यानचक्षने च यान गत्यादि च ननशब्देन चरणचेष्टा परिगृह्यते ततस्ते परिहृत्येत्यर्थं ,
 तथाशब्द समुच्चये, ज्ञानमलिनक याने सत्यपि मञ्जिनमौ मञ्जिनदेह स्नातो मन्वानि-
 चक्रनेरश्च सन्नित्यर्थं ,—अन्यथा पद्मच्छयाद्विपरिहारतना प्रकारेणगच्छतु मलय-
 मीपमिति (८) ॥ १४ ॥
 नतोऽसौ रोहक एवमाज्ञापितो नरपतिना तदादेशसपादनार्थमागतु प्रारब्ध—यथा,—

अमनस्सासधीण—सक्ता चक्रमञ्जशृमीण, एतन्मगाढहागो हाचि च माग-
 ण सपत्नो ॥ ६६ ॥

(टीका)—उह चउमासस्य ह्यो पद्मो, तत्राद्य दृणो द्वितीयश्च शुम्भ ,

तत्र च दृणपद्मोऽमावास्यापर्यंत शुम्भश्च पौर्णमासीपरिनिष्ठित ,—एतन्मासाभ्या
 एव आतपत्र अनेनजम एव्य रुद्रा आताश, मार्ग अने उ मार्ग नथा यान एत न गान्धी कोरे अनेचक्षन एते एव चानवृत्ते
 ए वथानो परिहाण करीने अत्र स्नान कर्त्तव्यं उतां मसा गरीगागे र्हेति अथया एते ए सराग मवार परिहाण करी
 न मागी पास तणे आरवु १४

ह १ राहाने रागाए आ रीत परमात्मां त तेना हुक्म रजारा मांटे आ रीत आरवा नाग्यो—
 अपाप्ती सधियां सांजना वयन ए वंनानी खनी जपोन्मां थक्षे येने कोरे हरे अगोदी करीन त्यां आख्यो ६६
 गीता—इहां द्रमासना ये पद्म थाप डे—त्यां पहेलो कथा अने रीजो शुक्ल यां

स्तेन चक्रमच्छिन्नासिनीस्वद्वत्पदपूरवेण व्याजस्तुतिनामकोऽयमद्वकार (ब) ॥१॥
 सकारतियसोत्रण—विघ्ननिष्कविपुञ्जगामि, कि चिंतिसि अद्वयार्त्तिन्नि
 द्य सा कृतो जलणा ॥ ६ए ॥

(टीका)—एवच रोहकेण पठिते तुष्टमना नरनाय—सकारतियसोत्रणति
 मत्कार मन्त्रपुष्पजोनाद्वदनादिप्रदानरूप तस्य चकार, रात्रिचत्तोपल्लजनिमित्तमति-
 के स्वस्यैव समीपे स्वप्न निजाज्ञाभरूपमनुज्ञातयान ततोऽसौ मार्गयेदपरिश्राततया
 प्रथमयामिन्यामेव निर्जरनिजाचाक् सपन्न विघ्ननिष्कद्विति प्रथमयामिनीयामा
 त च तदुत्तरदानकृतकौतुकेन विघ्नेन कृतनिजाभोद्वेण नृपेणविबुध्यमानोऽसौ कवि-
 यया नीलायष्टिरूपया सृष्ट—स्तदनु—पुञ्जति जागरितश्च सन् पृष्ट “ किं स्वपिसि
 र चरी म्नी पत्नी विनामिनीश्रोना द्ययना पणोर्मा रहेद्वी नेवरीश्रोना राणखण्णना नीधि—आ व्याजपुत्तिनामे
 अस्कार छे १७

सकार करी पास म्वाक्यु जाणेसा रागाए क्वा अफकारी पूज्जां (तेणे क्यु के) जाणुडु शु पित्तेडे (एम
 पञ्जां तेणे क्यु क) रकरीनी झींदां गोल केप थाय छे ? ते केप थाय छे ? ऐनी अफिणी ६ए

टीका—एम रोहाए १७पण कर्तां रागाए खुसा थद तेने क्व पुण जोजन बोरेची सत्कार करी गन्नी ह-
 व।सि नणारी पोताना पासे म्वाक्यो हवे रोहो रसे चाद्वी थारेतो होवायी रातना पहेसा जाण्णान चर उर्यमां पनी
 पया थान पदस पदोरासा छेद जाणेसा रागाए ते केवु उणर अयाे छे तेना कौतुक्यी तेने उम मारी उता ते न जाण्णे जा

एव पुण्योने पुत्रा—आसात्यपन्नपुत्राण किं दानं ? १० एव पुण्योने पुत्राण किं दानं ? १०


—पाय नृत्ताणि उ ह्यति ॥ ७० ॥

(टीका) —प्रथमप्रहरणपर्यन्तानि इव छिन्नीययामाते पुनरपि सञ्चिन्नाम्यर्थात्
गण प्रतिरोध्य त, राज्ञा प्रजा कृता यथा—किं चित्तपमीनि ? रोदर —आयो-
न्यपन्नपुत्राण किं दीदृमिति अथवा पिप्यनस्तस्य तस्युत्पन्न किं दीर्घमिति, रा-
जा —किं तरामेति कथयतु नमानेन रोदक —छे अपि प्रायो यदुत्पन्न तु
त्य एव जनत —प्रायोमद्वेष्टा कथयित्वा कथायितुं मिश्रितवतुयानांतेपि न विंगं
इति न्यापनाय

इत्यत्र गाथा प्रथमाह पचमात्रासप्तमाशा गत्र “ बहुधा विचित्र” इति यचनाय
दुष्यति बहुत्रपि पचमात्रगणयुक्ता इति (७) ॥ ७१ ॥

७१ एव पुत्रां तण रतुं र वीरतना पान अने प्रवृत्तीमां रोग सापुत्र ? त्योद्युं त ३ ७ ' मापे य नुस्य ३ ७०

टीका—पट्टता पट्टानां देवा मातृक बीजा पट्टोना गदे करीत कां अदवादी नन अगादीन गजाए प्रपु
४ श तिलने ८ ' गला स्या —पीपना पान अत्र प्रवृत्तीमां रण साद्यु होय ते नै गजा स्या तु न रदु के न
पा शु नर उ ' सदा स्या —यत्तु रीने वसे सग्योत्र होय ते मां कदवली ए मतस्य क गदकमां रया ४
५ ए दाय ना एण यमा न पद आ गाथां पूर्वाभां सातमे गण पाय ययानो ७, एतां न यदुता जालिनी टागापी
नवां यप नधी येय बहुसा विविन मकरे चाप ते एम रद्वेषु उे यदुसा एक्षे र्पां मातायाग गणयती ७ए



॥ पुत्रा एवति रुद्धणाय ॥ ७२ ॥

(टीका) — चरिमाद् इत्यादि चरसाया यामिन्या पश्चिमप्रद्वरपर्यंतजागरूपा या पूर्वमत्रिमहुजागरणस्रब्धातिस्वाडुनिजो रोद्धक वस्त्रिमास्पर्शानातिरेकरणेन प्र-
तिनाथिन सन्नरदत्त यथा — रुद्ध पिया ते दति वति क्रियत पितरो जनमास्तत्र हे
गन्त्वं नर्त्तते इति चिंतयामि राजा — के दति कति मे जनका दनि निवेदयितुमर्ह-
नि तमत्र रोद्धक — पाण्डुति पत्र राजा — के दति किरूपा रोद्धक — गजधनद-
चक्राना — सोढगत्रिचुगति शोधको यत्रप्रथात्रसो यश्चिक्थेति

नतां राज्ञा सदेहापनचेतसा जननीपुत्रा कृता यथा विसेत्र मे पत्र पितर ?
नयापि पत्रमिति यथा रोद्धक प्राद्ध कथनाय तथैत्र निवेदन कृत पुन (७) ॥ ७१ ॥

— ५१) यत्र कृतं ताग गात्र रत्न ३, न सद्भा १ पात्र, राण रोण ? गत्रा, इरे, यंनत्त, पात्रा, अने
नरयो गत्राए जननीन वृत्तं तणीण पमत्र छ एम रगु ७२

३) पा — उत्रा) यत्र एत्र उद्धा पट्टारा उम अगाणी रति बहु जाणकथो अति मीडी उन्मा पत्तो गद्दा
जा रग रग अत्रकथयी जाण यरा यद्धा के द्द गजन, ताए यत्र रत्ता छे न रिताक तु गत्राए रगु — लिङ्गा
७) न तात्र रत्त जाण रोत्राण रगु — यत्र छे गत्राए वगु ते रोण रीण ? रोत्राए रगु — एता, इर, गत्रात्र,
गत्रा) अने रीण।

न्याः गत्राए शरयो पद्मी भावान वृथु रु शु माता आ रति पांन विना ३ ? त्याए तणीए पण द्दा पाद्री ज
गत्राए रगु गत्रा द्दा पाद्री ७१

पुत्र त्र्यमुद्रगते दृशिककतङ्कणदेहेद समञ्जनि, सपादितश्चासौ रहसि रुगिक्रामयस्य
 तस्य तङ्कणनेत्यसायपि मनाग् जनकरमापन्न (७) ॥ ७७ ॥

शरण पुत्रा, रञ्ज—णाएण दाणरोसदकेहि, कविप्रिया य तद्वा—गयान्दी
 ण सुनो सिन्धि ७४

(टीका)—एष जनकसन्ध्यासत्रादे सपनविम्बेन राज्ञा शरणगोनरा प्रजा रु-
 ता यथा केन शरणेन त्रयायमयोत्यतनिपुणधियासपि बुद्धेरगोचरो ज्ञात इति ?

गोहक -राडध प्रतीतरूपमेव न्यायेन नीत्या सामादिप्रयोगरूपया यद् परिपा-
 नयति, तथा दानरोपदमे दानेन कृपणादिजनस्वप्रिजमवितरणरूपेण कुपेरधनत्यागानु-
 शारिणा, रांपेण क्विप्रिनियमसिन्धिने जने अनाद्वचानिस्यकट्येनासहिष्णुतालभणेन, क-

रानु म जन्म कान तयी त पप वाप यथे गणाय—हे ए रीने के हे पुत्र, योर तु माग के हुनो त्पारे मन
 र ती मासना दहनो यथा तमी एतत्प्रा योनो यनोरेन धंडी सरालीने मागे रोहना पूर्ण शरामा आय्या हुनो न
 था न पण जमक वाप थयो गणाय ७५

शरण पुत्रा रोहाए वपु के न्याय प्रमक राय शब्दवारी, नानवी, रोपरी, दन्धी, अने कस्मिन्ना नगान्माथी
 न गता गाना पुत्र डे एम मे ज्ञायु ७४

गोहा—ए रीने चारनी सगरा मळनी विम्बय पामेना रागाए शरण सपने पृच्छा करी के ज्ञा कारण
 थो न आ अन्धन दुदिसानानी दुब्धिन एण अयोरा यत ज्ञाणी ? रोहो वाय्या -पञ्चने तु न्यायवी एटने सामादिक
 नयगणस्य नीनिथी पाठे छ तेवी, तथा कृपण वीरे जनाने इरता नल पाकक तु पोवातु धन अपोरे तेवी, तथा रोपरी

ज्ञानयोगमिति मत्वा परिग्रह स्वीकार इतस्तस्य

तन्मिथ्य समये केनचिदन्तरभूमिवासिना भूषात्रेण सह कृतोपि निमिनाच्छेर झ-
 ग्नमामीन्वृष्यस्य तत्रच सधणन्ति सधान कर्तुमभिज्ञपित राज्ञा नचासौ तत् प्रतिप-
 द्यत इति तत्रति—योगोक्ति—अपि समजनि जितशत्रो तत अद्वेषणसङ्क्षेपेणया
 दति अन्यत गत्कृत्यनिरिस्तेनामानसाध्य साधयितुमशस्य इति कृत्वा रोहकस्य तत्र
 प्रयाग एव नृनुना प्राप्तश्च तत्र रोहक पृष्टश्च स प्रत्यर्थी नृप समयेच—ध-
 म्मा शयागमादगन्ति—यश्च तेन्नेरयोरुच्यमानोपि अत्रिध्वासाद्वा सधानमनुमन्यते
 तत्र धम गयारायन द्वौकनीय तेन साधन स्ववशीकारकरण रोहकेण तस्य इत

श्रीश -याः तनी बुद्धिनी कर्मात्करी गुहा यत्वा गन्तव्य आ मागे छे एम ज्ञाणी क्ते पोतानी नो
 कर्मात्क गन्तव्य

न कथम जितगु गतन तनी यदोन्नी ज्यीकन रंद्धेना कंद् गताना माये कंद्क काल्पना योगे चर ज्ञान्यु
 इत त्वा गताना कततो एष यदेके यति कर्त्वी एत ते गायको गता कर्त्तव्य कर्त्ते न इतो, तेधी तेना उपर जितगु
 न गतव्य कर्त्वी एत विचारुं के गतागिःवाय कीर्त्तवी ए वत गाय तेष नधी एष शारो तेने गेद्वाने त्यां मोक्त-
 एत इव गता एत क्वासी यदात्ता एते ज्ञापन गतनी गले एतु कर्त्वी शर मय्य आत्ता ज्यारे ते ते उपायोधी
 गयशकनी एत एत क्वाचि गतना सीर गयिन कर्त्तव्य न साग्ये एत गदाए तेष इय ज्ञान्यु एव धरीने तेने पो
 पात कर्त्तव्य योष

धम्मो मे हारित्रियो—काज्जा,--दत्तणो नओ दिश्रो, रुदु होइ मज्झिमो-
णसो -जइ तुहत्तणओ उ तस्सेय ७६

टीका—ततो रोहकेण्यथायि—विमर्यमस्मान्निरपराधानपि प्रतीत्यं देवेन इ-
यान् दोष कृत इति तत्रोक्तं पृथिवीपतिना—धम्मो मेहात्रियो काज्जाणत्ति धम्मो
मम हि यस्सया दारित इति कृत्वा ततो रोहकेणान्यसत्को महंयं कस्यचित् सपथी
यसो धमो दत्तो राहो अयमन्निप्राय—देय यदि मया दत्तो धर्मस्सपथीयोन्यत्र प्र-
याति तदानेन महर्षिणा आनालकात्ताइ यदनुष्ठितो धर्मं स मया तुन्य निनीर्णं इति
—नाम्नि मयि कोपस्यानकाया प्रज्जो

मा जितशतगणए राहा मत्थ गय्य काप कर्था ७४

माता धर्म त गमाव्या तथी ररीन (गुस्ते हु) त्यार धर्म (तर्पने) आप्या प माग कप ? जम तापो तन थ
या २५ ७२

रीया—त्यार रोहए वगु व गापाडे अमो निरपराधी उपर आप साहुर आप्तो कोप र्यो डे ? राजए
वगु व मारो धर्म तै गमाव्या तथी करीन त्यार रोहए बीजा कोइ महर्षिनो धर्म राजने आप्यो—एत्ते के तणे क-
गु र मद्दगान जो पथीधत्तो तसणे धर्म बीजाने पहेलितो होयतो आ महर्षिए नलपशथी मारुत्ति जे र्म कन्वो मे
ते इ तपान आपुहु—एत्त हवे मासपर गुस्सो राववाहु तर्पने सवर नथी

दृगोमहनिमित्तीर्थं प्रज्ञप्तमिति गम्यते-यथा-“अपुत्रस्य गृहीतस्य शत्रुजिर्गता च य-
 न्माचन तन्महत्तीर्थमिति पूर्वमुनयो व्याहरति”-इति प्रज्ञप्ते उज्जयिनीराजत्रयेन
 राष्ट्रप्रयुक्तन ननघातिना पक्षिसत्रधिनीपु गोपु गृहीतासु तन्मोजनाय पत्नीञ्चि
 द्यपु निर्गतेषु गून्यासु पक्षीपु ततो धाटी निपातिता,— बहिर्निगताश्च ते गृहीता
 इति (७) ॥ ७६ ॥

तत—वीसासाएण पुञ्जा—सिद्ध द्विषण मप्यमतो उ, तह धम्मिगो सपु
 णा—अत्तत्रो परचित्तनाणिय ॥ ७७ ॥

(टीका)—विश्वसानयने सर्वेषा सामतमहामात्याडीनामात्मत्रिये विश्वासे

इ. १ याग वक्रा महत्तादी पत्नी नहि उच्यता त्वा तेषु पत्रदाय मां तेषु एषु त्रयाण्यु ने अपुत्रियाने
 अथय गायन न मन पत्नी नाप नन दारुतनु ने माडु तीर्थ उ एष गर्भना ऋषिब्रो मही गयाछे एष समवाती तेषु उ
 नानाभा गजाया ररसन तत्रगना मारुचने ने पञ्चिनी गयो परफावी त्वारे तपने डोम्बरा पत्रीना चीनो नीम्ली प
 य पय पत्रीका गनी धर्मा यां कणे धाड फादी अने ते गह्वरे नीरनेयात्रान परकी पात्र्या २६
 था—गहाए विश्वामर्षा आण्यथवी गहाए पत्री जेता सपयाए रसा त्रित्री रपु क रोहो अममत्त तपत्र
 १ गांषा पुण्यपान निर्नैमूअन परिजिने नाम पाररन्तर छे ७७

टीका—गहाए सपया गाभत तथा गहापत्रिबाने उपजासर्वा रागए तपने पत्री जोगु के तपारा मनर्षा रोहो

श्रौत्यपिनीनाममत्तिनामथ्येन करणश्रुतेन गतेन रोद्धकेण,—सर्वगुणेषु त्रुद्धिगुणाति-
 आगिरान्,—यत पटयते,—

श्रिय प्रमूने त्रिपदो गणद्वि—यथासि इत्ये मद्धिन प्रसाष्टि, सस्फारशोचिन
 पर पुनीन—शुद्धा हि त्रुद्धि कुवमामभेसु ॥ १ ॥

उदन्वत्तानृ, म च निधिरया योजनशत—सदा पाथ पूया गगनपरिमाण क-
 नयनि, इनि प्रायो नाया स्फुरदनधिमुद्रामुस्त्रिता —सता प्रज्ञोन्मेप पुनरसमसती
 सा विज्ञयने ॥ ७ ॥ इति ॥ ७० ॥

इय र आत्पनिची नामनी श्रुत्तिना शत्रवद एण श्हेनाम्नु वेमके मरता गुणेषां त्रुद्धिगुण रन्यातो छ,
 त एण र व=राय ए र

परित श्रुति गान्तर वपंम्नु छे न इक्षमी वामंड, मित्तात्रान राऊ छ, एता एता ररुं, अक्षकीनि वृते छे,
 अत्र मंशागारावी वीजत एण परित वर छे १ पूषी रगियायी परिछिन्न छे, दग्गियो सो योजनना गगापंडे, अने
 आशरपदा एण लक्षण एण श्हेनार गुंय साय वरुं, ए रीत नांय मरता एणश्रान इन्नी एण तागनी छे, एण मज्जतो
 नो पट्टाना विराग ना इन्विनानात्र तास्य छे २०

गोदानी क्या गपय एस.

तामविमा दर हार विष्णुश्री संप्लुं हवे पणित रूप हार कदं छे

ततस्तेन तद्योगसिद्धाशकटमारुह्य चमयाणति इतनिर्जन्ममात्रेण गच्छति सर्वा-
 मामपि तासां जज्ञाण दृष्टम् विक्रयति विकेतुमारुह्यथासौ ता — ताच ज्ञोको शुक्रानि
 ' तद्विना केनाव्येता " इति प्रयदन् सन् ततो धूर्त्तेन झोकप्रयादसहायेन जिनो प्रा-
 मयक तदनु त मोदक याचितुमारुह्य प्रामेयकश्च अशम्यदानोय मोदक इति दृ-
 त्या तस्य रूपक प्रयउति, स नेउति,—एव छे त्रीणि यागउत्तमपि नेउत्यसौ चिनि
 त च प्रामेयकेण—“ नेतस्मारुह्यर्त्तान्मम कयचिन्सुकिरस्ति इति निपुणवृद्धिपरिउद्यो-
 य यन्दार ,—चतुरवुद्धयश्च प्रायो द्यूतकारा एव जग्नीति तानेयावगामि ” त
 धेयच दृत्त तेन दृष्टथासौ ते —यथा जज्ञक किमर्थमस्माद्विस्तरमासेयमे त ? नणि-
 त च तेन यथा ममेवत्रिध व्यसनमायातमिति —ततो—दुयग दारे अनिष्केनो इति वु

एव न धूर्त्त न राक्षसीओना गाजाएर एही ते सपत्नी नव हगानीन याली, वंत् तेने तेवा मरुत्तान् झोको
 ए ना राक्षसी मधेसी छे ” एम एहो देना अरण्या, त्यारे सोरना प्रयादनी मरुत्थी ते पूर्व गामनीयने जीनीने
 न साहु पागवा सागणे गामदियाए धार्त्त के एयका साहु तेम दस उराए तेथी ते तेने रुषियो आपरा साग्या, एण धू-
 र्त्त न मीथो एम ये प्रणने डेने सो रुषिया एण न हीया त्यारे गामदियाए त्रियालु के आ पूर्व मने डोफनार नथी आ
 यानने एउसाणा नओ निपुणवुद्धि होय ने वरी शके अने तेची बुद्धिसाग मणे जुगारियो होय छे मटे तेमन सधुं, एम
 ितनी तण गपन करुं त्यारे तेपणे एउधुं के अयारी तुं ह (हृदये) सा मणे तेवा करे छे ' तणे करुं के मारा पर आची रीतनी
 प्रापन एही उ ' यार तेपणे शीवजुं के कंठोदने त्याधी प्रथमां आने तेमने एउसाण्ये ते

च प्राग्गणनसंज्ञायासंज्ञा च श्रद्धायादिमन्त्राद्गुणमममि तल्लक्षणीयं च विना
 तत्प्रयोजनान्निमित्तं पश्चिमोक्षो गणनागच्छेत्परमार्थानामप्यत्र नान्यथापि त्रुष्टान्
 ज्ञानमृद्धिस्तथा श्रद्धासुमारज्जने, पर तद्गणनाममाख्यातिराधमविरुद्धेन प्रविश्यात्
 न तानि गृहीतुं शक्नोति चेदुत्पत्त्येवेति—अन्यथा च क्लेशविशुद्धिणा पश्चि
 क्तं चतुष्टयं ततो मर्षदानिसुखं तदनु संपादयेत्प्राप्त्युत्थानमानसैस्त्वस्त्रिभानाया
 तानि पश्यति त्रिभानि न च परिपूर्णमनोरयं समवति पश्चिक दति तस्योत्पत्तिर्
 उच्छिरिति (७)

अत्रैव मतानामाह—अन्ये आचार्या गृह्यकारमित्यत्र्याग्यानि—यथा वैश्वि
 ल्यथि स्वपि प्रत्येकेनाप्यनुपजीवितपरान् गृह्यानाद्योस्य चिन्तित यथा अजन्त
 लीयानि द्मानि पञ्चानि उत्तरे, कुत—यत्रगृह्याणां इति पायमहनात् पश्चिक्तो
 रमथानन सागण गमनादागमनाच्च यदि हेतानि पञ्चानि नष्टयितुं योग्यान्व्यभति
 त्ति वात्पर इत्यत्राह दृष्टियां कर्मानुष्ठां आसीत् न तदपराज्यो तापपक्षेपयोगो ण्तस्य तत्रा गुण्य यत्तं माया पयो
 पक्षे आया पश्यन्तं नता मनोरथे प्रयाथानी आंयत्तिरी बुद्धि जाणवी

आ गणनं पतन्तं यत्तं हे—रीता आयाया दृष्ट्यागती आ रीते व्याख्या वर उ के क्तद्वारा हेमणुष्ठा
 प त्ति उगीण वात्प ण नष्टि गणन्वा पत्रयाय गणने कोक्षेने विषयुं रे आ पत्ये अत्रत्य साणे उ वेमेके आ
 यान् गणानुष्ठा जाय आरे ७, तपी गो ए फत्ये ताता योग्य हल न वाद् णने अत्रत्य गत्त, पण आ ता तेष

या हवई ॥ ४ ॥ ज जणइ महारात्रो—त कायव्व ति मउद्वियक्रेहिं, पन्सुय मि-
मेहि समण—उवविठा ज्ञोयणस्स कण ॥ ५ ॥ तत्तो य ज्ञायणाइ—पायसज्जरियाइ
तेसि दिव्वाइ, जाय पवत्ता जोत्तु—मुक्का पारच्छिसुणगात्रो ॥ ६ ॥ सइइरुइचरणा
—यानान्निमुह समागया जाय, सेणियज्जकुमारा—ताव जणण पद्दाया ते ॥ ७ ॥
सेणियकुमरेण पुणो—धेचूण तेसि ताइ थाइवाइ, स्वित्ताइ अन्निमुहाइ—इग्गा ते
पायसे तम्मि ॥ ८ ॥ जुत्त निययाइगय—पायस मेणण धीरचित्तेण, दिट्ठो एस ज-
इयरो—निजेण तो तमि सत्तुठो ॥ ९ ॥ नूण सुनिजणवुद्धि—एस कुमारो जमेय ज-
सणेति, नो जुम्भे नियकजा—धरिया सुणगाति सतोसे ॥ १० ॥ एय रज्जाउ दम्भो
—जोहिज्जतोति अन्नरार्द्धि, नो रज्जपरिच्चाय—काही दाणप्पयाणात्रो ॥ ११ ॥

परो ४ तमण हाय जामी वृत्त्यु क तथा वदोडो नेम कस्यु चाट तमय यतां तेओ जमरा येडा ५ त्योरे दूथपाक
पी जरेसा जण्णा नेपने देवापमां प्राव्या हवे जेवा तेओ जमवा ज्ञाय्या के पारधीना वृत्तरा दूया मेजववामां आव्या ६ ते
ओ मिइजेवा फात्ताया होट नवा थायो पाप प्राव्या के श्रेणिक निगाय नीजा तुपारो करीन त्यायी उडी नाजा ७
एण नामां नणे पदे वनेने पोताना चाज्जमां र्हंयो दूथपाक ग्वाट नीशो आ रमार जाली राजा तेनापर खुन्न घयो ए
गनाए विचारुं के आ तुमार गंगवर उनी बुद्धिवाट्यो ज्ञानो वे नेपके आनी आपत्तमां पण ते पोताना काल्थीचुरयो
नहि न माये वृत्तराज्जाने पण संतोष्यां गय्या १० ए रीते राज्ययी पण ए बीजा राजाओए रुथो यको दानपदान क
री गण्य वाइ नहि वराने ११ माये दास ज्जे गार्हुं मान देरुं नहि नेक्के नहिनो नीजा टमारो पत्सर परी एने मारी

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

सो पुष्टो ॥ १९ ॥ कस्त इह पाहुणगा—तुम्हे, तेणापि तुम्ह जणिय मिण, नीओ
 धरमि उचिया—विदिया सब्बथपडिउत्ती ॥ २० ॥ तो तस्स ज्ञायणसोमनसुजगत्त-
 ण त्रिणयसुयाण ज्ञापेहि, अस्मिन्तमणो सिट्ठी—धूय नद निय देद ॥ २१ ॥ परिणा-
 विओ पयथेण—भूरिणा जणियजणपसोणण, तद्द्वचोचियमपन्नसन्धज्जो मम तीण
 ॥ २२ ॥ अचतणुरत्ताण—सुविणमिपि त्रिप्पिय मुण्णतीण, त्तोच्चियत्रिणयपरयाणड
 मिउमहुरवयणार—॥ २३ ॥ इगो जोगे तोचु—मोचु सज्जाउ सेसचिताओ, अड-
 जामाउपयउत्तससुजणाणीय सम्पाणे ॥ ॥ २४ सुहपासुत्ता पेउद—अहन्नया सु-
 विणयमि सा नदा—हरहासकासधयव—चउदसण उसियरु च—॥ २५ ॥ निय

बना बन्ने उज्जवानी पैयारी करत्तां तेजे तेने पळुके 'ए नपे इहां वीना पौणा थड आख्याओ ? तोगे बगु के नपा
 रा नयी त शेर तन गेरे तदी गयो त्यां तेनी सयठी गने योग्य स्वागता करी - २० बाद तेनी बोलवानी चतुर्गड,
 मज्जणण, विनय, तथा सौमन्य आस्थी लेंचाइने शेठे तेने पोलानी नय नाम्नी पुत्री आपी अने तोकाने आनन्त्यायन
 चार उज्जवाउपी बक्कने अनुसाली सयठी गौजवण करी तेना साये तेने पणाय्यो २'—२२ नय तेनापण अत्यत
 अनुक्त होइ स्वर्मा पण तेनो अयथाय नहि कर्तती अने एपीत्र ते विनयमां कत्तर रहती अने मूढ तथा मग्न बाणी
 चालनी हुनी २३ कौपी साये अणिक बीत्री संयळी विनाओ छान्दीने जोग विवास जोगवा ज्ञाय्यो, वेपकै ज्ञायड
 कार चार हेन रावता सांसीया तेनु रदी रीने सत्कार सेम्मान सायवता हुला २४ हुवे ते नंदा पसेवला मुवे सुती थ
 की स्वर्मा पहोउवना हास्य अने वाशना वृत्त जेवो थोळ्ये चार द्वासेमनवाळो, उल्ली मुवाळो, एवो हाथीजो बन्चो
 पाताना मुयमां पेशने जोइ जणी उज्जने तल्लन पकिन जणायया चागी ल्यार तेण तेने आ ज्ञाय्ये बगु २५ २६ हे नि

12-14-15
12-15-15
12-16-15
12-17-15
12-18-15
12-19-15
12-20-15
12-21-15
12-22-15
12-23-15
12-24-15
12-25-15
12-26-15
12-27-15
12-28-15
12-29-15
12-30-15
12-31-15

तस्य एजाहि ॥ ३३ ॥ पत्तो जण्यसमीवमि—सेण्णिओ पाक्खि च त रत्न, मग्गो
 आण्णसज्जो—सज्जो जाओ परियणोत्ति ॥ ३४ ॥ नव्वाण पुण तद्दण—मांमं गन्ता-
 णुत्तावओ जाओ—अइविमत्तो वोहणओ—चहिओ तीण य सेट्ठिस्स ॥ ३७ ॥
 जइ ताय ह्दियवधाग्गो इत्ते धरिज्जमाण—नयरे सग्गहिर्नत्तरमि हिन्नामि अन्य
 च—॥ ३६ ॥ घोसिज्जत महया सरेण निमुणाभि तो मम तोमो, मपज्जइ अइमहुओ
 —अन्नह मे जीवियच्चाओ ॥ ३७ ॥ तो सुट्ठुत्तुत्तचित्तेण—सेट्ठिणा चरियरयण-
 चाणेण, दिट्ठो राया तेणावि—मन्निओ कुणह जहदच्च ॥ ३८ ॥ चरुक्खिग्गया
 सा—सियउत्तच्चन्नहयत्ताज्जोगा, निमुण अन्नउत्तयोसण च परिहिंसिया नयरि ॥
 ३९ ॥ समाणियदोहत्तया—निम्म पणुब्बिग्गमाणसा धणिय, मा साहियनमामा-
 वसाणसमयमि य पसूया ॥ ४० ॥ देवकुमारगार—दारग मदेरगलोयणाणद, तिद्धि-

अने हे बाया, अमार घोळा उवा (दूधका) डे, मां कप पदे त्यां अत्तने ३३ या श्रेणिक पिना पांमं आण्यो
 अने तेने सग्गु राज्य मय्यु तथा सग्गु परित्तो आइत्ततीया ३४ हवे आण्णिके नत्तने श्रीते मांमं गर्तना अत्तु
 जाव अत्ति उत्तम दोहसो धयो ते तेण्णिए वापने कयो ३५ ते ए रीते के पिवाजी, इ हाणीना तारे गहु अने उत्तर
 छव धाय एम नगरा अदर तथा बाहेर फरं ते साये भोग अवाकयी अन्नय घोयणा एनी सांजठु तो मने खुर आन
 द धाय, नहित्तो इ मरी जइच्च ३६—३७ तारे डेउ घणो खुशी यइ खनो धास जरी राजने जेओ एसे तेण्ण र
 जा आपी के मन्नी मुजब करो ३८ हवे नदाने भोग हायीना तारे चत्तावामां आवी अने उत्तर श्वेत्तर परत्तामां
 आण्यु, अने अन्नएनी उत्तयेण्णा कत्तावामां आवी तेने सांजळी वे नगरीमां परी ३९ आरीते दोहसो पूर्ण धायवी

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

य सयत्रनोगो—तन्ने निविहो करेण जो गहिही, एय तस्स जह्दिडिय निचिपयाण
 रेमि अइ ॥ ४९ ॥ अगो दोओ झाल—विदिहोपायपत्रोगसजुतो, नय कुरइ
 उयाओ रेवि—तास्सिओ, जेण तग्गहण ॥ ५० पत्तो अचयकुमारो—तडेस पुडिय
 मिंमय ति ? इह्दिओ जणेण सन्वो—बुत्ततो जो कओ रत्ता ॥ ५१ कुरिओ तस्स-
 ण मेयम्म—णयपरिगाहगो उयाओ ति, गित्तो य अह्मगोमयपिओ तस्सोअरिं सइ-
 ण ॥ ५२ ॥ गुत्त त कत्ति तह्दि—जत्ततो ताणमओ तओ पूओ—यित्तो तस्सु-
 ण्णा—सुओ सो गोमओ सन्वो ॥ ५३ ॥ तीरडियकूत्तरसारणिसद्धिओण पुरिओ
 अगन्तो, तो तेण मो गोमयपिओ उवाडिओ दूर ॥ ५४ ॥ पत्तो उअरिपएसे—गहि-

श्री ॥ ४७—४८ वा गजए य गी साकन वपु क विना ग्ही जे हायवने एन वा तने मलमानती वति प्रायीश
 ४७ ग्या सावा विवि उयाय अत प्रयाणा करी तन सवा सागा, एण सोअन तेतो उपाय सुओ नहि के जयी ते स
 ४८ के ५० व कन्ने य अजयवुमार आरी चन्ना तण ग्छुं के आ शी गरुव उ ? ल्या योअए राजए क
 र्ता मन्तो इजान न जणएओ ५१ अजयवुमारने सवत्र कौपी कहुइवानो उयाय सुओ तेणे ऋ सीसाछाणवु विद
 सर एण नान् ५२ न मत्तियावा कीपीए ग्छुं एअ वरुवा वरुवा तणवणना गसो सइ मेना उअर नाण्यो तेनी गरपीयी
 न उण साए सुअर ग् ५३ अर तण गण इहसा बीया इराना पणीनीक तेवा वाडीन ते कुतो गणीची जयी,
 एअ न गणी गाये न एणान् विद उच कएन् ५४ न उउ उवा अण्यु एअस विनार वरुवा अजये तने सन्ने ते

आस्यारुत्ता ॥ ६२ ॥ सपाश्रियपरमह—ऊसियाणाणा परायरोत्ति, अ-
 भयो रन्ना नयर—पनेसियो जणणिसजुत्तो ॥ ६३ ॥ इत्थो परपमात्रो—
 उचितो तन्नेमि उतरि मनीण, उव्वत्तियमुठियुणेण— एत एव मुद्धी जात्रो
 ॥ ६४ ॥—इति

प्रथमप्रहारायार्थ—प्रभुगति पारपरमर्श मतिपरिजा इतिमत्रिण
 पकीजाया प्रकृताया अन्नयो दृष्टात कथमथ जात इत्याह—सेणियगमति श्रेणि-
 स्य कुमारायस्याया पित्रान्ज्ञातस्य विद्यातटे गमो गमनममृत मुयिणसेट्टिनवटग इति
 तत्र चैरन श्रेष्ठिना निशि स्वप्नो दृष्टो यथा रत्नररो मद्दृष्टहमागत तन्मतेन नदा
 तिमाना दुहित्वा तस्मै दत्ता तस्या चासावन्नयकुमार पुत्रमजीजनत प्रस्तापेव श्रेणि-
 ७ २२ महारापरया अने परानी विप्रि यथाश्रेष्ठी शंजिता नामा अन्नय अन्न क्वी माने गण्य नदी
 ८ ॥ गजनी इती महेश्वानी मन्वी अने तने सय्या मन्त्रियोनी उप्पी परायमां आय्यो अरने अं
 ९ ॥ उच्छिना गण र्नी न पत्नी रीत मुत्ती यथो ६४

६४ ॥ ६२गायाना अद्गर्थ वर ट—रुद्रुद्रारामा मन्त्रिणी परीजा वेडे अन्नयवो दृष्टात छे त शी रीते ते र
 १ ॥ अन्न पुत्रायणामा विनाण अयदा रत्ना ते विद्यायया गथो यं एक गेजे रातता सप्त जोयु कट्टिया शरे
 २ ॥ यया गय नया नामनी पुत्री तन परागत्री ते ीनी कृपयी अन्नयकुमार पुत्र वेदा दया अन्नमेरे श्रेणिक
 ३ ॥ यन्नी यान ज्ञान ज्ञाना नाग्यो एते तेथे नाशने पुत्रतां तेषणे वयु क जे किनारा पर रही अन्न रुद्रान तन्नराजा
 ४ ॥

सर्वकारभेदात्, नन्दान कर्तुमारब्धो तरेण मुक्तो षटो न्ययति त
 तीयश्च न निव षट याचितुमारब्ध — अथ लक्ष्मणं सपत्न्यं तयो राजानघारे
 सारणिपुरप्रसमीप-यवहार (अ २०००)
 नमस्कृत्या कर्मनेन अग्नेनेन परोमनाचार्यं इति, लक्ष्मणं च रोमाणि नन-
 रत्तुमानन या रम्य म तस्य विनीर्णं इति कारणिमानामोत्पत्तिकी बुद्धिरिति

अत्रेव मनानरमाह — अन्ये आचार्या तुभ्ये — जाया कचणत्ति — तो पुस्यो
 ना छयागपि चाय कचन मारिने ततस्तदन्वयसदर्शनात् न्यत्येन सूत्रमर्त्तनोपलनात्
 ना अत्रापि एव वाता न अत्रा रत्ता री एने क नु ओत्त उपासी न वाचना तथा या रीकाण पावा
 त १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

न्यत्र सारणिपुरप्रसमीपे जाया कचणत्ति इति सूत्रमर्त्तनोपलनात्
 आचार्या न पठन्ता ग्यात र त्पार्थी न रयता नतिणा मत्री आर ते प्रमाण तावता मत्री आरतां तना रामस्त्रीवी
 तन इत न वन आणु प गारम्पा वारणिमानी आरुत्तिमी बुद्धि जागवी
 आ व्य ७ पतात वहे डे — रीका आचार्यं रहुते के ते ने जणने वारणिमोए प्रत्यु र आ त्पारा ओत्त-
 न सुत्र वाण सातत ६ ? तत्रा गार्या ने अमारि मीओए ल्यारे न वेना म'आ पामेवी सुत्र वनायु ते वनदी रीते

निवेदित च तेन तयाभिधेयाय यथा समाय वृत्तान् मपन्न वेत्सेनापि स
प्रतिपादित "यदि मम वीनारशत वितरसि तदा त्यासह नीकान् करोमीति" अ-
श्रुणुमत चेतनेन द्वाङ्कारसत्रिद्विद्वमेक सरट विधाय घटमध्ये च प्रद्वि-
ष्य त्रिचक्रीपथप्रयोगेण पुरीषोत्सर्गप्रद्वी कारितस्तत्र तत -दसणामगमो दति पुगि-
पवेगाहलसरटस्य घटाग्निर्गत्स्य दर्शनेपगमो विनाश संपन्नो व्याधेरिति (७)

अत्रैव मतातरमाह अन्ये जाचार्या एव तुभति-तज्जन्निगचिद्वाणाम पुत्राण
दति-तृतीयार्णिक शास्यञ्चिद्बु कुल्लकश्च बहुधेयतापरप्रती तयो परम्पर पृत्राया प्र-
द्वनाया सत्या शुद्धकेन-पुरुषादि इति-विमय पुरुष उत श्रीत्युत्तर दत्त

अयमत्र ज्ञान-स्यचित्प्रदेशो वेनापि शास्यनिकृष्णा सरटो नानात्रिकारे

तत्र गद दृश्यार श्यने ज्ञानायु के आ रीति भास सार्थे हरीम वनी उ स्यार र्थे तेने ज्ञानायु के जो
मनगा सोना म्हार आप वा तेने हु नीगेनी रर तणे ने म्हायु ल्हे र्थे एक सार्थनेवामला सत्था प्रमाठीनि वसामो
नारी ने गणियल तुनाम आपीने ने वसामो मरु वरगा र्थसात्रो तेने मरु आना तेना वेणपी द्वाणायना सनेने
वसामो महुर नीरग्या ने जोइ तेने वाग्नी म्ळी

द्वर्ष मतातर मह डे -रीना आ गार्थ आप महं छे के तदणिक एथे र्थद्वमनी जितु अने श्रुत्रर प
स्र नानचको भेनार यति, त व जगनी पृत्रपत्रम श्रुत्रके "आ पुग डे के मी छे ?" एम उतर वाज्यो

आ गानी मतत आ डे -वेइक उगणे मोइ शब्दचिह्नके सार्थान अनेक ताता साथे मायु वुणानो जो
यो एवामो लो गद वारलो जेनमो तेतो आपी गथ्यो तने वेणै म्हररी साथे प्हायु 'अरे' र्थना तु सद्दपुत्र डे तो क

भेद प्राण्यवज्ञाते इव रत्नपटेन कृन्तक पृष्ट यथा विद्यायन्सद्वृत्ति विद्यातटे नगरे
 म्रियत नाका रत्नते ? तत क्लृप्तकेनोक्त—अहो निद्रो पष्टि कामसहस्राणि अत्र
 नगर रत्नत—निद्रु—ननु यद्युता अधिका ना कामा ज्ञप्तिरिति तदा ना रत्नतेति ?
 क्षुब्ध—ऊरणपमासाई दति उता उपलक्षणत्वात् प्रत्यधिका ना यदि जगतो गणाय
 न ममा सपद्यते तदा प्रोपितादय प्रोपिता देवातर गता आदिशब्दादन्यतो ना
 देवातरात् प्राधुणमा आगता—ददमुक्त जगति—यदि उता सजायते तद्वान्यत्र ग
 ता दनि ज्ञेय—अथाप्यधिमस्तर्हि प्राणुणमा समायाता इति तदनु निरुत्तरी न
 भव ज्ञाम्यशियाय

अत्र मनातरसाह—अन्ये आचार्या युते यथा वेनाविदृणिजा तथात्रिधाइ-

अत्रिधाप ता श्वाकथी महृणा आगता सपत्न्या आथी वे गामपञ्चिक्नु निरुत्तर यथो

ष्टा मनातर इह ?—वीजा अस्वाथा रहे छ के मरुक् गणियाने तत्र पुण्यता यामे रोत्त दुपे जग्यामा
 निभन मय्य वात् कण न निधिन गायरा वातर पातानी स्त्रीनी परीजा करी के ते दुयी गत छानी रात्री शके ७
 र नदि ' मन्त्र के तण पातानी स्त्रीन मयु व हु ज्ञान फलता हुतो तेवामा मारी गाम्या थोत्रा कामना पसी गयो ह
 र थ पातानी रपटताथी तणीए न हुकीमन पातानी सहोयले जणामी, तणीए बडी नीजीन जणामी एम उठे रजाए
 गण प गत जणी त्वार व वात फुन्ना राजाए तन बोवावी पृष्ठयु के अरे कणिया ' तारी गाम्या थोत्रा कामना पसी
 गण एम सत्तगणत्र न रात्री गत छ ? त्वार नेणे जणायु क म्याग्नित्र ' मने निधान मलेन छ तवी स्त्रीनी परीजा माटे

(टीका) — उच्चार इति धारपरामर्श — बुद्धनरुणी इति कस्यचिद्बुद्धना-
 ह्यणस्य तरुणी जाया समजनि अन्यदा चासौ तथात्रिप्रयोजनशक्त्या सह ग्राम ग-
 तु प्रवृत्त — सा चाग्निवतारुण्योन्मत्तमानसा तस्मिन्नुराग स्वनेष्यकुर्माणा — तद्-
 ब्रजगति — तस्माद्भिज्जत्तुरन्यस्मिस्तरुणे धूर्त्तं ब्रजानुराग गता स न चर्त्तार परिमुन्य-
 तेन सह प्रस्थिता इत्यर्थ — इति नाम्यपरिसमाप्तौ नायत्ति ततो न्यायो व्यग्रहार म्वापि-
 ग्रामे तयोर्ब्रह्मण धूर्त्तयोरचृत् आहारे पत्तेय पुञ्जित्ति — तत कारणिके प्रत्येक त्रीण्य-
 पि तान्यतीतद्विजसाहाराज्यग्रहार पृष्टानि सस्कुलित्ति ततो ब्रह्मणेन तद्भार्यया च
 सखुदिका बद्धेण एकएग्रहार कथितस्तदनु सत्रागोसिरण षाण तु इति नि-
 रेचनप्रदाने दृते तेषा छितयस्यैकाकारसज्ञाव्युत्सर्गोपह्वजात् ज्ञान पुनरजायत का-
 रणिकाना यदुतास्येन ब्रह्मणस्येय भार्या, नास्य धूर्त्तस्येति (छ)

टीका — उच्चारना द्वारां गेह हृद् द्रव्यपुनी तुमान र्थे हने हवे एक रेता वामफात पांटे रेनी साधे ते ज्ञान
 ए नीना गमे गाम्यो एग तेही नस्य वनधी छकेन होइ तेना पर स्वामा पण भीतिनहि वारना बीजा तुमान उगावामा
 अरुणग घरी पोनाना चर्त्तारे बोधी तनी साये चानती र्थ बाट बोइ गाममा ते ब्रह्मण अन र्त्ततो न्याय वयो
 ली मारदिकेए दरेकने गया दिवैए अ रायु हतु ते पुण्यु त्यारे ब्रह्मण अने हीए क्वकुनि सारानु सरलु जणव्यु
 यद उसाग आनी मरतु वरातर्त्त वमनी एरन अत्तरगळी सद्दा देखायाधी तेमने खातरी यइ के आ र्थी आ ज्ञान
 णनीन भार्या छे, एग उगावानी ने नथी

पृथङ्कारादीनां तावत्येव गजस्याधीति ज्ञात तेनेति चान तत परिनुष्टमानसेन धरा-
धिराजेन मन्त्रिपदमन्थे त्रितीर्णमिति

घयण णामयेद्वी—राया ह ण एव गधपारिच्छा, णति हसणा पुत्रण—इह
राम धाजुनाहवती ॥ ८८ ॥

(टीका) —घयण इति छारपरामर्श -अणामयेद्वी रायाहति—अपि रा-
जा सर्वांगहस्त्रियोजनेषु स्वकीयचान्द्रस्याग्रत इदं ग्राह, —यदुत मम देवी पट्टरा-
ङ्गी प्रनामया नीरोगकायवतिरा कदाचित् सरोगता सूचक गतकर्मादि कुस्मिन् कर्म
न निरुत्त इति—घयण — न एतत्ति देव नैवायमर्थं सत्तमनि यन्मानुषेषु गता-
दि न सत्तमनोति ततो राज्ञोक्त, —कथं त्वं नेत्सि ?

ग तथा गत् न परम तात्री जोगा एते ह्ययीना वक्तवती खातरी यद् एते के जेदु रमन नं पयगत्रानु षयु ते
इत्त ह्ययोनु रमन उ एम तयु जाणु तेवो राजाप सुधी यद तेने मन्त्रि पद आयु
पयगना ह्यतथा राजाप वयु क राणी नीरोगो वे पयये वयु के एम ह्येय नहि गय आपत्ता परिज्ञा मरी लु
गत् जगता ह्यतु आयु इत्तां वात मही गुप्ते यद रयाने स्या तेथे जोगा उचयया एते अन्वारी राग्थो ८८

नीरा — पयगना छारमा वाक्क राजा पोतानी तरे छात्री वातो जाणनार मररा अगत् आ रीने बोळो
व मारी पयगणी एवी अनापय एते नीरोगायागती छे के कोद वजा सरोगतायुचक वान्तमपे विगरे निद्रित वाप
राणी नयी मन्त्रो गेल्यो—हे देव ! ए वात वनेत्र नहि के माणस थइ यात विगरे रे नहि त्यारे गजाण वयु के ते
नं एम जाणी शने ने ?

कद्वणया ॥ ८९ ॥

(टीका) — गौडगति चारपरामर्श — जउमयनके परेसणमितिजतुमयप्य
 झाडाामयस्य गौडकस्य नके नासिकाया क्रीस्त कस्यचिद्विशो प्रवेशनमभूत् दूर-
 गमणडुस्वमिति दूरगते च गौडके तस्य गाढ ड लमुत्पन्न, तस्मिन् सति तल्पिना
 शर्चा कथिता कदादाय तेनापि — तत्तसद्वागागोहोति तत्तया य शब्दाकया ज्ञोत्रो
 डा कृता शब्दाका ततश्च गाढति कद्वणया इति — सीयद्वति पानीय द्विष्टा शीत
 शनाका गोवके इति कृत्वा आकर्षणं कृत शब्दाकाया तदारूपेण च गौडमोष्या-
 इष्ट तदनु सुखित समजनि दारक (७)

शाखनी गाली नास्मां पेत्तां अने बांधी म्नां डु ख षयायी त्पाखवी सखी खोमी उमी पाथी बग्गी
 र्दनां खोनी झीधी ८९

टीका — शाखनी गौडी खोड रपता बाळकना नास्मां पेसी गड ते झांधी उतरता तेने सखल वीना थवा झा
 रेदी तन थानी पाथी एस्से त पाणीधी चीनापत्ती घडने ते गौडीमां बडगी गड एधी करीने तेने खोनी एखे गौडी
 णा खोपाड आथी तेची ते बाळक मुनी पयो

पद्मगतीति (७)

गुडुग पारिवर्त—जो ज कुणइति सादृग पडम, अणं उ सागविडा पुजा-
म गिाहुसगणया ॥ ए१ ॥

(टीका)—गुडुग इति छारपरामर्शं पारिवर्तं जो ज कुणइति—साचि-
त सदर्पप्रवृत्ति परिनाजिका यमिद्वरूपा “यो किञ्चित् पुंके ज्ञानविज्ञानादि तत्
सर्ममह करोमीत्येव प्रतिज्ञाप्रभाना पट्टरु नगरे दापितयती कुंसेन केनचिद्वि-
कार्यं नगरमध्ये प्रविष्टेन श्रुतोय वृत्तात् चिन्तित च तेन “न सुदुराभरीणाभ्या
—एदृश्व पट्टक , गतश्च राजकुन, दृष्टा च तत्र सा राजसन्नोपनिषा

तया च त लघुमपस कुह्यममत्रोम्य अणित,—कुत्तस्या गित्तामि ? नून

एव थातवाप ३१ श्यामी गया लथी नन रागए रनेनु धन मय्यु तथा मत्रिषद एण मय्यु

भुश्वर क एम क परिनाजिसए गाहर रथु क न न मई के ते हु नरु सुश्वर मुरनि एम आसंग्यु मी
जा रद उ क वागवानी विष्ठा वाउन वृत्तां विष्णुनी मागणी दसोरी ए?

मीरा—कुश्वर दारमा ए यत छे के वा, रु गविष्ट परिनाजिसए नगर्मा एही प्रतिज्ञा साथे एमो वननज्यो
र न वाड न वर कुश्वर रराश त हु करी आपीश हुवे ए चालनी नगर्मा सिगई प्रायेता रद एक चेताने मगर एही,
त्यारे तण विगयु क आने जती मेनवी ए डीक नहि तेथी त एमान लिपी दूरारमा गया र्मा तणे त्वे राजसन्नप्रा
समी बीडी

तणीए ते नानवमा चेताने जोइने वटु,—तु खरपर माए खोसक पाटन नगीवि भोज नावेन डे, माए तन म्यं

ते त्रिणि स्यते त्रिणि त्रिणि परमेश्वरके - गायामानां त्रिणि - त्रिणि
 मय नान - इति ध्रुवसत्तियाग परमेश्वरके त्रिणि त्रिणि त्रिणि त्रिणि
 नि मया गायतामय न मारुतिगुमास्य (७)

माममि मृतरुदरि - अहुराग इति पपराय चारा ररा म -
 गमहास परमगहाण ॥ १०७ ॥

(टीका) - - मार्म इति हागपगमने - - मृतरुदरिनि मृतरुदरिस्त्रीयो त्रि
 त्रिचिदत्रापि निमिजान पयि धवन तत्र चैर पुन्यमनगरमागीतज्ञो गगा
 त्र मनुगमागतदक्षयनामिन अहुराग इति अप्युपयत्र इ स्त्रीस्त्वन्ना गी
 पिति त्रिचिदत्र स्याभिप्रायो मृतरुदराय नेत्रोत्र - - मा त्रिचिदत्र पटगगन्ना त्र

त्रे आ वागदा वीउ परना आय तप शु त्रु इ ' आ म्वात्स्ये तभार इरा रुतः क प म ' तत्र त्रिणि इरा
 त्रिणि प इति गानतः त्रुद्वयस्य परीनि आह त्रिणि प क नदि प गतर गत्ता इरा त्र माग हागा
 ' माग इरा मागमी मृत्य इने कस्त्रीक गाटा आत्क पत्र वगना कुदना गुपार रुगना या
 याचना स्त्री वस्याग श्री मास्वारी कस्त्रीक व माग इया वैपीणि प्यत्रीन इगम मय पत्नी गादी
 उत्तरी वारी ॥७७

टीका - मागहागर्षा प वात डे क मृतेद्व इने कस्त्रीक नापना व उग एक वपत काक गाण मुगास्त्री
 प नाकस्या त्या मया एक माणस तुवात श्री गाये गादी पर वदी वैपनी साम आरतो रोगा कस्त्रीकुं वन व श्री

यदि गुरुही घट्टुमुदु—येटा जाया ताह, राणिनि हुनि मियापडा—मिज
मनाया चाह

उच्यी यत्रि सच्चिस्थितुत्र तीयात्रिरुहण यद्वारे, हस्थाविसण नापण—गर
शीश गरिव्याण णाण ॥ ए३ ॥

(टीका)—च्योति छारपरामर्श उत्तरिसच्चिस्थितुत्रनि—सच्चिद्युत्रा गय्या

एसा यत्रगे तस्य ग्रना र्हेर तुग्था सती सत्यतस्त्री तुय्यरूपमाधाय गड्यासकूडा प्र
स्थितश्चाप्यो नया सह तदनु सत्यनार्थो पश्चादनुस्थिता विनपति यया—प्रिय-
तम विमिति मामसक्तिर्ना मारारे परित्यज्य प्रचञ्चितोमि ? तीयादकूटणुति तेनावि

- १ यण अपान लपत गय तसो र र्हुं ष्यु क त्पार पुत्र ५२१ यथा छ —णम यातीन त्पणोए मुट्टयना याथा पण
- यी यपदा उजाग सात्री अत्र योताना ज्पोतन आ यमाण र १
- गाभी, यय्या, यथा १ यत्र यदा ऊना हुता, तेयानं त्या वेग पदा थयो त्पके जेपने मियाना या द्वाय न
- पना नातमं णण नया थय १
- योडारमं व्यन्तीए गात्री श्री गरगी गदन अतीनादि यथा इनगाक कलां द्वाय न ५६/१५ त्या द्वाय न
- ११ गरगीन क्षेत्र यणारी सावपी लेनी हला व्यन्ती आणी ए३

रीश—ची गदे छार संतार्था. वादक युमान पुण श्री तापे गाधीपर त्की स्नेरमान थया अयाने

अथ पनिरिति छार — पतिदुग्धुनाण परिउ—येमणा ररपियम्म आदयो
 ढट्टगमत्तर चुड्डो—समगगिनाणे अमघयणी ॥ १४ ॥

(टीका) —अत्रचिरगरे वृत्तौपि प्रपद्यताउ रम्याश्रितु मिया छौ पनी मर
 द्वौ द्वातरौ च नौ परम्पर चोके महान् प्रसाद उष्पादितौ यथा अहो मन्त्रश्रौ
 यन्कम्या छौ पती तथापि पट्टदुग्धुनेति पतिच्छेपि तु-या समानश्रियद्धा गरा मी
 ण्य च उन्नातो चने विम्बान्न राजान यारट्गन —तुष्टोपपारगारा च इति मा न
 योर्पत्तने नेति ?—अभाव्यनोक्त—न नेयाय तुज्ञान मन्त्रपि यदुत समानमान
 मिमानुगगा छारापीति—ता प्रोत्रान्य महीपति—रथमेतन्न द्वायेने ?

हर पतिदुग्धुनाण परिउ—येमणा ररपियम्म आदयो
 ढट्टगमत्तर चुड्डो—समगगिनाणे अमघयणी ॥ १४ ॥

टीका—आर्य नगणा राट मयाणा वीधि सोद मीना व पनि धया ने व आर्यगणा जा ह्या ह्ये
 चारमा महारा पायाउ उट्टा व करी पाए अत्रापरीनी वात डे के एर मीना व पनि डे उक्तो न वत्रायां मार्वी नीन
 शय डे आ वात नाकामा ऐनाती धरौ राजा मुधा पट्टोवी (राजाए सत्वाव तथा) कुं तेली मरार व पनि कए
 समवा मका चारग करवा ह । क नदिह ? मरिए वपु—ए वात नदिह वनी शक क ने व पनि तरक पतयती मार्वी नी
 न मार्वी हाय त्यारे राजा वाया क त नी रीने माहाय वने?

गतयोरैव तयो—समगशिवाने इति समसमेकमात्ममेव गान्धर्व सरोवर निने-
द्वि तौ तनीयो द्वात्रवि पत्नी आमगतौ गजानीभूतो द्रव्यमात्ममेव तस्या ज्ञापित
मित्तिज्ञाय—तस्मिन् ज्ञापिते तथा प्रोक्त योपरस्या द्विशि गतो मद्भक्तचित्तौ—
अमश्रयणीत्ति—असहननी अदृढशरीरसस्थानम्—इति तत्प्रतिजागरणाय गञ्जा-
मि नायत्त गता च तत्र—ज्ञात च सुनिश्चितसमाख्यादिविग्यधुनायमेव प्रियो
विगपत इति

पुत्रं सवन्निमाया—किञ्चन पङ्कसराण मज्जक एसर्यो, विस्वियाजाने ज्ञागा—दो
पुत्ता उट णा माया ॥ ९७ ॥

(टीका)—उह आसि सत्यमि पुरे—निमती सेहिसत्यगदाहाण, पुत्ता पवि-
नरिना—चत्तारि इत्याममात्रिक ॥ १ ॥ अन्नोन्नददृढव्यणया—पत्ता तस्मिन्पुत्र ज-
र र मता व पति गाप गया इना ने माग एत्या ए ण्य एकी गन्त क्लीनि जणापु त्प जणापत्तं तेषी नेत्रीने मा
मा त नगा र्थे ए एव गता छ त नरता कथाना छ मा एहेना तेनी मागयान्त तत्र जट्ट एम रद्वी त ष
ग आ दयत्तं भक्ति उगाग त्पानी लय जणी इतीरु र एव क्लीन रिदंय मिय ३

पुत्रार्थ माररी मा नाना जागन्ता यत्त मत्तं आ अन् एगा यो मागे र ण्य रद्वी क्वी नीजा उपाय न
हासयत्त परना व ताग वरका म्पन्त्य एभ्ये मरी मा बोव्ही के ना १७७

टीका—एतं तद्वत्पर्यायं गता, वधि, शब्द अने मागदाहना पविम मनाया अन् रज्जना जाण तार पु
या इत्त १ गज्जा पर बोव्ही तार दाहात रद्वी यंजन राण्य तेवैप इगन्तर यद्वय रद्वेण दिव्यरीर म्पत्ता इत्ता

तांहे सत्प्रबुद्धयोः—साद्वैज काउ साद्वैजो ॥ १० ॥ पत्ते ज्ञोयणमाले—तणित्तो
 वणित्तण पादुणो होदि, पणित्तणिय तेण वद—गगागी होमि ज मअ—॥ ११ ॥
 अणे तिणिय यसा—सति त्ति, तो जणाइ यणिययो, आमरेज्जतु बहु—तेमि
 ते निद्विसेसा मे ॥ १२ ॥ विण तेसि ज्ञोयण—मद्वगउरयार सापर फाउ, वग
 च पचरुग—मेसि किन ज्ञोयणयमि ॥ १३ ॥ वीयदिणे सेठ्ठिसुओ—ज्ञोयणदा
 णे पइण मह काउ, निज्जाओ सोग्गियजणेषु सिरयणसाहित्यो ॥ १४ ॥ पत्तो ग
 णियानागमज्जकंछियपरदेयकुत्तमेग, उअत्रिओ तत्थ तथा—पेअणगयणो मह आ-
 सि ॥ १५ ॥ गगाए गणियाण धूपा नमजोव्यणुज्जना पुरिस, कपि न दउइरमित्त—निय-
 सुत्तगतण मउम्मत्ता ॥ १६ ॥ सा त इदुअ अमित्तमाणसा पेअित्त समादत्ता, स-

बाहना पुन तेन मदद करत वाग्यो १० ज्ञोअन वेअ यथा वाणियाएक्यु केमारो मादुणो या तेणे क्यु व द्रु एरत्तो न-
 प मादुणा याठ? केमके माग नीजा तण मिय मादुर छे त्योरे वाणियाए क्यु के ऊट तेमने योनापी नाप, तेमरे तंआ
 एण मार तास जेअन छे ११—१२ तण चोरे आदरसी तेमने ज्ञोअन आयु अज तेमां तने णं कपिया गग ययु
 १२ वीजा दिवसे शेतनो पुन के न सत्तागिक जनेत्त सुगयणि समान रूपवान इतो त ज्ञोअन ज्ञाची आपसानी न-
 निद्वि चइ नीचत्री पइयो १४ ते गणियाना पामासां रहेसा एक देवत पासे आबी तंओ ए वक्कने त्यां त्तारा जा-
 नामां आदवा इतो १५ हवे एक गणियानी पुत्री नयंएतत्थी छेत्त होइ पंत्तानी सुत्तलाना पत्थी होइ पुण्य सांये
 स्या इत्तती न इती १६ ते तेने जोइ खंयइने कटाक करी अति खंयइवी गणय नती वारवार जोवा नापी १७ ए

100

101

102

103

३० ॥ ३३ ॥ उप धण च दाऊण—जासिय तो अमचेण ॥ २४ ॥ अ-
 धो मम अउन्तो—कह डिजिस्सइ सुह विमाउत्ति, इय जणिरमि अमचे—जणिय
 महा मउपुत्तण—॥ २५ ॥ जइ तुम्हाण मणुत्ता—विमाय मेय अह गु विदामि,
 अणुमत्तिण नण—जणिया महिज्जाउ ता ठेपि ॥ २६ ॥ अत्य मुण्डरण धण—
 पुत्त च नया नहाएण नादि, उयाणीय वरत्त—धणस्स तागा य वेपि कया ॥
 २७ ॥ पुत्तम नात्तम—वरत्त जा उजागरणाय, आरोविय, न अदह—डिजि-
 ष्ठ मया विमाउत्ति ॥ २८ ॥ ता सुजजणणी निकित्तिमेण नेहेण इधिया जणइ,—
 विज्जउ पुत्ता वित्त विमात्ता होउ सुयसरण ॥ २९ ॥ नायममउत्तुणण—जह मस
 मुत्ता उमाद न उमीग, निठान्किया तउओ सा—पुत्तो य धण च इयराए ॥ ३० ॥

अन्ना आ अत्त वरत्त नी रीत्त उरुय ण्य मत्ति मत्तज जाग्यो वेत्तायां ते मत्तिमां वत्तु, के जो त्पारी
 २४ हाउ ता २ वरत्त यादा अत्तु मत्ति मत्ता अत्ती एत्त वेगे ते वे मीअते वत्तु व, २५—२६ तमे धन अत्ते
 २७ हा हाया गा वरत्त तप क्यं एत्त तय एक वरत्त मत्ती गा धतना व जाण हां २७ अत्त व हाएए
 न ३ नाण वरत्ता वही नात्ति ए वरत्त वरत्ती, (अत्त वत्तु के अत्त वरत्ती शिवार) वीत्ती रीत्ते आ तत्तए वट्टे ए
 व नत्ता २८ म्याए व मत्तगानी मत्ती मात्ता मत्ता मत्ती वेगाने वत्ती उत्ती क पुत्त अत्ते वेगे आ मत्ती सोएत्तेज
 अत्ता वत्त अत्त वरत्त वा २९ आ वरत्ती मत्तिमां मत्ती वीत्तु क आ पुत्त अत्तो वे अत्त अत्ता नत्ती १
 वी वत्ती वेगो मान मत्तिमां वरी वीत्ती मत्ती मत्ती पुत्त अत्त मत्त मत्ती ३० ल्या वेगीए ते मत्तिमां नो

तुआ ॥ ३७ ॥ गत्यय पत्युयेमय—अमचपुत्तस्त तस्त किञ्च बुद्धी, उप्पत्तियत्ति
 नेया—सेम तु पसगम्पो जणिय ॥ ३७ ॥ इति

अथ गाथाद्वयार्थ—पुन इति छारपरामर्श—दृढ कश्चित् प्रबुरध्वव्यसहायो
 यणिर् जायांयुगलममन्वितो राष्ट्रतरमनागमत् तत्र चैकस्यास्तत्पल्या पुत्र समज-
 नि गत्र च—मत्रनिमायाकिजगति—तस्य किञ्चकस्य राज्ञस्य तयोर्मध्यादेका माता
 मन्त्रिणी अन्या च मपली सपद्मा पद्मरणात्ति देवड्योगाच्च द्वाधोप तस्मिन् पुत्रके य
 न शेषता ययो स यणिरू किञ्चश्च न जानाति का मम जननी तदन्या ना तदनु
 निरिक्तमायागहाया प्राह सपली,—ममेपर्ये पत्यु सनधी आज्ञाव्य यतो मया जा-
 ताय पुत्र इति जातश्च तयोर्द्वयोरपि व्यवहार, प्रभूत काञ्च यावत्—न च डिद्य

रामाया श्रुतीना पुत्र स्त्री निराह चत्वाद्या, पत्रिभुमार अस्त्री निराह चत्वाद्यो अत्र राजभुमार पुण्योपी नि
 राह चत्वाया ३७ आ तगाए मन्वुत् ए उ क ते पत्रिभुमारनी ते बुद्धि ते आचिकी बुद्धि जाणती ते शिवाय
 रावती वल पराणी बह्वी वजाती य

इव गाणाय अङ्गपर्यं बह्वीय लीय—पुत्राणाम् आ वात उ क चरक पुत्रक पंसागर कणिया व स्त्री
 आ गाए स्त्रीणाम् दावस यया आ स्त्री एक गीन पुत्र एयो एपी ते वागस्त्री न ते गीप्रोमा एक सत्तिनी (स्त्री
 मा) अत्र बीती मन्त्री (गाएय मा) एत कार स्मन्तीरे ने राचक नानो छत्रान ते कणियो मण्य पम्पो इवे ते ;
 मानो राचक मा ईव जाणता नदि क वरण मारी म्पी मा ए अत्र कोण बीती डे एपी पंती नारे क्स्त्री सोस्य मा

(टीका) — मधुसित्य इति द्वारपरामर्श — कृन्नामियति केनापि राज्ञा सर्वस्मिन्निजदेशे मदनम् पातित पडुत संज्ञापि द्वोकेन ममेतागत मदनमानी य नतयमिति दत्तश्च न्नापि ग्रामे कस्यचित् कोशिकस्य उद्व्यामिका कुचटा ररि-
 ते नाया रयजानी दिष्टि अन्पदा च तथा केनचिदुपपतिना सदृ रत निधुनमा-
 सेनमानया जात्या पीशुकृङ्गया मध्ये ग्रामर दृष्ट तत - त्रिण्णपडम्दृणा इति रा-
 जदेपमदन क्रीणत सत पर्यु कथत दृत तथा घया मा कीणीहि रमेतत यतो
 मया तत्र रयाने ग्रामरमाक्षो कितमास्ते स्वयमेत, अतस्तेदेव शहाण, विमनेन नि —
 प्रयोजनेन इविणव्ययेन दृतेन प्रयोजनमिति गमणे वसण्णि तदनु तेन सन्नार्येण

सा माव्यो अने रीतीने न्निज्ञानं बहुव्री

हवे पशुमियन्तु द्वार वहे छे — मनुसिय ते एम के मीणनो वर पाव्यो हवे मोदनी उद्व्यामिरा एवने
 वृत्त्या र्ही इग तणीए वौद गये गण वरता केन्नी एर आराम मयपुनो जोया वद तेना पतिए मीण गरीन्ग
 मरिन्ता तेषु न वान वही तेषे ते साये वद गोरुं तो नहि दीडु, त्यारे ते र्ही समी वेग जेप पदी हती ते-
 म पदीन वगवता तागी ए पर्यी पतिए जाण्यु के ते न्पुत्रीनि छ एद

रीरा — वौदर गजाए पोवता एतया मुनवर्मा मीणना वर पाव्यो क सौए अग्यु मीण ज्ञानी आपरु हवे
 वद गाप्या राद वेरीनी वेज्ञ र्ही हती, तेषीए एर वेळा वेद गार साधे एतां वेग्नी जारता कुन्ना मयपुनो जोयो वाद

गृहे षचिद्वगरे केनचिद्वक्रमकेण देशानर यियासुना, नामति—न्यामो निद्रो
 निजप्रव्यस्य वृत प्रत्यागतश्च उदासो याचते त तदा पुरोधमा अत्रनायति—
 अप्रतापोपहृवो न विचित् तया मम समर्पितेन यज्ञाणो विहित ततमन्य म-
 कीय इव्यमलजमानस्य ग्रहो ग्रहियत् सनात मतिचि अन्यदा राजमांगे ननम-
 नी तेन दृष्ट , चणितश्च पुरोहितत्राल्या यथा देहि मे पुरोहित दीनारमहन यन्मया
 प्राग् नम समर्पितमासीदिति

चित्तित च मत्रिणा—नून अय उराक पुरोहितेन अनाय इति सत्राव्य मु-
 पित रुपा चास्य त प्रति मपन्ना निवेदितश्चाय वृत्तातस्तेन पार्थिनाय तत र-
 ण परिपुञ्जा इति राज्ञा पृष्ट पुरोहित तदप्रतोष्यपहृनुतमतेने प्रमरुश्च सं सं सप्रत्य-

मागता वाग्यो एव पुराहिते, अवाचा कर्णो के ते वर मने अप्युज नथी आ रीत ने श्रीग्वरीनि पोलावु धन नहि
 मग्ना ने येनो म्नी ग्यो एक रय तेणे स्ते जना मत्रिने जोऽपुरोहित मानीने तने रयु के हे पुरोहित, मे ने तने हजार
 गोनान्द्वार पूर्व सोरी डे ने अप्य

मत्रिए शार्तु क खेग्वर आ रांने पुरोहिते अनाय जाणी मुसाव्या वागे छ आयी केने तेना पर दया आयी,
 एव ने हकीसन तेणे राजने जणानी त्यारे राजए पुरोहितने पृष्ठु पण तेना आगळे पण तेणे ते वात ऊरुवावी
 वा राजए श्रीग्वरीने खानीमा खातरी साथे दिवस, मुहूर्त्त कथा राखती बलना साङ्गि कोरे पृष्ठना तेणे ते कथी ह
 कीसन बडी हवे राजए एक वेळा पुरोहित साथे तुगार खेवना तेने खर न पने तेम तेना नामत्राली कीटी बरु मी-

(६११) — अस्मीत्येति — अकं इति धारपरामर्श एवमेव प्राच्यज्ञातवत्
 तेनापि स्व्यच्छिष्टेभ्यमिति मरकटीनारसहस्रमृतो नकुचको निद्रिप्त , मुद्रा च स्मकी-
 या दत्ता पत्रद्वयमिति तेनापि कूटकरुपरुणैः परिचर्त्तने कृते-तह सीमणा इति—
 तथैव मीमन् इत नमुनस्य आगतेन स्वामिना याचितोसौ नकुचको ब्रह्मश्च याव
 त्रिज्ञानयति तावत् सूट्म सप्तं दीनारा इति कारणप्रत्यक्षं च व्यवहार प्रवृत्त
 तैश्च बन्धदीनारमृत्यैस्त्वथैव सत्यदीनाराणां स नकुचो भृत नुदितश्च तदनु निस
 यणमिति मत्यदीनाराणां अयाधिसूत्रेण पुष्टरूपत्वात् तत्र अमानलक्षणं सपन्नं त
 नो नपिनोमो मरकटीनारान् दम्बिन्ध्वेति

श्रीगच्छे तं च स्वयं यथाप तुगागीश्रोनी मताह वर हरीश्री नीश्रीन अक आपी श्रयारी एते पती केनी
 पयत्त ए यत्तं गण श्रीश्री मासज्ञाती एण

श्रीश्री— अकच्छामां दुंसा श्रानं मासक वाक शोकला परं हुजार मोनाम्हणी चरेतु नोषु थायु, अ
 न न पर याम्नी मीस नयं द्वे वेताप र्त्तं इत्या म्नीया चरी ने पनयती जप इतु नेप सीरीराग्यु तेना माचके श्रयारी
 न मास्यं एत न नग प्राम्यं इव न मासक जया तुवे के चरी म्नीये इहंर म्णाद एव्ये नेणे स्वकार्त्तं नद परीया
 न चरी नो याप श्रयत्या अयिक्कारिष्मणे इहंर कन्ती इनी केनी म्गाया वृडी शद ने नोतामं गाती म्हेरो चरी
 न वृडी म्पु, वपर गाती श्रयाम्प अयिक्क म्च द्वागणी ने म्पदी हेर्त्तं माद शकी नदि आन विमश्ट आरागयी
 नेनी रागयो म्पदी इहंर गद्दाश्री वेमान क्त्तारी अन् इन्दिन र्त्तं

(टीका) — नाणेत्रचियत्ति ज्ञानके दति छारोपेज्जेय — एवमेव प्रागुक्तानि द्वा
 विल क्वेनचित्त्तु मस्यचिद्विज्ञेयक समर्पित तेन च पट्टदृष्टि — नकुलरुम यगताना
 पणाना परिचर्त्ते दृत्त प्रत्यागतेन तेन याचितोसो ब्रह्मश्च नमुत्तक यामडुत्ता
 द्यति तावन्नयाद्विज्ञेयपणान् पश्यति विवदमानो च तो कारणिमानुपस्थितो
 चन्मृत्तैश्च ते सपन्नोत्पत्तिकीनुच्चिन्ति — नासमाज्ञेण नत्र विगणति न्यासमात्थेन
 निद्वेषमत्रस्वरूपेण नत्र केवल पणाना ज्ञान दृत्त ययान्ये दमे पणा अत्पच्चयत्तात्,
 निद्वेषमात्थे च द्द्वरसाम्येपि अन्ये आमन् नहुच्चयत्तात् तस्मात्प्राच्यपणायवाप-
 कारी एव दति निगृहीत

ज्ञानरक्षायां एव रीति पदगमण कर्ता थापण एवमात्ता माग्धी एतन्मात्ता यद् रीजा न्हे उे क गताए
 मगवच्च नेवन्ती मनिपा गेगयी एत सपे गेदरात्तु मरत्तनी एए

रीका — ज्ञानरक्षायां पूर्वना एतन् मयाणंन मोदप कोदने त्या थापण भेत्ती तणे नोगर्षा रहन मितो
 यन्वी ताया थापण भेवन्तार पाञ्ज आत्ती नोत्तु मात्तु के तेणे आत्तु तेणे जयान्तु के अत्र नो सिसो जोषो
 तयी व सदन सदन याव एतन्ना पाते गया तेओए द्दकीमन पूषी अल्लसिक्कीनुच्चिन्ति मया कर्षया थापण भेत्ती ने
 एव की निगन्ती मात्ता री के सिसो चीजे उे अने तेर्षा क्पनी पात्त छे अने सखी उत्त उत्तां पण थापण रा-

(टीका) — शिस्तुमिति एव चियति चिदाविति द्वारपरामर्श — गन्मेव मा
 म्यज्ञानतन्वेनापि चिद्वृणा कस्यचित्पुरुषस्य सप्रधिनो न्यासस्यापद्म दृत्त दत्य-
 र्थं तन्मन्त्रं यचित्पुरुषेण तुयग दति बुजगाना यत्तस्मिणा निवेदित यथाय र-
 कपटो मदीय निक्षेपक्रमपत्रव्य स्थित दति ततस्तेस्तस्योपरि दृषा कुर्याणोराद्य-
 बुद्धिमहाये — तन्वेदनामति तस्य चिद्वोत्पेप दृत्ता रक्तपटभूलेत्यर्थं तस्येव चि-
 द्दो मदीये गमन कृत, जगितधामो यथा —

एव नीर्यरदायं गमित्याम इत्येनमस्मदीय सुवर्णं निक्षेपक गृहाण, प्रत्याग-
 तानामग्माक्रमपेयस्तमिति एव च ते यात्रवर्षयितुमारब्धा न चार्पयति ता-
 पत्री क्री १००

टीका — जिहृडायां पूर्वता र्वात्र मास्य र्देक जिहृते र्देर माणसनी गाय अज्ञेवी त्योरे तु माणसे तु
 गालिमान त्वाणुं च अ गण्डीया माी गाय आचवी वेतो ज त्योरे त्वाण्ण तना पर त्वा क्री अर्पयतिहीपु
 दिधी तग्या एव गृही शका वनीन न जिहृ पांने गय अने तन आ रीन कदा साग्या

अथ नीर्यं र्देवता क्तु, एषी क्रीन अथार्क गातुं तु गाय त्रीक शव अत्र पाज त्रीये त्यार अपन
 आगत एव गृही तस्या आगवानी र्देवती कस्या साव्या एव द्जु त तमण आणुं न द्जु त्वासात्ते उगायसा
 माण्य गीवत प्रमाण न र्देवग्यानर्ष आर्चीन यान्ती गायत्री क्री क द्जु जिहृ, माी पदसा मीयती

री तन्मस्तकोपरि जकं आद्वयति तद्व्याप्तौ च तौ सजातौ अन्यदा च तथात्रिंशत्स
 यप्रत्तौ निमत्राणा जोजननिमित्त यचकयस्यचेरुक्तयो वृत्ता, गोपितो च तौ नेन, न
 समर्पयति च पितु, उत्तर च कुर्वते " कि मवज्ञाया यय कर्म येन पश्यत एव मे त्व
 म्भुक्तौ सान्तौ जानौ ' अथइधानश्च त्पृहमागत —उपयेदितो धेय्यम्याने अग्रन
 एव प्रचारितनप्रतिपिनेन तेन मुक्तौ च सान्तौ कित्तकिञ्जाराय कुर्याणामाग्ने नञ्चि-
 रमि जणिनश्च स तेन—यथा पुण्यैर्निधि परावृत्त तयेतामपि त्पुत्राविति
 ज्ञान च तेन—शत प्रति शठ कुर्या—दिति यचनमनुष्ठितमेतेन—तन्नु दत्तो निधि-
 नाग , प्रतिममर्षिनापितरेणापि पुत्राविति

यत् नान् पातना पर न उपाय विवन्ती माग्नी मूर्ति स्तरी, धना माया पर ते दग्धात्त गागक मयनो, अ-
 १ १ यत्पवन तना माया एव यथापत्ता एव यत्ता तमेने ये यदी रही हरे सोइ तेषो दन्मय आत्मा तेषो यो
 नान यो उपाय विवन्ती य दारपत्ते तदी ज्ञात्यो, अने तेपने सतानी मेष्टया तेपनो वाय मायात ज्ञातना तेषो अयाया
 नदि एव जगत् निया य आरण्य एतन्नाय शु स्त्रीके के जे माते हु जानो ग्यो एतज्ञायां माय स्त्रीया यदिय यत् मया
 यत् १ एत नदि मानना न तना पर आत्यो, एतले तेले अणाउधीत तनी मूर्ति मयंमदी यती हनी तेना स्तरे तेने वे
 मात्तय यत् यन्त्या एव परया एतज्ञे नआ विज्ञ विज्ञ एतज्ञ तेना पाया पर चमी तेजा त्यारे न उग विद्य मयग्यो क
 स्तरी माय स्तरी एत ए एत एतले जगत्पु वे यत् तेपे तेन नियमनो ज्ञाय आरी स्त्रीया एतले तेने तेना उपाय
 न १ माया

मे तन्मन्त्रसारं नैव रात्रि, तन्मन्त्रे च निरामसौ नक्त मुच्यन्ति, ह्यो च नान
 यत्रानो निमन्त्राणो नक्तं प्राह्यन्ति नद्वयानो च तो मजानो अन्यथा च तथात्रिथोस्त-
 पसायन्ति च विष्णु, उच्यते च कुर्वते " कि मद्वाप्या यय कुर्म धेन पश्यत एव मे त्व
 एव प्रगाशितवन्निविशत नैन सुतो च गानरो किञ्चित्कारान कुर्वाणान्कडो तद्धि-
 शति तणितश्च स तन—यथा पुण्येतिरि परावृत्त तथेतावपि त्वपुत्राविति
 हान ए तन—शत प्रति शत कुर्या—दिति यन्ममनुद्धितमेतन्न—तदनु इतो निधि
 एत प्रयोगमदित्यादिगणानि पुत्राविति

१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

यथा नूनमय मा मारयितुमञ्जियात्तीति तदनु च गोमयपिक नर्दण विदति ति
 गामयपिकु मयापि निचोर्थ सचास्तिस्वेन, शोपिनाश्च ते पिना , ऋणितश्च म्
 तन्नाय य गार् नद्या गोमयपिकुमान् मध्यसगोपितायान् प्रदोम्भ्यामि—भवन्निश्च
 न नरता प्राद्या दनि ततोसावस्माक कुने स्थितिर्नीतिरीतिरेपा व्युक्त्या तिथि-
 पु पयदिरमपु च नेर्यरके मम तान् नद्या निङ्गिपति, निर्वाहितगानेनोपायेन सयो
 यथ तथा अरम्भमणति—नन एव दूनेपक्रमण तत स्थानाद्भव्यापसेरण तेन
 गमन मनमिति (७)

अन्य यानडुमाया—यद्वारे देविपुत्तसव्योति, श्रणे उ धाउयादयजोगो सि

दृश १ यथी नीरती शक त्प न इतु एत तणे ए दहीस्त पोताना मशश्राने जणारी के मननरफी ए
 मारसा एत ए यान् नण शानु त्पाम थन गार्गर्ण प्राक्षी न युर्यो, अने सगप्यन जणाल्यु क हु ननीमां अन्तर तु
 गारस तनाराग नाला रान रीश ने त्वारे नाना त्प तैसां यद ते आ अमारा हुन्नी म्यिति उ एम जणारी निधि
 अत परना न्त्रिमणो ने एवाश्रा मये ननीए नइ ने एणांअन नदीणां नागरो आ रीन तणे यानतु त्पाम थन यो-
 र सारां अय्युं यान् न डेवणणीं ज्ञाण अयानां रान थयो

अथ एउ एम क थाउरुनी के मालाओना इतासर्वा रागीने पुत्र आनार इता ने जणायो धीजा त्प
 १ थानु एनाग एउनां शताए रनी अतिद्विधी मासम वदुं ३

समर्पितं स्वजनन्या एव पुत्रोर्ध्वेति — अन्ये त्वाचार्य एव हुते तथा धाड्याद्व्य-
 जोगो सिद्धीद नियमाणमिति वैचित् धातुमादिके स्वचित् पर्यतनियुजे सर्व सुवर्ण-
 मिष्ठिमयोगो विहित — न च सुवर्णसिद्धि सपद्यते — त्रिपञ्चाशसते ते यावत् —
 तावदातरे प्रागेव शैलामत्र निवेशितमृकसद्विशेषज्ञात्रो ज्वलत ज्वलनमन्वो
 स्य त्रैलुसेन गन्ता तत्रैसासी गत — पृष्टाय ते त्रिमिदमारब्ध ज्ञानम् ? कथित च
 मप्रपय ते ज्ञात चोत्पत्तिमीवृत्त्युक्तेन राज्ञा “ सत्ससाध्योय व्यमहार — न च त-
 न्तनु ममस्मीति, तन् मयीय निरञ्जित्वा द्विपाम्यत्र ज्वलने — तत्रैव कर्तुमार-
 थो यावन्नामदाष्टमिस्मन्निनो दक्षिणवृजस्तदधिष्ठाधिक्या देवतया राजपौरुषा
 द्विमन्त्रिनया चान सुवर्णमिति

वीजा आचार्यो एव कथं न च वच्यार यावत् समनागम्यार वा पर्यन्तां सानु पर्यवन्ती सत्यं सत्यं त्री
 एव सानु देवत शर्म नदि, तयो न आ नीत्नीर एव स्या इया एवार्ण ल्यां आगन्तवीज रहस्वी सगरी ज्ञानपीथी
 गता एव स्या नदी वरुणी ज्ञानेन वीजपी एवलो ज्ञाना क्रान्तो नरा गन्तु क आ शु स्या मांस्यु ले ? तेमणे नि
 स्पाथो वै वरुण्यार आचरिणीशुद्धिवाग गन्तु त्वाणुं क द्वा कस्य द्विस्मन्तरी मिद भाग तेनुं ते अन्न तेमोर्णा
 न च नदि एव वरुण्यार आचरिणीशुद्धिवाग गन्तु त्वाणुं क द्वा कस्य द्विस्मन्तरी मिद भाग तेनुं ते अन्न तेमोर्णा
 नदी एव आचरिणीशुद्धिवाग गन्तु त्वाणुं क द्वा कस्य द्विस्मन्तरी मिद भाग तेनुं ते अन्न तेमोर्णा

श्राणा वैद्यकधर्माध्यामगोचराणां आत्रेयक्रापिनृहृम्यतिपात्राज्ञानाममक-
 जानीत इक्षीताना विशेषेण परिज्ञानमयोध ओत्पत्तिकीमुख्या कृत्त किञ्च सञ्चित
 ममर्षितधृदो नगरे वस्यच्चिञ्चाङ्ग सञ्चितसमये वैद्यकाविशास्त्रहस्ताश्रजार प्रया
 लोपो सिद्धस्ता वचणुश्च यथैतत्तन्वात्रामोधातुरुषा प्रतिपत्तिमग्माक कर्तुमर्हति
 सिद्धिसयानोपरिचायित च तेन यथा न ज्ञायते क कीदृश शास्त्रमनुच्यत इति त-
 तामत्र च प्रतिज्ञोपन्यासपूर्वक परस्पर नाद फारयितुमारब्धा ज्ञात च तत्र प्रज्ञाप्र-
 याप्तमयो दृत्ता च तदनुकृपा प्रतिपत्तिरिति अत्र च सत्येति निवेदास्य प्रादुत्तयोनी
 मशेन शास्त्रशास्त्रयोरविरोधादित्य व्याख्यानछय न दुष्टमिति (५)

६२५ मह रत्ना—पदरिण तस्मिन्तसाहुमहारे, मतिपरिच्छा दोन्नाग—तयणु

अथ—अर्थ—अने काम सरथी गारे शास्त्रोक्तो प्रतिज्ञापूर्वक पत्रनाद करानीनि आत्पत्तिकीमुद्धिची प्रिज्ञा
 परिज्ञान मरव्यु वेद पाटविपुत्र वेद्य नगरसां वेदक राजाने त्यां वेदक राजने येद्यसात्ति गात्र दुष्यसां तन्ने गार सति
 आ आरारे वदरा नाग्या क आ गात्रता द्रपारा ज्ञान ममाणे अमारो प्रतिपत्ति तमारे कररी जाइए राजाए विगात्रे
 क रणेण वदु गात्र जाण उ त वेद आपणे जाणता नथी, तेथी तपनी परीक्षा सां तेपने पतिज्ञा मरायी अरारसस
 सां रगाग्या अन तेमा सेनी मुद्धि यन्ती गन्ती डे ते नाग्री हद ते ममाणे तेपनी प्रतिपत्ति करी इहा “ सत्य ”
 पचा नागत्राशा होगाथी तना गात्र अने शास्त्रसम वे व्याख्यान गार विविधे यद गेके डे मारे वे व्याख्यान कर्यो ते गन्ती डे
 इच्छाप मोडे ए छारसा एक विमयाने पतिता काल मारे तेना दुव्या मित साधे तकार थद त्यां मत्रिओए वे

शासन-निष्ठास्मिन् सपत्ने व्यवहारो राजछारि प्रवृत्त अव्यवृत्तातेन च—मतिपरिद्धि
 इति मत्रिणा परीक्षार्थं प्रज्ञा दृता “ कीदृश त्व जागमिदसि ? स प्राह महान्त त-
 ना इन्द्राय ह्यौ जागो दृतो अद्वयो महाश्च तदन्वत्स्य जागस्य गाढण्यस्यत्य जा-
 ग प्राहित द्युर्गं - किरानया प्रागेदेदमुकमास्ते यस्ते रोचते स जागो मे दातव्य —
 राजन च । महानिययेमास्या दातुमुचित इति—यत्पित्रनिर्वाहत्वाद्भिष्टाना यत
 पश्यन्—अनमायतेणपि सज्जणेण जे अस्वरा समुहानिया, ते पर्यस्टकृष्ठीरियन्
 नदृ अत्रता इति

मयमादम्नी धुत्तो—अपुत्रयोरस्मि लोगरुचणया, तुञ्ज पिया मज्जेय—
 नत्तापुनगा उत्तणनि ॥ ६ ॥

जादी दृकीरन ताणान सतिर एरीया पाव तन प्रत्यु के तारे वेत्ता जाग जोस्य डीय ? ते गोस्यो के सोग लारं ते
 ता श्यता इ ताग रगता पर नाना अन बीता पागे बाद ते तुजाने नानो जाग एकजाब्यो ते एस रूहीनि के आ ग
 ए सभ्यधीत बटय छ क ते तन म्च ते जाग पन आरयो हुव तने गो पागे जाग म्चे उ माद तेन एणीनि देसो जो
 य तमर माग मागता न बचस इ पात्र उ देमा क्यु उ के—
 मान पुण आगप पण न आगग सुंय बात छ ते एपर पर गंग्याची गोदी रूहान्या होय तप के
 एता कानता इ उ

सभ्यनि उग बाणगा के आरं तावे अन लायता मूरुणट्टे रुकोट्टे आरीरा एस रूही सोगाने उगो बाद
 बीग एग इतु इ माग बाण मादी सोपेची आरुं सीनु उ एव रूही तं उेपरने आरयो इ

निमित्तात्ति, युद्धिनिष्ठात्तानि निमित्ते—त्रेणइयाद् निमित्ते—सिद्धसुया हृत्थिपय-
(टीका)—वैनयिम्या बुधो निमित्ते इति चारपरामर्श सिद्धसुयत्ति कस्य-
चित् सिद्धसुयस्य पाश्वे हो सुतो-पुत्ता य सीसा य सम निरत्ता-इति यचनात् शि-
ष्यात्रित्यर्थं निमित्तमात्र शिद्धितो, अन्यदा च तृणकाष्ठार्थमटव्याप्रविष्टो दृष्टानि च
तान्या तत्र—हृत्थिपय रिसेसोत्ति—हृत्थिपदान्याद्विष्टथेकेन विशेषे, यथा—हृत्थि-
न्या एतेतानि कय ज्ञायते इति चेत् ? कायिकोत्सर्गविशेषात् सा च काणा—एकपा-
श्वेन तृणाना मादनादिति तथा युद्धिनिष्ठाहृत्थिपुत्तानि तत्र च कायिकोत्सर्गविशेषा
दाय ता न गमय आप, अत्र नहि भान्त्री हाय ता नायनु स्वाहं आप आ रीने ते सिद्धसुयस्य रीता यून तेनी यु
द्विन इगरी छाना री —आयिपिक्तीबुद्धिना उग्रहरणो पूरा यया

हृत्थिपिक्तीना उग्रहरणा र्णरीए छीए —वैनयिक्तीना निमित्तानी ए यत्ते के सिद्धना चेत्सामाना एके
न पूर ज्ञान री एर वागिन तेना पुत्र आय्यानी तेने स्वर आयी कोरे उ
टीका—वैनयिक्ती बुद्धि एके निमित्तमात्मा ए वाग ए के स्वर सिद्धसुयना पाणे ये गुण एकेने चेत्ता हता के-

अथ नैयमीक्षातानि निमित्ते—त्रेणइयाद् निमित्ते—सिद्धसुया हृत्थिपय-
(टीका)—वैनयिम्या बुधो निमित्ते इति चारपरामर्श सिद्धसुयत्ति कस्य-
चित् सिद्धसुयस्य पाश्वे हो सुतो-पुत्ता य सीसा य सम निरत्ता-इति यचनात् शि-
ष्यात्रित्यर्थं निमित्तमात्र शिद्धितो, अन्यदा च तृणकाष्ठार्थमटव्याप्रविष्टो दृष्टानि च
तान्या तत्र—हृत्थिपय रिसेसोत्ति—हृत्थिपदान्याद्विष्टथेकेन विशेषे, यथा—हृत्थि-
न्या एतेतानि कय ज्ञायते इति चेत् ? कायिकोत्सर्गविशेषात् सा च काणा—एकपा-
श्वेन तृणाना मादनादिति तथा युद्धिनिष्ठाहृत्थिपुत्तानि तत्र च कायिकोत्सर्गविशेषा

दाय ता न गमय आप, अत्र नहि भान्त्री हाय ता नायनु स्वाहं आप आ रीने ते सिद्धसुयस्य रीता यून तेनी यु
द्विन इगरी छाना री —आयिपिक्तीबुद्धिना उग्रहरणो पूरा यया
अथ नैयमीक्षातानि निमित्ते—त्रेणइयाद् निमित्ते—सिद्धसुया हृत्थिपय-
(टीका)—वैनयिम्या बुधो निमित्ते इति चारपरामर्श सिद्धसुयत्ति कस्य-
चित् सिद्धसुयस्य पाश्वे हो सुतो-पुत्ता य सीसा य सम निरत्ता-इति यचनात् शि-
ष्यात्रित्यर्थं निमित्तमात्र शिद्धितो, अन्यदा च तृणकाष्ठार्थमटव्याप्रविष्टो दृष्टानि च
तान्या तत्र—हृत्थिपय रिसेसोत्ति—हृत्थिपदान्याद्विष्टथेकेन विशेषे, यथा—हृत्थि-
न्या एतेतानि कय ज्ञायते इति चेत् ? कायिकोत्सर्गविशेषात् सा च काणा—एकपा-
श्वेन तृणाना मादनादिति तथा युद्धिनिष्ठाहृत्थिपुत्तानि तत्र च कायिकोत्सर्गविशेषा

दाय ता न गमय आप, अत्र नहि भान्त्री हाय ता नायनु स्वाहं आप आ रीने ते सिद्धसुयस्य रीता यून तेनी यु
द्विन इगरी छाना री —आयिपिक्तीबुद्धिना उग्रहरणो पूरा यया
अथ नैयमीक्षातानि निमित्ते—त्रेणइयाद् निमित्ते—सिद्धसुया हृत्थिपय-
(टीका)—वैनयिम्या बुधो निमित्ते इति चारपरामर्श सिद्धसुयत्ति कस्य-
चित् सिद्धसुयस्य पाश्वे हो सुतो-पुत्ता य सीसा य सम निरत्ता-इति यचनात् शि-
ष्यात्रित्यर्थं निमित्तमात्र शिद्धितो, अन्यदा च तृणकाष्ठार्थमटव्याप्रविष्टो दृष्टानि च
तान्या तत्र—हृत्थिपय रिसेसोत्ति—हृत्थिपदान्याद्विष्टथेकेन विशेषे, यथा—हृत्थि-
न्या एतेतानि कय ज्ञायते इति चेत् ? कायिकोत्सर्गविशेषात् सा च काणा—एकपा-
श्वेन तृणाना मादनादिति तथा युद्धिनिष्ठाहृत्थिपुत्तानि तत्र च कायिकोत्सर्गविशेषा

चित्तप्रोषितप्रियपुत्रया तदागमनं वृष्टो—“ कदा मे पुत्र स्वष्टहमाप्याम्यतीति ” त-
 न—“ तज्जाणाय य तज्जाय तन्निजे य तद्विज ’—इत्यादिश्लोकानुचार्पय यया—
 मृतस्ते पुत्र , क्यमन्यथाय सथ एन घटजगो जायेत इति
 चिन्तयेन तु प्रतिपादित यथा गड् वृष्टे, साप्रतमेव स्वष्टहमागतस्तिष्ठति तेऽ-
 सो पुत्र गता च सा दृष्टपुत्रा च तुष्टा चेतसि वस्त्रयुगनक रूपमाश्च गृहीत्वा सगोरन

सत्पारिनासो द्वितीय सिद्धसूनुस्तया इतरश्चादेशानिसमादाद्विलङ्गीचूतो गुरुमुपस्थि-
 तौ निगन्ति यथा “ किं न मम इतरतुत्य सन्नक्तिकस्यापि निमित्तशास्त्रसम्मान कथ-
 यथा न न निमित्तियाग्रान आंळनी चांरा वाक्वन्धी परदेश गणा पुत्री खर वृष्टी के स्फोर मागे पुत्र घेर आ
 या ? हर न क्राण प्रचामां ते व्यप्र स्त्री तथा तेना हायमांची त पक्षो चूमि पर पक्षी चांगी गया त्योर तमानो एक
 गानी उत्र्या व ‘ ते धनां त थाय अन तना जेवु धनां तना जेवु थाय ”—एव श्लोक उ, माते ताग पुत्र मती गया ?
 नदि ना आम आ आचिता रना वम चांग ?

बीजाए जणाधु व ह बुद्धी, आ, तारा पुत्र हर्षणांन घरे आवता छ आ सांजळी ते र आत्री क पुत्र
 न प मुनी पर र रफां अने रपिया हाइ त धीना सिद्धपुत्रने सत्तार बरवा हागी पडेवो सिद्धपुत्र पालानो आ
 या तुजे इत्यादी विचरो पक्षी गुरु पास आनी कहना थाग्यो के दु जन्निवाळो धनां मने तमे बीजाला जेवु निमित्त

तुभ्यं नृवादेय ॥ —इति

अत्र च येषां सम्यक् शास्त्र परिणमित तस्य नैविकी बुद्धिरितरस्य तु तदा-
नामेति (७)

एतयत्र अत्यन्तये—नापगगनाद् देवेन्द्रेणया, जस्यपउत्ती निच्यण्यत्रोय अ-
हवा मरात्रमि ॥ ७ ॥

(टीका)—सेणियराग तह कोणिए य पचत्त मुगण सत्ते, कोणियमुत्रो उ-
वार्द—पानत्रिपुत्त पुर मवासि ॥ १ ॥ चरुपयात्रो दिसिमन्लाइ सन्नाइ तत्रिउ मा-
ठा, मउत्तायियरिउरुत्तसत्तो सो चरु किरणो व ॥ २ ॥ परिपूरियज्जहारो—गया-
वना नयी, ण्णी वान पत्तमां माण पत्त पदे ठे तसत्तात्तीकं निर्पाठ मणि होण ठे त ननिमित्त पत्तं ठे पण रा-
पात्ती वण नन पत्तमां गत्तमां नरी ”

एतं अर्थशास्त्रार्थमां रघ्वर मयी उदाहरण छे, गरुती (गचम्भी) गारेना डेवन्न चदने करीने रती यम्भी
उत्थाय र्यां त उदाहरण उ ७
रागा एण उपाहरण छ, वृथानु उपशमन सराथी श्रयया नये शराय त्तात्ता चीत्तागना पुत्र यद्दने शान्त सरयानो
उत्थाय र्यां त उदाहरण उ ७

टीका—श्रणिसराता अन्न वाणिकराजा मण्य पास्या वाद कोणिसना पुत्र उदाहरणार्थ पात्रिपुत्र नगर इ
माती न्यं पात्तानी गजगादी स्थानी. १ ते उग्र मत्तयी यद्दने सरती दिगज्जोने तपात्री सूर्यना माफक दुष्पनम्भी उमु
तान गीसना अन्तराया साग्यो २ तेनो जकार जरएर इतो, तेनी पाणे हायी, घोना कोरे चतुराण सगर मोतु इ.

आणवित्ता विचित्रं चिन्तितं ॥ ९ ॥ वचोचिरं परगता—एतौ भूमी-
 र्दं स्पर्शिनो उदात्तनिर्गमो—विहिद्यो देवतगतासी ॥ १० ॥ एतौ उज्ज्वलीण
 —जाग्रो नेपासरो तददित्तो, तणिय न आणरा नेण चिन्तापात्तनेण—
 ॥ ११ ॥ उज्ज्वलिराडणा—“ तदिय एतत्तो सोइ प्रवृत्तं त्रोट, तं उगुणमिग
 य—अत्रणेजा सिरसमच्छुट ॥ १२ ॥ तो तम्मेमगसो—अणिय पुनेण तस्यसंगेण,
 साहेसि इस कच—जड पिडित्त तुम महसि ॥ १३ ॥ ता नेण अणुसओ—न
 क्करोहम्म सत्तिय वेल्ल, चत्तिओ पाकत्तिपुत्ते—एत्तो य त्तेण तो र्तो—॥ १४
 विहिया त्ताहिरत्ततराइ परिसाड सेयजणस्स, उचिया सेमाविची—नत्तं इत्तो वि
 नियासरो ॥ १५ ॥ मो पुण उदाधिराता—अच्छमिचउदसिदिणेसु सन्नाइ, मोत्तूण रत्त-

आ ए इ एम एतायारी तेओ हुंशो मत्स्य पित्तं ग्हेना हुता ए एताणं सोपक गताए १२ आणराणा एवी
 त्ता देश गानने वरी तने मपरितार उदानित्तानं कसामो आया १० ये सता उज्ज्वलीसां प्रारी त्ताता गत्तवी भेग-
 मा एतो गत्त एक वरत्त हुंशो इण्ण उज्ज्वलयायी सग्गेता उज्ज्वलीना गताए जणत्तु के णा ११—१२ त्ताए ते सेयज गगना अत्ति गारीना पु
 मत्तो नवी के ने आ माया पर वनी मत्ता उदात्तित्ते हू वरे १३—१४ त्ताए ते सेयज गगना अत्ति गारीना पु
 ये जणत्तु के जो त्ते मारी प्पुव पक्के तो ए वाम हु वरी आणु १३ त्ताए ते सेयज गगना अत्ति गारीना पु
 योगस्सती छरी मत्ते पाणत्तिपुत्तनायां आसी अत्तुत्तये गत्तवी महाली अत्ते अत्तदनी वेत्तवमां गार म्ही गाररी
 वररा गग्गे, एण तेने जेत्तवे वाण मत्ती गग्गे नहि १५—१६ हुंशे ते उदात्तित्ता अत्तय अत्ते अत्तदना म्हात्ते स

—अप्ये निरञ्जन माण्ड ॥ २३ ॥ सो निचञ्चिय पयुत्त मप्यणो आयरेण इसे-
 ति, पर महिणयथम्म ज्ञानिकण नारेइ त सूरी ॥ २४ ॥ अन्नमि विणमि मुणी—
 कञ्जेण गिनाणपहुणाईण, अच्चतमाउच्चत पना—पण्णो य सो जाओ ॥ २५ ॥
 बहुदिपसदिम्मिओ धिय—ता सोपि सहायओ गुमहि नओ, पत्ता रायकुलञ्चतरा-
 जमानाइ स्यणिसुहे ॥ २६ ॥ पन्निन्न पोसह मोसहन रोगाउरेण नरयदणा, विहि-
 यो तञ्चानोचियमहरो यदणाईओ ॥ २७ ॥ सुत्तेसु ज्ञाणसञ्झायमादक्खिओ रीण
 देहेसु—सूरिनिसेसु स पानो समुच्छिओ कइड्डिया कत्ती ॥ २८ ॥ सा पुब्बञ्चिय गूढा
 —आमि रजोहरणमाइउमहिंमि, दिन्ना वउपपसे—रओ, नटो य सज्जतो ॥ २९ ॥
 सा रुद्धिरेण विनग्गा—पसेण नीयेण निस्समह, डिओ रणेण कओ—तो तीइ अ-

सायण हुता २३ हवे ते रपनी सायु इमेसां आदरपूर्वकं त्वां आस्तां तैयार होवानु जणारतो, पण आचार्य तेने नतो
 सतो गर्णीने अन्त्याना हुता २४ पाद एक वेडाए मुनिओ मांदा पोणा सायुओना राममा गुथाइ गया हुता एत्ते ते
 रपनी सायु त्वां साये आराम तैयार यत्तां गुरए यणा दिस्तनो दीदित थारी तेने सायमां वीओ अने तेओ सांजना
 मप्ये दएवानी अदरती शाउमां आब्या २५—२६ त्वां रोगातुर जेम औपप झीए तेम राजाए पौपय वीओ अने ते
 पणाने ठानि पदनादि व्यरहार साब्यो २७ हवे सूरि अने राजा ध्यान, सज्जाय रगेरे कृत्य करी पासेवा शरीरे
 मप्य पपसे त पाणिठ ठठ्या अने तेणे एरी रहामी २८ ए उरी पहेक्षांन तेणे रजोहरण यणे उपपरणमा स्ता-
 २९ २५ २६ २७ २८ २९ ते उरी तेणे राजाना गळामां सगानी अने पोते उवाखे नासी गयो २९ ते उरी होहीए जरास्ते गळानी

ता ॥ ३७ ॥ ततोऽस्युद्यो सो—अम्ह पमात्रो इमो त्ति मन्ततो, तुष्टिदो विद्य
 चिद्वट—जा ता सहसा परे तत्य—॥ ३७ ॥ जात्रो जणप्पमात्रो—अह एय मण-
 टिन उमीरण, मणमन्त्रणे मन्तो—अत्रदेण यय पन्तो ति ॥ ३७ ॥ वता ते उो
 वि त्ति,—उओप ग्हापिउममरो नवो—न्हाविषसाण्ड गत्रो—पत्यानाजाय
 सव रट्टि—॥ ४० ॥ उजायस्स नियेवज्जा मण अज सुविणत्रो दिदो, रयणीविराम
 ममण—अह नगमिसि ममेनीह—॥ ४१ ॥ आवेदिय समत्ता—एत्तो सुविणयफज्ज
 परिमन्ति, मो सुविणयमथणू—त नेद धर तत्रो तत्य—॥ ४२ ॥ धोयसिस्सत्त
 पिया ने—दिन्ना प्या परेण विणणण, उग्वत्तो वर री—सहसा सो दिव्विउ इ
 या ॥ ४३ ॥ विविमाट ममाळो—द्विरुद जा सो पुरस्स मज्जमि, तापतेउरसजा

वाय वय मन्त्री शीका ३७ तार न पानवी मन्त्री गरीन गमग न उरता श्लो पत्तासो ये नगसा आ शवी
 अयसा मन्त्री क रसा ति ३७ ॥ ता वरु ३७, सा न नदी अरुज उेर रात्री दीप्ति चको हुो ३८-३७ आ
 रीन गम मण आचार वत्र ३७ मरणा एव अमीप नापितो (नन्तो) मीको न नानिपामो हवा
 मी मन्त्रीपण मयाय (विमण) अमी वरुत्त न त्ते उपात्ता पातो क यात मन्त्रि उम मे सस जेणु छे
 व उो ३७ मयकाण वसि ररुत्त वरु ३७, ४०—४१ अत्र अत्र तत्र ता मनुयी पत्तु व हवए रामु एव
 मव वली वपाण (अयु मन्त्री) न मन्त्रीपण मन्त्रार दोषानी नेगे रे अी गन ४३ तौ ल नगानी
 मन्त्रीपण ३७ ३७ मन्त्रीपण म / ३ मन्त्रीपण मन्त्रीपण मन्त्रीपण मन्त्रीपण मन्त्रीपण ३७

चण्डमण पड्डिन्ने—अरनाह्य चाप्ति तौ ॥ ७७ ॥ तो विभोवसिगवरो ॥ ७७ ॥
 विमगा तुम्ह विगारम्भ—पान्ना पड्डिन्नी—सुडिगा ॥ ७७ ॥
 तपपणा ह्द ररा—हत्तडिपनिमिरा—सुडिगा ॥ ७७ ॥
 आ नहा ॥ ७८ ॥ ना मडिपिररमना—सुडी—सुडामरा मने गमिय म
 गाण—विणीयसिगरना पना ॥ ७७ ॥ तम्ह दुमागमयो—न संदि म्पो त्त
 विहा अण्यि न आरेण मण्ड—नर तगळ मोरि मे हुरो ॥ ७७ ॥ ७७ ॥
 यचिर—नगररहि करिनामो विरो, विरट वनानागमुचिवाड म्नाड कुगमा

अत्र। उडाल गम्ह द्द गाडा आञ्जा गार एव वम्हा द्वा गाम हार उडी त्तग नहि एव गार ॥ ७७ ॥
 ता । न त्पन वय क अर गुन्ना गागाम्भ एरी वणे न गान्नी म्हा गाम हार गार ॥ ७७ ॥
 चार गपम्ह चर्दल न न मनापपना म्पामा ए व हत्तप (मणीन म्पामा) उडीग म्प ७७-७७ ॥
 -गार आ वाडा विन्प नधी वम्हा, ता हु म्पाम ए विन्प त्तग म्प डे क' गार न हत्तप उडीगाम्प ७७-७७ ॥
 त्पण ह्दाम्हा पच्ची ताम्नी नवागना एरी केनाकुरमगार वान यो डार कर्ग म्प वीगम्हा नर ७७ ॥
 वी नामता थ्या ७४ वार वम्हा मग्ग ह्दय मदी त्पिन ए म्पु म्पाम्हा गमान म्पाम्हा विन्प एव विन्प म्पाम्हा
 वागा ७५ ह्दर नन ग्दय त्तो म्प ७५ ॥ पुञ्जपती न ह्दो म्पे त्तो वी म्पे न म्पे म्पाम्हा म्पाम्हा ७७ ॥
 णा त्ना ह्दय व्द वरा म्पाम्हा वम्पो नहि ७६ ॥ अ वान म्पाम्हा म्पाम्हा ह्दो न म्पाम्हा वम्पो न म्पाम्हा म्पाम्हा

६३ ॥ अम्हापिंडि सुपसत्ययासरे विहिय सयणसकार, परित्रइडिउ माढत्तो—
 देहेण मत्तिन् सियपससे ॥ ६४ ॥ कालगण जणगजणे—हिजा वाणाणि तेण च-
 उत्तमसि, माहाणजणजोगाद—पढियाइ विवररहियाद—॥ ६५ ॥

तानि चामूनि
 नान्यादृशनुंश ॥ १ ॥ शिदा कपो व्याकरण—निरुक्त ज्योतिष तथा, उन्वेति
 पम्गानि—शार्दुरेनानि कोविदा, ॥ २ ॥

यथाण विज्जमाणाण—उत्तरि नाम इद्वेद, नय वेदक अदमतोपमुग्गओ—नि
 रत्त मुग्गयपुत्तपि—निज्जण विज्जायुणओ य परल्लमोहग्ग,
 यथाण तन्ना वणा यणे ६५ ॥ ६७ ॥ सो वेगउत्तसयपरिग्गओ पुर ति

न तौद विद्यायात् त्रा रीन उ—
 १/१ यतिन त्रन उत्त ण सायाने पडिवा अण रीरे त्ते ण १—
 १/१ यथाण वाम्या पयसा हाग्गो, एत्ता व अत्ति सलोपया र्हति वेगए आत्ता मरुत्तु तान पण वेतो नहि
 २/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ३/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ४/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ५/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ६/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ७/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ८/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 ९/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न
 १०/१ उत्त ण इद्वेत्ता गेयसा अत्ता गुणनी पय सौत्तय पयसा तोषण मुग्गपयती र्थ्याने पण पयसा इत्ततो न

॥ राज्ञो अतोसहाद—नीरोगसतीरगा क्राणेण, निमुन रत्ना पन्थिमिरोमणी रूप-
 गो गत्य ॥ ७६ ॥ सदायि तौ जणिओ—रत्ना, जह रत्नचित्तगो होदि, त कपप
 अम्मन्निममेसुद्धीऽ उपदन्वियुग्गुब्बी ॥ ७७ ॥ तह सन्नचिय रत्न तुग्ग म्मे जेण ज-
 ष मग्धाण, गासत्तायणमेत्त—मोचु नहु कम्मन्नेण ॥ ७८ ॥ कट्ट त्तिन्निम मेन
 मह पन्थिज्जेत्ता जणेद सो ताहे, एमो न निरयराहो—चित्तेद निरो म्मे होही ॥
 ७९ ॥ जणिओ रत्ना साहीस्तीद्वजो धोयसो परिवत्सद, किं कपपगययाद—न मोग्गि
 अह्वन अन्नोत्ति ? ॥ ८० ॥ अहमेन तेण जणिण—एत्ताहे जइ सामप्पदं उरये
 ता सन्नहादि मा देजा—एस्सेसो पन्थिनिसिद्धो ॥ ८१ ॥ अहद इदमहे पत्ते—न

श्री स्त्रीन नण व रत्न करी ७४—७५ गत् तणे आणो आपी तन रोगरहित री एवामां राजाप गांत्तुं के
 आ नपामां कपक सम्य पन्थिनो निरामणि छे ७६ तेथी राजाप तेने बोवारी रत्तुं क हे कपक, तु तापी अमुपम पु
 द्वियो वृद्धसन्नि इसी कहाने एवो छे, तो तुं मरु राज्य सजाठ अने आ सपट्ट राज्य तारे आनीन छे के जेथी या
 र थाय, गरी अमन वा गगा तथा पहिरारत्तुं मठे एतने बीउ जोस्तुं नयी ७७—७८ तेषो उत्तर राज्यो के ए पाप
 जाला आपने हु कप कस्य कर ? त्यारे राजाप निचायु के अने अपराधमां सपनाया निचाय ए सा यत्तार नवी ७९
 पडी गजाए ने गजुमां ने जोवी रह्यो हतो तेने क्युं के कपपलां कपनां तुं धोरे डे के गीओ कोर धोवे छे ? ८० तेषो
 क्युं वे हुन धोर्ड तु त्यारे राजाप तने हुक्म कर्मा के हवेथी वे जो एव आपे तो ते तारे तेने निष्पुत्र्य देवो नहि
 ८१ हवे इत्थहास्तप आत्तां कपपने तेनी री कहेवा बाणी के हे मियप, तमे मायां कपनां मृत्त रीते एवानी अ-

प्यगा नृणां उदर—कात्रिता ताणि रहिरत्ताणि, विहियाणि तस्स जज्जाइ—क-
 नेणामो चिग्गानो—ताओ नर्याण मत्थिणणे ॥ ए० ॥ किं एत्त निररराहो—इओ तए जेण नारिओ रन्ना,
 माया इमा नउ इमस्स, हा धी कह इत्तयव—मेरिस्स चिट्ठिय सहसा ॥ ए१ ॥ नरयड-
 नदया मच्च—दिग्जत्तपि हु पन्निडिय न माए, त एयफव जाय—जइपुण पन्-
 हत्ता—॥ ए२ ॥ तो नो एत्तविहयसण चायण होतओ, निवसमीत्ते, ता यच्चमित्तियचि-
 य—ता नो गोहा यना नेत्ति ॥ ए३ ॥ इय चित्तिय रायउत्त—गओ तओ सविणय
 निरा च्छिटा, नणिओ मडिस्सह मम—कि कायव्व ? निवो जणइ ॥ ए४ ॥ पुव्व-
 चिय ज न्निणिय—डिओ तओ रज्जचित्तपयमि, तस्यणमेवो वगया—क्यारना रा-

वादा। न वया चात्ता। गर्तो वर्यो न्यार त्ती यी क्यपाने वडेवा ज्ञानी के—एए तें आ त्तिगुहेगाले शापादे
 पाया कसक वन गतागत पक्का बरी हुती वधी वया द्वां आओ वत्त नील्ली गया ए० यार क्यपर विगार
 या साया क मयगर आ गतागत मंग के, एलो एवां वकि नयी पा हाय हाय, म एर विगारे वय आरु वहु
 वय वर्यु' । ए० न गरा वने इत्थापद मय्यु हुनु एवां न पे न सो तु तनु आ फल एतु, एण जो हु मज्जित
 एण हात ना आग मक्कम एगत नहि मेर हव पातत चात्तीन एग पाम ज्ञान, नहिता एत्ती त्तिपास्यो रतीने
 ना सर तन ए०—ए० एव वितीन न दरुक्कम न्द त्तिपयसक गजाने जेत्था अन्न नदेवा माया के फर
 माय मां हुं वर्यु ? एतो गता राया ए० ए द्वां के इहुं उ न गणे ने एत्ती ने राग्गनिवाजा पदे एया

-निययकुरुन तत्रो जणइ ॥ १०३ ॥ पत्तो कुनपचत्रो मे—सत्तो काउ कुरुम्म उ-
 षार निजामण च नेरस्स—सो इम जेमउ न अन्नो ॥ १०४ ॥ जणिय कुरुनो-
 णण—नत्थि सत्ती तुम पमोन्नूण, अन्नस्से यारिसिया—तुज तुमचिय इम नत्त ॥
 १०५ ॥ पच्चमयाय जत्त—सेसेहि पाणियच देवत्त, तन्नत्तजोयोगेण—धारेई कपणो-
 पाण ॥ १०६ ॥ जाया पच्चतनराहिनेसु यत्ता जहा गत्रो निहण, कप्यो सपुत्तदरो-
 वत्तडाहा तत्रो जत्ति,—॥ १०७ ॥ ते रोहति समता—पामव्विपुत्त महत्तसेणाहि,
 जात्रा य निरक्कासो—नदो सहसा निराणदो ॥ १०८ ॥ अन्न सुनाय सो अन्न न
 माणगा चागालिने जणइ, कि कोवि अत्थि कप्पगात्तवधी तत्थ कूयमि ? ॥ १०९ ॥

धन नन उ मा नवाम् नाग्या १०७ त्यां तेने पत्तन आपना सद्रवानी एक सतिता तथा पाणीनी एक सारु
 आपयामा आवतना तथा कप्पक पाताना हुट्ठवन आ रीत वडेवा वाग्या १०६ आयणा हुटना मनय थयाना सत्त
 आत्रा उ मां न कोइ हुत्तना उद्वार करी शत तथा यलो सन्नो गच्छी शक्रे वेणे आ रोदरा सात्रा, वीजाए नहि
 वावा १०४ त्यां हुत्तोआ गम्था के तपारा शिवाय वीजा कोल्ली एवी शक्ति नथी, मां तपेज आ जोजन सात्रो
 १०५ आप रहीं तथा जाजन्तु मल्यापान मरी परणराण थया, अने कप्पक तेना ली पुगे साथे मरी परवाया छे एत्ते तेओए
 वा १०६ पवाम् आतुरातुना रागात्रोमं वात पेचाइ के कप्पक तेना ली पुगे साथे मरी परवाया छे एत्ते तेओए
 हिम्मत धरी तत्तात्त पणचिपुन नार पर मोनं सक्करो वावी चापेष्ठी वेरो यावो, तथी नदरावा ओग्गि
 सपमां नवाथी गक्कासो १०५-१०८ त्यारे तेने वीजो क्या उपाय नहि सुज्जां तेणे कदरागाना उप्पीओ-

॥ ११७ ॥ एतच्च इद्विद्यकृते-हेहा उपरि च त्रिहियजेयमि, सहस्रमन्त्रि भूमिपत्नियमि होट
 त्त जगामु कि जइ ॥११८॥ मामोहजगाम मेय-जासित्ता कल्पगो तत्रो कृत्ति, पाया-
 ङ्गिणी सत्ता-नियत्तत्रो आगत्यो तुरिय ॥११९॥ इयरोवि अइविनस्यो-नियत्तत्रो
 पुत्रिआ सन्नजो य, नय म्निचि अस्मिन्न तरद-तणइ मुत्रो यहु लयइ ॥१२०॥ मु
 णियच तदि एसा-स्वपण यसीरुत्रो न अम्हद्विओ, इर मन्नह अइरुओ-यहु-
 प्पनाओ रओ क्वापा ॥१२१॥ सजायचित्तनेया-दिसोविसि त पत्ताइत्त लया, नणि
 आ स्वपण निरा य-गगत्ति विनगेहि ॥१२२॥ गहिया ह्यथी आसा य-बहुधण मित्रि
 सनिय तमि उत्रिआ निरेण सो तमिनेय रुथो नियपयमि १२३ सन्नरि रत्ताकृत्त-
 पत्ता पत्था याग रपक् पतीए हायता गता ररी एणु समजाल्यु र तम समधीना साजल इत्त अने उप
 रयो गतो रत्ताया हाय अण्ण पत्र रीत्त इहिना यामणमा नीय तथा उपर गाणु पानो पत्तप जमीन ए पान्नी
 २१२ हाय ना इ जेत्ता पाणम, याव क इय परिणम धाय ? १२७-१२८ आ रीत्ति युत्तण जग्गु कट्टान रपक् प
 यो याथी नवत्त रग्गया त-पाय रकीत्ति ज्जात्तके आरा पद्धोयो १२९ हाय पत्ता इत्तपत्ताना माणम (त निगा
 नाआना त्त्त नदि यवतायावो) यत्ता पत्तीन पाओ यथो तते तपयुत्तवा ते शम्मा पत्ती रइ वात्ता पत्तया नदि,
 पाय नण य पत्ता यु क सुक् (रपक्) यहु तपयप रत्तो हुत्ता १३० आ परयी तपण धाउ र अत्त यत्तय नदि,
 ता २, मात्त ए आणु नयात्त यात्त नदिनो रपक् जेया अत्ति हुत्तिगार माणसम ए वपत्तप रत्ता रम जण्णार ? १३१
 आम शक्का पत्ती तत्रा नात्ताणमा पत्था तत्त रपक् पत्र ए राजान रगु के हेये एत्तो एत्त एवम्मा ? १३२ राजाए
 तप करी तेत्ता हाय पोत्ता तथा मात्तवा हाय ररी अने रपक्त्तने तेना अत्त-ना १३२ एत्त मुक्कर रया १३३ यात्

अहं वा सोमन्नामो—चित्तपरसुब्रह्मो इमीदं आहरणं, नहं तन्ममा बुद्धी—स
 जाया बोधो महं मित्तो ॥ १ ॥ सतोगेय नामपुर—समस्तिय मन्त्रस्थमाह्वणवमय, उ-
 त्तरपुरञ्जिमाण—दिसाड अद्गेगरमण्डल— ॥ २ ॥ सुरधिराभ्यायण—त्यदि
 यपटन्धिरस्ममह, अरण्यणोद्गणचक्रममठ ध्ययका मोरमण्डल ॥ ३ ॥ मन्त्रिद्विप-
 न्दिहो—सो जस्यो त्रिहचिचक्रुस्मेहि, पद्मरिस चित्तिजट-कीदं र मन्ममहो त
 स्म ॥ ४ ॥ नर चित्तियमेत्तो—तत्रेय चित्तसारग हण्ड, ज्युण नो चित्तिजट-
 मारिमपार पुरे कुण्ड ॥ ५ ॥ पाण्यण पनाया—चित्तपरा चित्तिय च नरदणा,
 गस अर्चित्तजतो—होही अम्हाण्यि यहाय ॥ ६ ॥ सन्ने कृत्ति निरुठा—पहाय-
 माणा पदतरात्रमि, सप्तधिया एगठा,—तेसि सन्नेसि नामाट— ॥ ७ ॥ त्रिद्वियाड

(व्यक्त मनीनी क्या समस पद)

अथवा सोमन्नामो नामे चित्तारानो पुत्र आ बुद्धिमां उदहरण उ तने बुद्धि शी रीते नाम पद त ह्ये हु बुद्धी
 नाम उ १ सर्व अर्थन साधना समर्थ सत्तेन नाम नगा हतु तनी उपायुर् दिशासां पदमे के ईमानरोगे अत्रि स
 णीय मुस्त्रिय नामना यदनु आप्तन (देह) हतु त्यां न यदुना जे पद हतो तेना आगळ ह्येश स्पृगीय महोत्साय यता ह-
 ता रडीते देह पत्स्यी कर्त्तनी यत्र थोडी यत्राना उदगमाउथी शोनायमान नागर्तु हतु २-३ त्यां दर प त यदुतेना
 परिकर साये चित्तारामा आरतो हतो, अने तेनां उत्सव पचातो ४ पण ते यदु चित्तपद पूरो थयो के तेना चित्तार-
 नत्र मारी नागतो हतो, अने अण नहि चित्तपय तो शहेरसां ते जारे मरकी पैदा करतो ५ त्यारे मत्सनी रीच्यी
 चित्तारा नामना मान्या पन्ने गणए विगर्तु के जो ए यदु चित्तारामां नहि आवशे तो ते अणोने पण मारी

पत्न्य अहं धरुमि वृद्धा इ मुद्दित्रो धरुत्रो, जो जस्त जमि वरिसे—नांमुग्धानो तत्रो-
 तमि ॥ ८ ॥ चित्तो इ जस्य मेय-एव काळो गत्रो बहू जाव, ता अन्नया कयाई को-
 सतीत्रो ररपुरीत्रो—॥ ९ ॥ एगो चित्तयसुत्रो—जणगधरात्रो पलाइत्रो तत्थ, सा-
 गयचित्तगरगेह—मागत्रो सो य थेरिसुत्रो ॥ १० ॥ एसोय निव्विसेसो—विद्यो थे-
 रीइ निययपुत्तात्रो, मित्तीइ जति दिवसा—तेसि नियकम्मनिरयाण ॥ ११ ॥ अहं
 कहवि तमि वरिसे—थेरीपुत्तस्त वारत्रो जात्रो, सा अइनिवायमुही-पुणोपुणो रो-
 विठ इग्गा ॥ १२ ॥ जणिया तेण म रोयसु—अम्मो, सच्च जज्जामि अहं मेत्थ, कि
 मे तुम न पुत्तो—अप्पाणतेसि ज वसणे ॥ १३ ॥ इयजपिरीव थेरी—वयणेहि ते-
 हि तेण सवविया, तेणुज्जियसोगज्जरा—जहं अत्र निराकुट्टा चिठ ॥ १४ ॥ नात्रो

परी ने मयया नासना चित्तारात्रोने जट करीने अर्थे रस्से परुनी पानी एकटा कर्या बाद तेसयळाना नामो पत्रमाजस्वीने
 परु यन्मा नावी तने सीय इग्गाइयु हुये जे वप जेनु नाम नीकळे ते ते वप ए यद्दने चित्त परकला यणो काळ प
 मार यथो, तेयमां एक बेव्या वंशाची नामनी नगरीथी एक चित्तारानो दीकरो मापना थोरथी जागीने ते साचेतपुरना
 चित्ताराने थरे आळ्यो, केपके त्या तेनी मानी मा रहेंनी ७-८-ए-—१० त्या तनी नानीए तेने पोताना पुत्र सरखो ग
 टीने रापथे इये तेत्रो पोतपोताना रामे वळग्या र्ह्यी दिवसो पत्तार कम्पा नाग्या ११ प्यामा जोगजणे ते वें ते मोगी-
 ना दोरगनो वागे आळ्यो एन्ने ते मोगी चित्तवै मुखे मारमार रोवा इग्गी १२ त्यारे ते चित्ताराना दीकराए वधु के
 मानी, तसे र्चो नहि, इ पावे जइश त्यारे ने बोनी के तु शु मारो पुत्र नथी के जेने आग वष्टमां जळु १३ एम मोल-
 ती मोगीने पप नेणे प्वा रचनेथी सपत्ताची के मानाची, तसे इत्त भेज्जीने निर्जात र्ह्यो १४ बाद तेणे उपाय जाण्यो ने

तेष उवाचो-विष्णवण जहा सुरा पत्नीयनि, तौ उचमणिगुणमणिगण मे ६५ हो-
 य न्य ॥ १५ ॥ विद्विय उटमरण-उत्तोरुडयो तहा विणयो, यत्रगुरुगमय
 ग-सात् मर नर च कय ॥ १६ ॥ ण्हाओ मयमे यये-परिद्वित्या पोनिपाट
 सुत्तत्र काऊणट्टुणण-यामेहि नरोहि ग्हाविता-॥ १७ ॥ त चिरेडु म्पणय
 -पडा पागसु निवन्निओ जणइ, ममट जमेत्य परव-साग नओ नोयमागणो-॥
 १८ ॥ जसो चेणट ज तुउय-रोयाण त परेदि यरमेग, सो नणड चोगसारि-सा
 रुण ग्गुच्चिय वरो मे ॥ १९ ॥ जणिय जसंयाण जहा-ज त न लओो हणामि नो
 अन्न, ता अन्न परचेत्तो-मगसु दूर पसत्तो ते ॥ २० ॥ तो जम्म गगंदमयि-रु-
 द्दि पामामि डुपयमादस्त, चित्तमि तस्स दिट्ठाणु-सारिख समगयि-॥ २१ ॥

र न्य विनयी प्रत्य धाप छ, मां फोर इहां अग्नि उत्पन्न किय मातरणे १५ तथा ये उवाचान र्थो नया प्रचरं
 सां पाट। विनय माख्या, तपन त्वां नये ए वगण्यो अन्न जगहृती नया सातार्ण कारे मर्यां नरां यत्त र्थो
 ग म्मान करी शोवागो र य वन्नी आउ फना र्मावधी सुम गी नया म्हागोधी याने नराजो १७
 पडा वीविपस नत्त। त्तन र्ही पण पकीने र्त्तना चाग्या के मे जे त्पारे अयपन र्थो हाय त वाक र्गा आ उवा-
 ची यत्त मत्तय पाग्ग्या १८ त यत्त र्त्तना चाग्या के जे त्तन र्त्तने एत यां माण त्पार त्पेणं र्त्तु त हुपत्त त माणु तु
 र तार त्त्तान माखा नदि १९ त्पार यत्ते र्त्तु रु त्तन मे न मायो फत्ते हेरे वीजाअने एण नदि मां मां तुं हुतु
 व-पान र तु र्त्त माण, र्त्तये हु माण ए र्त्तु र्त्तु र्त्तु २० यार त्पेणं माणु के हु त र्त्तं दिक्कन्निनु एक
 र्त्तनाण जाउ त्तु मरुत्तु रूप दीउतती पापर चित्ती शरु एय र्त्ते २१ एम त्पेणं माणो यत्ते ते यत्त संतर र्त्तु

द्य नृणिण् तेणेसो—ण्य होउत्ति मन्नए सम्म, तो रत्ता सक्कार—साहुक्कार च सो
 नीअ्रो ॥ २२ ॥ पत्तो कोसवीण—सयाणिओ तय्य नरवई अस्थि, सो अन्नया सुहा-
 सण—मारुटो पुछए हृय ॥ २३ ॥ ज राईण अन्नेसि—अस्थि किं त न अस्थि म-
 ट रत्ते ? तेणुत्त चित्तसहा—एकधिय देव ते नस्थि ॥ २४ ॥ तो मणसा देवाण-
 यायाण पस्थिणाण सिज्झति, कजाइ हुसजाइनि—आणत्ता तम्बणा सव्वे—॥ २५
 ॥ नगरीण चित्तपरा—तेहि पुण सा सहा विज्जिज्जण, आढत्ता वित्तेउ—सव्वुयग-
 राणोवेणहि ॥ २६ ॥ दाळरस्स य चित्तय—दारगस्ता जओ उ अवरोहो, तदि-
 मिज्जागो जाओ—अहन्नया जाव्वकणगओ—॥ २७ ॥ दिट्ठो मिगावईए—पायगु-
 ट्ठो चरा य सा देवी, अइपरमेपपत्त—नरवइणो तस्स निच्चपि ॥ २८ ॥ विट्ठाणुसा-

गरी चत्त याना राजए तेनो सरार करी तेन सावात्री आपी २७ त्यांथी ते कांणीमा आब्यो त्या शतानीक नामे रा
 जा हुना तेणे एव बेळा गात्री पर बेठी दूतन पृष्ठयु ते—२३ एरी इ चवीज ठे के जे नीजा राजाओने त्यां छे अने मारे
 त्यां नची ? दूण वयु के हे देव, तमार त्या फक्त एक निरसनाज नत्री २४ त्पारे रुहेत ठे के “ देवीना दु सा प सामो
 पनरं निरसना सिद्ध थाय छे अत्रन राजाओनां तेवा कामो वान उच्यता सिद्ध थाय छे ” ते प्रमाणे तेणे तराल
 नगरीनां यस्ता सत्त्वा चिनागट्टोने दुग्गय रथा ण्त्ते तेमाणे आस्सरस इहेणण करीने सयली सामग्रीके सत्ता चित्त
 री नर करी २५—२६ हेरे पेवा वर पामेना ते चित्ताराना गाल्फने जे गडु अत्रत पुर इतु ने चाग आब्यो त्या एक
 वरनेने तेणे जालीमाथी—सुगात्रीना पण्ना अगुडो नीडो, अने ने पण्ठी रूपत तथा राजाने दुषेसां अति प्रिय हती
 २७—२८ ए० तेणे नीडेंसा अगुडाने अनुमतीने तेनु रूपत रूप आहोण्यु यारनात्तेनी आब्येना उमीनपा

...गात्रिय मणसा, मणणेय होयन्-मेय ता उतरसो तेस्यो ॥ ३० ॥ एय जा गरतिग-विहियम उ लग्या ॥३१॥ निजण निन्वन्तेण तेण विट्ट भिगारुन्न्, विट्ट य मूणमेगण-ध- विहिया मक पत्ति ॥ ३३ ॥ साउण मणे रोस-चित्तयरमुत्रो निरुवियो न-इसा रिजयरगण मणी-उत्रट्टिया एस उवरतो ॥ ३४ ॥ नो जोगो मारेउ-सा-

उत्तरी उम्मी
कञ्जद्वारस अह विट्ट, उतरते
गणणेय होयन्-मेय ता उतरसो तेस्यो ॥ ३३ ॥ निम्मा
विट्ट भिगारुन्न्, विट्ट य मूणमेगण-ध-
चित्तयरमुत्रो निरुवियो न
उत्रट्टिया एस उवरतो ॥ ३४ ॥ नो जोगो मारेउ-सा-
विट्ट भिगारुन्न्, विट्ट य मूणमेगण-ध-
चित्तयरमुत्रो निरुवियो न
उत्रट्टिया एस उवरतो ॥ ३४ ॥ नो जोगो मारेउ-सा-
विट्ट भिगारुन्न्, विट्ट य मूणमेगण-ध-
चित्तयरमुत्रो निरुवियो न
उत्रट्टिया एस उवरतो ॥ ३४ ॥ नो जोगो मारेउ-सा-

॥ ३५ ॥ रोसो अष्वत्थो मञ्जु—तहवि सनास मस्त भवणेह, आणत्तो निविस्स-
 थो—गथो य सागेयनयरमि ॥ ३६ ॥ विहिय पान्निचरण—तस्सेवय सुरपियस्स ज-
 सयर, पढममुयासस्सते—अणित्थो यामेणवि द्विद्वेसि ॥ ३७ ॥ इय पुणरवि लक्ख-
 यो—जग्गयाथो सो सयाणिएण रोस, अइडस्सह पवन्नो—वसणुववाणवि चित्तइ य ॥ ३८ ॥
 विहिय सिगार्द्धण—रुय फट्ठयमि अइसयसरुय, उज्जेणीण पज्जोय—राइणो त च
 दरिसे ३९ ॥ दिठ सिठ च निवेण—पुट्ठिए तेण तम्बणाचेम, कोसवीनरवडणो
 —इथो अत्तिदाशणो पहिथो ॥ ४० ॥ एसा मिगार्इ ते—जा ज्जजा त दाहु मम
 देहि, अन्नह सगामसहो—होच्च मम एज्जमाएस्स ॥ ४१ ॥ तो चित्तन्निज्जगन्नीसए
 —निन्नावत्थो सयाणित्थो दूय, दूरमसक्खारेत्ता—निच्छमणेण निसारेइ ॥ ४२ ॥ तो

स्वामी होयत नहि गोटे हुक्कम बयों के फलु जमणु राहु वधीने एने देशनिमान करो एथी ते देशनिकान थइ सा
 वनपुर्णं आठ्यो ३६ तेणे त्या तेज मुरन्निप यदनी प्रतिरणा (उपासना) करी एटने पहेनाज उपपापना अते यके
 वपु के जा तु हुवे नाच हाथथी एण पिती शक्तीश ३७ एम परीने तेणे ते यक पासथी र येठ्यु, अने तेने शता.
 नीश उर अत्ति गुम्मे ग्हेवा वाय्यो तेनी ते तेने दु रमा नाग्यवना उपायो विनय त्रायो ३८ तेणे युगावतीनु अत्ति-
 य जोत्तिनु रूप पाटीया पर आवेग्वीन ते उज्जयिनी नगरीना यथोत्तन राजाने नायु, ३९ ते जोइ राजए प्रच्छा तेणे
 ते गरथी बात बट्टी एने राजए नलोनर कोगवीना राजा लफ एक वीहामणा दूतेने मावत्तायो ४० ते सोने क-
 हेरालु के आ लारी युगावती नामनी ते तायो डे ते जवदी एने पहेनाच नहि तो हु रनी आयु लु गोटे लक्कम तेषार
 चने ४१ चोर इत्थनीरपाजए ते बात गोत्तरी जपर नांभी जग्गर एणत्त परीने ते दूत्ते फजेन करी ध्या गारी राजाने

ममुञ्चन्ति ॥ ४३ ॥ त जमदग्नाहार—सोऽकृण इत्य पतूरत, अप्ययवो सो राया

—मया अस्मागरागेण ॥ ४४ ॥ अथधिरचित्तनाथो—मिगामई णण एस पुत्तोपि,
 नृपयणनामा अद्यावतागति मे नामिही सहना ॥ ४५ ॥ इय परिजायिय पजोयगस्त-
 यमट इय मच्चिगण, नणिआ एम कुमारो—नाडो अम्हेहि तुज्ज धरे—॥ ४६ ॥
 मरुत्तहि मामनरुटणा—नाम परिजन वहिही, अत्रेणपि सनिहिणण—केणई मा न

४३ = काशी न रात्र प्रयातन जगतां न गुण एव परशु वरर नड रात्री नरु रत्तने णो ४३
 ४४ = ययना मीदा तदा शयन जन्म। जन्मो अत्रागो मानडीने आता नरुत्ताराया शतालीशरागाने अतिताराना
 ४५ = नाम पयन यथा न युष्म एव परशु वरर नड रात्री नरु रत्तने णो ४५
 ४६ = अत्रि नात्रकदा नरुत्तारायाना ५७ ७८ नात्र कवरीए विचारुं क प्रयातन गता मन्नरु मन्तो होवायी
 ५७ = १३। ३२३। ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००
 ५८ = काशी न रात्र प्रयातन जगतां न गुण एव परशु वरर नड रात्री नरु रत्तने णो ५८
 ५९ = अत्रि नात्रकदा नरुत्तारायाना ५९ ६० नात्र कवरीए विचारुं क प्रयातन गता मन्नरु मन्तो होवायी
 ६० = १३। ३२३। ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

४३ = काशी न रात्र प्रयातन जगतां न गुण एव परशु वरर नड रात्री नरु रत्तने णो ४३

निरसई सव्यो, गार्हपत्यो पुण जोयण—सयमि किं कुणउ सो वसरे ? ॥ ४ए ॥
 जाहे ऋग्निओवि न ठाई—सो वढ रागमागओ ताहे, ऋणिय जहा सुसज्ज—कोसं-
 पियुर फतावेदि ॥ ५० ॥ पफिमन्नं कढ कीरउ—ऋग्निओ उज्जेणिइहा वदिया, की-
 रउ ताहिं विसाओ—साओ वडन इहपुरीण ॥ ५१ ॥ पुरिसो मयणविहुसियो—पत्थिज्जतो
 माणव्पियजणं, किंकिं देइ किं किं करइ नहु नहुअकज्जपि ॥ ५२ ॥ तस्स तया रायाणो
 —पोहस वसयत्तिणो सपरिवारा, उविया दोण्ह पुरीण—पहमि उरुअतराज्जमि ॥
 ५३ ॥ पुरिसपरपरएण—आणीया इहा तओ तेहिं, विद्धिओ कोसवीए—पायारो
 द्विमनगांगारो ॥ ५४ तत्तो इमीइ ऋणिय—किमिमीए धणुमाइरहियाए, सद्धापुत्तेण
 तओ—ऋरिया धणधन्नमाईण ॥ ५५ ॥ उसना वेद यडाख, यच्च वेद बृहस्पति.

वग्यु रे अनेणानी इय मन्नू होप छे, मोटे तेपनाफे आ नगरीनो मन्नूत बोट करावी आपो ५१ हुवे रुहेत
 ते व—समानुर पुरप तेना नियतनो शर्थनाथी शु शु नहि आपे तथा शु शु नहि करा योग्य काम पण नहि करे ५२
 ए रुहेवन वमाणे यद्योतन राजाप पोता पोसे ते यवने जे चौद राजावर्णी राजाओ हुता तेमने ते वे नगरीना-
 नावा मार्गनी यवे राग्या ५३ तेमणे माणसोनी हार करीने ल्याथी इमे आणी पत्ये कोशरीने फलतो हिमान्य जेयो
 रोउ तैयार वग्यो ५४ त्यारे फरीने राणीए रुहेमव्यु के आ नगरीमां पाय गेरे रुई नयी मोटे शा कामनी गणाय
 एये विधाय पामेवाघोतनेने यमयाव्ययी पण नगरी आपी ५५ रुहेयुडे के “शुनार्या अशाख जाणे छे तथा बृहस्पति
 जे शाख जाणे उ ते यरुथीओनी मुद्धिमां म्वजागेन रुहेतु छे ” ५६ आ यमने अनुसरती तेणीए विशेष मजबूती आपी
 हेने न मरम नगरी गेगे महेयाने समर्थथइ फनी ५७ ए वयने मुगतनी विचारया नागी के ते गाम तथा नगरेने धन्यडे के ज्यां
 मवे जागृत्या जीओ पर वा मयजाव रावकार चरमतीर्थकर वीरमनु विक्के छे ५८ वठी तेओ उर्गा विचर उे ल्या परचक्र,
 मुहास तथा अकाल पाप करे आनवे इर धन्य रुहे उकाव कोकेला यमवां आनइ यतो रुहेउ पकावे अकाल के ५९ ते का

स्वज्ञानदेव तव सर्वं, स्त्रीणा वृद्धो प्रतिष्ठित ॥ ५६ ॥ इययणमणुसरतीदृ—तीग
 निह्रिओ त्रिसेससयाओ, रोहगसजा सजा—सजाया सा पुरी पररा ॥ ५७ ॥ परि-
 चिनिय च णाग धन्ना ते गामनगरमार्द्ध्या, सन्नजगजीयवृद्ध—चरिओ चरसो जि
 णो गीरो ॥ ५८ ॥ निहरइ जत्थ अणत्थे—परचक्रुडुकावकालमरणाई, उज्जरितो डू-
 रे—चणियजणमानसाणदो—॥ ५९ ॥ जइ इज्ज मज्ज पुन्नेहि—एत्थ सामी करे-
 मि पन्नज्ज, तो तस्स चउणक्कमइसियमि परिचत्तपन्निया ॥ ६० ॥ परउन्नयरेकरुं
 —नाउ तच्चितिय महाजागो, उत्तरपुरत्थिमाए—दूरा देसतरागम्म—॥ ६१ ॥ ओ
 इणो उज्जाणे—सामी चदानयारनाममि, जाओ तेरोवससो—सगया चउत्तिहा
 देमा ॥ ६२ ॥ सन्नजियाण सरणं—ओसरणं तत्थ निम्मिय तेहिं, आजोयणमे

गतन जायाणुण्ये इहो पशरत्ते दृष्टवित्तमस्तीनेना रण्णयग्गनजीरुपां प्रमथ्या अणोसारं ५६० हेतु परोपपारएरा
 ण्य मइयानाग गीरसुत्तु नेतो ते मनेरएव जाल्लिने न्नुदेशांतरवी आरीने ते नगरीनि उत्तरपुरं निशापां (इज्जान रोण
 मा) इहता उगतालापना उद्यानमां उत्तरां नेवी तेनी शानि थद अत्र गारे निरायना दत्ताओ त्या एवता थया
 ६१—६२ तेषमे सर्वं नीवानु गणे गण्णव्य द्वारा नेतु धोवन प्रयाणं कृतीने शोभातु समसराण तलोत्तर रती
 तया रतु ११ न समसराणं आ रतिने छे क मणि, गुरंण, अने म्पाना णण ग रथा क केपना उतर धनाओ अने
 निमानाना वत्ता जया उदत्ता थग्या व गुणं चाइ जणे हुणे ६४ कळी संस्सो शाखाओधी जमीने गहलुं अने यणां
 पांइनाओपी आसाजे जरी नावत्तु पत्तु वे मकरानी गण्णपी युक्त अशोक नामे उचप जइत्तं त्यां खडु कर्तुं ६५
 मयत इरइरुत्तुना र्थं जेरां गानत्ता अने वैर्यत्तनां नंभाराग वण उत्र उतां कर्षा ६६ रती देदीण्णमान रजोना

तमदीमडणनूय गणानेय ॥ ६३ ॥ मणिहेमरूपमइय—पागाराण तिग समारइय,
 अतियपनागऊयचिंध—नियरनिम्महियचिहिरकर—॥ ६४ सालासएण सवण्णमहि-
 यमो पहवरइदरराजोगो, इविहवायाणुगओ—असोगतमो य पवरडुमो ॥ ६५ ॥
 मययसिसरतरुय—दूराडुमुक्कमोत्तिउज्जल्लय, वेरुल्लियरयणएदरु—चरु उत्तत्तय च कय
 ॥ ६६ ॥ अइत्तामुररयणएकरोह—सोहिय हरियतिमिरसत्तार, सीद्दासण च विहिय
 —हिसिगिरिसिहर य अइत्तुग ॥ ६७ ॥ उअविठो तलय जिणो—सियचामरचारुदी-
 इयमरीरो, तात्तियद्दीरडुडुहि—नकाराऊरियदियतो ॥ ६८ ॥ सिद्धिओ सिगाव
 ई पमुहनय-रिद्धोओ निवो य पजेओ, विद्धिओ पूयापमुहो—सक्कारो तिथनाहस्स
 ॥ ६९ ॥ पारळा धम्मकहा—पीऊत्तानरिससरिससणीए, धम्मो कहिज्जमाणे—सवर-

विराणोयी शोच्चिइ होइ अधरारने रू करतु पतु हिमचल्लनी डुक जेतु उल्लु सिहासन रच्यु. ६७ त्यां जिनेश्वर वेवा
 एये तेना उअर भेत चामर दोवारो वाण्यो अने गनीर दुदुच्चि गगता दिगाओना वेमा गानी रखा ६८ त्यां मृगास्ती
 गणे नगना सोरो आवा तथा प्रद्योतन राजा एण आब्यो तेमणे तीर्थनाथ मत्तुनो पुजा ममुख सत्कार कर्यो ६९ ह्ये
 त्तो जगनेने अमुत्तनी वरसाद जेवी गणीरने धर्मकथा गरु करी धर्म वद्वेया मांड्यो एवामां चीन जेवो एक माणस हा
 र एयो ७० तेणे बोवनी बाणीना अनुसारे थार्यु के आ सोइ सर्वइ छे पत्ते ते निश्वय धरीने ते मनथी प्रउया द्वा-
 यो ७१ त्पोर जगत्ता जीवोना यतु जगदान योड्या के हे सोइय, तु यनथी पृउ के जेयी यया जीवो वोचि पापी इ
 कने ७२ एप वया उता एप ते एपम ग्याने थवो बोड्या के हे जगत्तन, जे ने ठनी ते ते छे के ? त्पोर जगत्तने हा
 पावो ७३ ते एवो मत्तपत्ताएण एथ्यु के हे जगत्तन एणे “ जा मा मा मा ” ए बोडवनेने गु पुळ्ळु ? त्पोर जगत्तने

निन्दयमिष धरतो—मणसि पुच्छेउ मादतो ॥ ७१ ॥ ताहे जणिओ नयजीय—
 वधुणा जगण्या जहा सोम, गयाइ पुच्छ रहेते—सत्ता ज वोहि मुन्दति ॥ ७२ ॥
 गय जणिओति स जजमाणमाणसपसेण पक्किजणइ, जयय जा सा सा सा—आस-
 ति परुतिण पट्टुणा-। ७३ ॥ पज्जणइ गोयससामी—जासासासति किं जणिय मि
 मिणा, उट्टाणयास्वियजणिय—माह ण्यसस तो जयय ॥ ७४ ॥—जहा—जया णा-
 मेण पुरी—पुरोगमा पुरजराण मिह अस्थि, इत्थीज्जोद्धो परिजसइ—तत्थ णो सुज
 णारो ॥ ७५ ॥ सो पच सुजणसण—दाऊण कणमाण जा जयय, रुजणुणमणहराओ
 —सगउरय ताउ परिणेइ, ॥ ७६ ॥ एय पचसयाइ—तासि सपिग्गियाइ, पत्तेय, कोरे-

नीय मुन्दत तनी अथत सुपीली हरीत कही माओ—७४ ते आ रीते र इहा एा नांये सरस नगरीओमां प्रथम
 पतिप गणना नगरी छ त्यां श्रीओ कफ आशक रहेनार एक सानारो रहेता इतो ७५ ते सोनारो ज्या ज्यली र
 पाओमां न तथा अणिर म्यपागी जणनी नन माये पांतो सानाअद्वार आपीने त्ते परणतो ७६ एय ते पांतो
 नयाआपणयाअनं न्येत्ता निरक पर्यंतं तिं गं अन्नार कराय ७७ इते ते त्रे त्रिये जणीना साथे जेण नोगसा इउ
 ना न दिग्गत कणीने तां अन्नकार आपण पाय बीना दिग्गेमां आपनो न इतो ७८ यतो ते अत्यन
 पट्टीयकणी पयारण पोकारुं पर छोदी चोहेर जो नहि त्पन रीना कोइ मित्ते णण परमां पत्तया त्तेो नहि ७९
 एव १७१ न तथा पिन्ना पर अति आग्रहन क्षीय कइ उलयमणगे गयो त्पार तनी श्रीओए विचारुं के णा नांया
 सत्त आन जेयय करी पवतं पती छ, माये पात्तो इहाए, तां रयनां पहेरिए तथा अन्नार सतीए ७०—७१

५२ ॥
 ३ अंधकार—तासिं सो तिसयचउदसमं ॥ ७७ ॥ जमि दिणे जीइ सम—जोग जु-
 जेउ मिउद तमि, सवमझवार देद—तीइ नो अणदिससेसु ॥ ७७ ॥ सो अचत ई-
 साउओति गेह क्याद नो मुयइ, नय अन्नसस पेस—नियरइ मित्तससपि गिहमि
 ॥ ७८ ॥ अन्नदिणे मित्तगिहं—अचतुनरोहपरिगयो सतो, चट्टतमि पगरणे—गओ
 तओं चिंतियमिमाहिं—॥ ७० ॥ पइरिकमज्ज मुनझळ—मेय मइभूरिकाझओ कह-
 थि ता एहामो मनेमो—आविद्धमो अझकारे ॥ ७१ ॥ विहिय ताहिं तहचेच—
 सव्य मादरिसगत्त्याओ, जा पेउति समग—सहसा सो आगओ ताहे ॥ ७२ ॥
 अइरोसारणनयणो—ददूण ताउ अन्नरूनाओ, गिन्हइ करेण एअ—पिटे इ य
 जा गय जीव ॥ ७३ ॥ अन्नाहि चिंतिय नूण—मेस अम्हेवि मारिही रुढो, ता आ-

शर गओ मं वरान दादसं आरिसा वर पांताना अणने जेवा नाली एनामा ते ओंतिने आती पहोच्यो ७२ ते
 नेदस ध'जा इयसा चोत्तने अनिगेपथी चान थयो, अने तेओपानी एतने परुद्धने ज्ञानगी मरण पायी त्यावगी मारवा
 बांटा ७३ त्वारे बीत्री वीओए विचारुं रे आ रुंथ्यां छे एउने अणने एण नक्की मारी नागने माटे एने आरिसाना दग
 नेगो बरी रुदए एम धारीने तेमणे चारलो नयाणु आरिसा तेना तरफ पेंगया तेथी ते पण मरण पाव्यो, एउने ते जलना-
 ली एदी के हाथ हाथ आ ने केनु उनु थयु ! ७४—७५ तेमणे निवार थ्यां के “एओ पत्तिने मारी नातनार छे”
 एरी रीति आणुओ योग्यां पंजेनी पंचासो, मांटे आ अरुमरे अणणेण मवु गानवी छे ७६ एम एउमन करीने तेमणे
 एउथग मरुत रीति एथ बरी एमं आग गउगवी, पांपाना प्राणने त्याग क्या ७७ ते बनी प गलाप करवाथी त्या

दरिसगुच—एय कुणिमो तत्रो मुक्ता—॥ ७४ ॥ एगुणा पत्रसया—अत्रागाण
 तत्रो मत्रो सोति, तत्रसणमेव विसण्णउ ताउ ही केरिस जाय ॥ ७५ ॥ ७५ ॥ ७५
 मारियाउ ण्या-दय असलाहा जणे परिच्छमिही, तो पत्तकानमेय-ज किञ्चाइ मरण
 मिणइपि ॥ ७६ ॥ दय ण्णीभूमण्णाहि-ताहि दार घण विदिताण, विन्तो गिहमि
 अग्गी-कत्रो य निवज्जीयिच्चत्रो ॥ ७७ ॥ पञ्चामेण साणुसेसत्तोण कामनि
 ङारया, इवो मणुस्सनाओ-एयमि गिरिमि सव्याहि ॥ ७८ ॥ सो पुण सुन्नगारो
 -अट्टमसदो तिरिस्सत्रो जात्रो, जा सा पढम पह्या-साएग जतत्तरिया ॥ ७९ ॥
 ॥ रत्तणनुमि चेन्नो-आयात्रो सोय पचमे रस्से, जा उट्ठइ ता सो हेमकरजीनो
 तिरिमत्त-॥ ८० ॥ उट्ठित्तु कुत्ते जाया—तमिय धूया अईरूत्तइ, वाज्जत्तणे-
 नि रत्रो—तीण अट्टउत्तनो उदित्रो ॥ ८१ ॥ जात्रो सरोरदाहो—निच्चविय रुयइ
 ना धिइ नहइ, ता चेत्तेण तेण—येत्तय सुत्तरे कुणतेण—॥ ८२ ॥ पह्या जोणि
 माओ नागना उ एवी रीव आपणी नोत्तमा फेत्तो एत्तसे, मांटे आ अक्कसे आरुण मत्तु गज्जी उ उइ एम ए
 रपन एत्तनत्तय दयत्तजोमत्तवर ने रत्तकीयसा आणसत्तगी, योनामात्तना-याग क्या उउ ते रत्तो एयत्तप रत्ता
 थोत्तय उ दयात्तान वारणथोत्तया अत्तम निव्व एत्तो आपत्तया मत्तु रत्तु पत्तो उउ पेत्ता सोत्तारो अत्तय यत्ते मत्तनि नि
 पत्तयत्तण पत्तयो अत्ते जत्तनि नत्तु पट्टेत्ता मारी नत्तु एत्त एक चत्त रत्तयो यत्त दत्तान्णना कुत्तया पुत्तयत्ते जन्म तीथो ते पुत्तयत्तार पत्त
 रत्तना क्या त्यार न सत्तान्णत्तो जीव निपत्तया चत्त इत्तो करीन ते न कुत्तमा अत्ति रूपत्तान पुत्तिल्लये जत्तयो, त्ते नानपत्तमा
 न रत्तयो तीव उत्तय रट्टेया सत्तया उए—८०—८१—८२ ते वारणवी तेना चरीत्तया वत्तत्ता थया सत्तगी एत्त ते इत्तसेत्त

श्री जयन्तपायमूणे अणाउद्धो मणसा, सबुद्धा बुद्धिधणा—बहवे अन्नेवि जञ्जलि-
 या ॥ १०७॥ देवी मिगवईणिय—वदिता एयमाह ज नर, पुञ्जामि अविनिनि—
 तुन्नने लेमि तो दिमय ॥ १०८ ॥ जा पुञ्जइ पञ्जोय—मञ्जमि सन्नाइ तीइ महईए,
 तमवणकिमाणुराओ—सो द्वाजापरवसो जाओ ॥ १०९ ॥ नतरइ त वारेड विस-
 जिया तेण सा तओ कुमर, निमलेयनिमिखत्त—काऊण वय पवजेत्ति ॥ ११० ॥
 अगारईणमुहाउ—अछडेवीउ तस्तवि निवस्त, सहिया मिगवईए—तम्मी समयमि
 पन्डया ॥ १११॥ चोराणय पच सया—तेण गतूण ताइ पव्हीए, सवोहिया, मिगा-
 रइ—अज्ञा सा चदणजाण ॥ ११२ ॥ उवणीया जययुरुणा— साहुसमायारपरिणई
 जाया, अइ अन्नमि विहारे—रत्तिसिणो नियमिमाणेसु —॥ ११३॥ एसुचिय आरू-

मनराए छे—१०४ ने नगरान् बंगवती नगरीमा पधारन छे, माट हु त्यां नइ तेमने प्रबु, एम धारी तेणे इहा आर्याने
 “ जा मा मा सा ’ ए गंवयी मने पृत्रयु छे १०५ आम जगमाने कयायो पपदाया तेसनाराओमा जारे सरेग पेदा थयो
 प्रन सां बोनरा वागग, विमसार पने मोहना विमाले के जे ससागमा जयत जीरोने केवी विटमना आपे ३ । १०६
 तदे १०७अन्ने अणो ज्ञानय जगमान् पासे शात मनयी दीक्षा थयो अने रोना पण घण बुद्धिशाळा ज्यजीयो
 मनिगोर पग्ग १०७ इये मृगावती गणी पण जगमान्ते वादीन गोपी के हु अरवतीना राजाने प्रती तगारी पासे दी-
 त्ता यदा १०८ एम गोवीन ने तेज मानी सगमा मथोलनएमाने प्रत्रा द्वाणी एत्ते ने राजाने तेना उपर रहना रा-
 ग ओतो पमरा मल्लो अने ने वज्जामा पवग थइ पळ्यो १०९ तेयी ने तेने अस्सवावो गरयो नहि, तेयी तेणे तेने
 ११० अस्सी एत्ते न कुपारने गउय पर स्थामिनि दीक्षा म्भीअरवा द्वाणी ११० तेवी साये ते राजाने अगारवती प्रमरा

प्रयोग उपशमनोपायव्यापाररूप—अथवा यद्विवा—यवसतीत्याह—शरावे महकके
उपलक्षणत्वात् कद्वशाकूर्चिका वर्णकादौ च प्रत्यग्रे चित्रकरदारकेण यो महककादौ नूतने
विहिते सति यद्गोपशमनोपाय उपद्रव्य स चात्र ज्ञातमिति ज्ञात्र

अत्र चार्थशास्त्रत्वज्ञानेनैव—परो ह्यवशीचूत सामादिजिर्गीतिजैदे सम्यक्प्र-
युक्तैर्ग्रहीतव्य यथा अधीन्व पुत्रक प्रात—दौस्यामि तव मोदकान्, तान्वान्यस्मै
प्रदास्यामि—कर्णबुलपाटयामिते इति

साम च चित्रकरदारकप्रयुक्तो विनय इति

लेहे द्विवीचिहाण—वट्टाखेइडेण मम्बरशिहण, पिठिमि द्विहियवायण—

मम्बर विंदाइ सुयणाण ॥ ए ॥

म नाम जेद टमस्य नीतिने ज्ञानावनार रहस्यतिप्रणीत शास्त्र के जे पुत्र धारण्ये क्षीषेन डे ते पडे क-पम्पनी उदा-
हरण डे श्री रति ते बहे छे के सेननीना गडा तथा दाहैना जागनेने अलुग्ये उपर तथा नीचे छेदन जेदन कर्यु ते
वम गुरुए मोचनवेव मुखी माणसने गुचवणमा नाखी दीधो ते रीते. तथा गुरप्रिय यङ्गनी पुर्वे कहेदी वार्त्ता पण उना
हरण छे, ते शी रीते ते बहे छे के नगराना लोकनी वतनेने अट्टकावधानो जे व्यापार कर्या ते रीते, अथवा शाराबडु,
वाळाङ्गनी तथा बगक बगेरे चिताराना पुत्रे नया करीने यङ्गने उपशामावधानो उपाय मेळ्ळ्यो ते पण इहा उदाहरण डे
इहा अर्थशास्त्रपणानी ज्ञानना आ रीते छे के सामो माणस बश थलो न होय तो सामादिक नीति थरोवर या
परीने तेन वा करतो जेपदे—

दीवरा, तु सवारे उठ्ठी जणीश तो तेन हातु अपीश अगर तेम न करीश तो ते बीजने अपीण अने ता-
रा वान उपादीश त्या साम एदने चिताराना पुत्रे जे विनय यापर्या ते जाण्यो

मुळगाथा

शेकम्हां द्विविचिज्ञान ते पाप्माओनी रसतमा अङ्गण चितरी शीत्वारुनुं, तेपत्र पुडे हायेस वाचु तथा अम्बर

नेय इति चारोपदेशे
हमन्ति भूयन्ति-जस्यी तह रस्यती य वोधव्वा, उड्डी जसणि कुमुकी-कीमी द-
विभी य सिधिया ॥ १ ॥ माहविणी नम नागरि-ज्ञानद्वित्री पारसी य वोधव्वा,
न अनिमित्ता गेया-जगणी मूनदेवी य ॥ २ ॥

तेद्वेगप्रसिद्धाश्चेता

तत्र तिन केनविजाज्ञा सम्यचिदुपायायस्य निजपुत्रा लिपिशिक्षणार्थं समर्षि
गा -ने न दुर्वचिनतया आरामान नियत्य न शिक्षितुमुत्सहते, अपि तु कीन्त्येन
तथा रात्रोपायनजनीगणा उपागयेन-वदस्येनेणमस्मरा विहणति-वृत्ताना ए
दिमामयगोनमना गेयन मीत्तन ते सह इत-तेन चाद्रपतातुरूपपतद्गोद्विष
* विदु गदी गत धार न वारी यरा ग।

एषां सप्त गन्त्री जगन गार इतन ए विगिकियन एव जनी न्नी चिपिओ अया उ हलविनि, घननि
नि गसिदि, शब्दसिदि, उड्डी, गसचिदि वृद्धीविनि, कीद्विनि, प्रकिरी, किरी माळी, नसिदि, जागरीति
नि मासिदि (गुणगती), शाल्मी, अयतप्रनिमित्तविदि, शागदीसिदि तथा मूरन्त्री (पूदी)सिदि एष अयार सिदि उ
ए वरी न न च्चन्य चासनी मसिद के.
एषां एव गान्ध एव शिषकने शायत्य दुरा सिदि मीत्यरुच को गेया तेमो त्यन्तियार होगयी कृतगया
वडी मीयप गेया एग वदि किं एवर्चन एव गारण एने गालता जगणी इया गिद्वे मानीना



प्रतिपद्यच्छास्त्राणां गुरुराणामसारीक्षामालेयनं कारितास्ते ते हि यदा शिष्यमाणा अपि न
 गिज्ञामाप्स्यन्त तत उपाध्यायेन तत्कीर्त्तनकर्मयानुवर्त्तमानेन तथा गोदाकपात शिङ्गि-
 त्तया गृहमात्रज्ञाणि समुत्पवानीनि—यथा—पिडिञ्जित्ति-भूर्यपृष्टादौ लिखिताना-
 मज्ञाणा यच्छान तद ञ्चैविकी बुद्धि —तथाङ्गरविष्ठाडिन्त्युतज्ञान अङ्करस्य वर्ण-
 पत्र विदा प्रसिद्धस्यैवादिशब्दान्मात्राया पदादेश्च च्युतस्य पत्रादवञ्जितस्य
 यत् ज्ञान तदपि ञ्चैविकी
 तत्राङ्गस्य न्युत यथा—गोमायोर्विदरे पत्रे—
 स्वर्गनातपि—मन्य न स्यात्

(मूत्रगाथा)—गणिग य अकनासो—अण्डेण सुगणजायण देहे, आय
 यन्निना नह—अण्डेण हियायरियस्सया ॥ १० ॥

गणित्ते चेति छारपरामर्शो—दह च चत्तायुदाहरणानि तद्यथा अकनासा (१),
 मूर्णयान (२), आयय्यचिन्ता (३), हता जीताचार्याश्चेति (४)

नत्रास्नाता सपत पुनर्नच्य सत् ज्ञात—धृतमाराणा धृत रसमाणाना तद्धे-
 व्यस च दुरीतो यदा कुतोपि तु प्रयोगात् कस्यचिदस्य नाशो भवति तदा प्रस्तुत-
 बुद्धिज्ञानेया पुनरायमान्मीनतीति—अन्येतु हुत्ते—सुवर्णयाचन चामीकरप्रार्थ-
 न देहे गच्छत्यभिहिति संनगरसाधारणे पत्तिं मति ज्ञात—किन् नत्रचिदगरे केन-

य न न मग पत्तं गग नाह केग नदि पान ('द्वी त्साह पत्तं' " सो ' पत्ती गग छ)

विदुर्गु न या दसाप—शीत्रागर्भे त्सी देगत धनो मुपात्त दुराग अत पत्तस्य नत्त इत्यने के
 म त्ति २३ ' ('सि' रत्तन मय्य रत्तन ३ न विदुर्गु ७)

एतत्पत्तं—गणित्तेणां २३०००, रीत्त के ७ १ पुरागतान तत्र आगतवी गिग ज्ञेये रीत्ता रुहे
 ३ ४ याग, यत्त एतत् १०

गणिग एतत् २३००० एतत् ३११११ रत्तित्ते ७७७७७ एतत् ७७७७७ एतत् ७७७७७ एतत् ७७७७७
 एतत् ७७७७७ एतत् ७७७७७

नगरनाथेन दंन पातित . कारणिकैश्च चितित, मा लोक उच्छ्रितामिति व्युत्पत्त्या-
 सो प्राद्य ततो नृणिता नागरिकास्ते परिमितकालव्यवधानेन सुवर्णं द्वियुणत्रियुणादि-
 ज्ञानमुत्प्रेद्यमाणैर्यथा,—“ दडसूयप्रमाणं जवता विजज्य सुवर्णं राज्ञो दातुमुचित, १
 सस्यपासादेव तद्य तनुद्यरूपमेव प्रव्य यथा हस्ते जतता चटिष्यते तथा विधास्यते,
 न पश्चिदसतोपो विधेय ” इत्त च तत्ते दादातरे च महर्धीभूत विक्रीय कारणिकैस्तद्द्वि-
 युणादि ज्ञानो राजजानागारे निक्षिप्त मूढधन च तेपामेव समर्पितमिति

अन्ये त्वियुतुवर्तते—राज्यचितकाना कुटुवचितकाना च प्रस्तुतवृद्धिप्रधानाना

त्वा अरनास यथा परीने ते मेडववा ते उगहरण ए प्रमाणे डे के उगार सता जुगारीओ तेनी नौध क्रा-
 ता रड ए तेमा वाः गनरुवयी कोः अक नृसाः ज्ञाप तो आ प्रस्तुत बुद्धिना योगे त्रेओ फरीने याद करी ड्ये छे नी
 या आरायौ बह उ के राजा सकधी आला नगएर दन पनता सोनु मागी डीयु ते उदाहरण डे ते ए रीते के कोः
 नगर्ना कोः राजए दन पाड्यो त्पारे अधिधारीओए विचार्युं के लोकौ नाराज नहि थाय ते नारातर तेमने समजवी
 पगवीने आ न्द देवो दे ए तेवी भेणे थोना रलत वाद सोनु जमाणु मोंयु थनरु धारीने नगरना लोकौने कलु
 न्धार बहेनग री राजने दननी कीमत जेःनु सोनु आणवु अने ततमाज नेःनी कीमना पैसा जेम तमारा हाथे
 नदग तेम वगु मां तपारे नाराज यवु नहि नगरनेए ते आणु वाद थोमो बलत जलां सोनु मोंयु थणु एःने अधि-
 धारिओए ते वेंनी तेमाथी जे वमणा जाकनो नफो थयो ते राजाना जकारसां दालन कर्वा अपे मूळ धन तेमने पाडु
 नगएर वंयु

पडी थीना आनाया बहे डे के राज्याना कस्तार तथा वृद्धवलिता रस्तार आनी प्रस्तुत बुद्धिनाय प्रणे

पुरुषाणां राज्ञेषु कृद्गेषु च आयस्यापूर्वधनज्ञानज्ञानस्य व्यपस्य च अव्ययनविनि-
 योगरूपस्य या चिन्ता सा ज्ञात-तयेति ज्ञातातर समुच्चयार्थं — मतिमतो हि ताम्रा-
 बुभुवदायययो प्रवर्तते—तथाहि—ताम्राबुका घृतजलाद्रिमुक्तनेन मुनेन गुह्या
 नि एव चानिपत्नीर्णमुनेन नावकेन करोति, यतो बहुव्ययकालोऽप्यश्रायकाज — इती-
 त्यमेव व्यमहस्ता सगल्यमुत्पन्ते इति — अन्ये तु हृतजोताचार्यसग्या प्रस्तुतवृद्धिनि
 पयतथा वर्तते इति व्याख्याति—यथा केनचित्पानुना केचिज्ञोताचार्यो काचिज्जरीर-
 नना सन्निमुत्तरतो जनपूरेण ह्यियमाणा समुत्तारिता तेवा च प्रागेव समवधारित
 दशादिप्रमाण मसग्याना ममकानमेव जन्तयेनात्मान विमुच्य परिगणयितुमारब्धाना
 यदा प्राद्वनस्पत्या न पूर्यन्ते तदा सन्धियाद्गुग्वास्ते त्रिलपितुमारब्धा यथेकोस्मासु न

गाननी तथा तदुत्पन्नं न ननु थन कर्तुं शक्ते उ न्नी प्रने थाने र्हेंदु थन नी रीत मरगु त्नी चिता एते छे त उ
 गारण ७ गारण ७ बुद्धितन मारण मारणी एगरी मारक आरक तथा मारणं वर्ण छे एत्ने के जेप ते गरीनी
 नी व गालीन पावना मारणी प्रदण करे उ अने अति मारका मारणा मारणी केनो मारण से छे जे मोटे मार
 थाना मरत मणा मार उ अने येन कचाना कचन नो पोषात होण छे मोटे ए रीतेन मारणायी मारण र्ह्यी शक्ते,
 मारण मारण र्ह उ क हरेसा नीमामरणी मारण मार बुद्धिना एते उगदण छे ने ए रीते छे के मोटे द्याउ मारणे
 कमार नीमामरणी (मूला) सेद उंची नीमारी मारण थन गालीनी मारण जेद निन्तारे ज्ञानार्थो तेप्रोए प्रव पो-
 गाने मार गरीनि “ एव मारण कर्तुं इत्तु एव मारणगी इमगा योगाने गृहीते मारण मारण एत्ने पु

दीपूरेण हृत इति—जणिताश्च ते सप्रति समीपमर्त्तिना केनचित् यथा ज्ञो जयता-
मात्मा विस्मृतो यदेव गणनमारब्धमिति

(मूत्रगाथा)—कूवे सिगइण्ण—तुद्धे तत्थवि तिरिञ्चिमाहण्ण, अण्णे णि-
हाणसपनु—नायमोर्विति एव तु ॥ ११ ॥

कूप इति छारपरामर्श शिराया जत्रोद्गमप्रवाहरूपाया ज्ञानमगम—क-
यमित्याह—भूमिमध्यगततथाविधकूपकारादिद्विखातप्रमाणरूपाराधनेपि स्नातकाना यदा
जल न प्रवर्त्तते तदा तुल्ये स्नातप्रमाणसदृशे जागे तत्रापि तस्मिन्नेव कूपे तिर्यग्गामद-
ङ्किणादि रूपे ग्राहनन पाणिप्रदारादिना तारुन कृत —अयमत्र ज्ञाव—अचचित
केश्चिद् ग्रामेयकादिजिस्तीस्वादुजडाार्थिजिननन्योपाय जलमवबुध्यमानै कश्चित् कूप-

रि करेनी सत्या गृह नहि त्वारे तेजो निषट् गये विनाप करग व्याग्या के अगारामानो एक जण नदीमां तण्णइ गयो
छे त्वारे ते बबने पासे जलेचा कोइए तेमने ग्यु के अरे जज्ञा माणसो, त्मे पोलाने केम वीसरो छो के अगरी रीते
गणती करो डो?

इवा पट तेनी शीर जाणवी त्यां पण सखा जागमां तिरुहुण्णामु अन्य कहे छे के एवी रीते निथन पापमानो
उपाय ते उगहरण्णे डे ११

एप शंटे छार सजाहुं छे शीर एंने पाणीनो प्रवाह तेनी समत्र ते ए रीते डे के जमीनमां तेरा रोइ गरा
गरानारला दुक्कम प्रमाणे खांनो खोया ट्ठां एण उवारे पाणी न मत्तु त्वारे रोइनाराओ पाते तेन गामां ते खणारेसा
जागमां तिन्डी सरन्ती अगरी डातो मगरी एंने के रोइरु स्यत्र रोइरु गामन्वियाओए अति मोधुं पाणी मेत्र

कारस्तथात्रिधाजनयदेशेन चृमिगतानि जज्ञान्ययत्रोकमानं पृष्ट — “ किमस्यां तु विज-
 हामस्ति न वेति ’—उक्तं तेन “ निश्चितमस्ति” तर्हि त्रियत्रमाणे गांते सति न
 दन्त्रिव्यक्तिसमायास्यतीति? स ग्राह—“ पुरुषदशादो प्रारब्धश्च ते कूपं गन्तुं सपा-
 दितं चोक्तप्रमाणं स्यात्, तथापि ज्ञानानामनागमने निवेदितमस्य किं जा नोद्गवतीति?
 तेनापि स्वाजानाध्यरूपतामगम्यं त्रणितं सातप्रमाणसमितं राम दक्षिणं न कूपना-
 ग पाण्यर्थादिना ग्रहतं कुम्भं विहितं च तत्रैव ते उद्घटितं च त्रियुजं जज्ञमिति
 अन्ये तुभते इत्युत्तरेण योग — एवमेवाजनयदेशेन भूमिगतानि त्रिधानानि कश्चित् प
 ज्ञानं केनापि पृष्ट — “ किमस्मदीयं त्रिधानमत्रास्ति न वेति ”? अस्ति चेत् क्रियत्या
 च्युति? ततस्तेनापि कूपे चृत्रिरूपे प्राग्वत् सानिते—निहाणसपत्तुत्रायमो इति—

या वीत्रो वीहं उपाय नयी पम प्राप्ती वीहं नृा वराकारं कं जे वीहं तेरी जन्तानं अजन्तवी ज्वीनषां रहेना पाणी
 गाहं शरतो हुतो तने पृष्ठयु के आ चूमिषा पाणी छे के नहि? तणे कयु क नही छे त्वारं परीने तेषणे पृष्ठयु के ते
 कन्धी वनाए नीकृत्ते? तणे कयु क दशा मायोना पर नीकृत्ते त्वार तेषणे नृपो योगेवरा मादयो अने
 तणे कयु हुतं व प्रमाणे त्वानो खोयो तेष छतां पाणी न नीकृत्तु एव तेषणे तेने नृपु के वेम हुतु पाणी नयी नीकृत्तु?
 त नृवा खोन्वारे पण पोतनी अजन्तनी सचाहं घारीने कयु के अट्टु रोपेत्तु वे तेदना जाणां सखी के अ

वडी द्वालो पाणे तेषणे ने प्रमाणे कयु एव्हे वृट पाणी नीकृत्तुं थयु वीत्रा आनायं कहे छे के एज रीते अजन्तना
 पाणे वरी ज्वीनषां रहेसा नियानने जोनार वीहं त्रामने वीहं पृष्ठयु के इहा अमां नियान छे के नहि? अमां छे
 ता कन्धी वनाए छे? त्वारं तेषणे पण पूर्तिना मासक नृपो खोन्वयो त्या नियान मेवरा छेत्ते तेषणे मृत्रया प्रमाणे प

निधानरूपैरागयो हेतुर्मिम्य यद्विणस्य ना पार्श्वस्य अयातरुपस्तादादिष्टेनैव प्रवर्ति-
तं यद्यं च निधानमिति पतत्यिदं पुनः ।

(मृद्धगाथा)—आसे रमिमयश्या—धम्मोपसहस्रधीरजायणया, अणो कुमा-
रगतणे—अस्यणजुयगटणमाहसु ॥ १२ ॥

(अभ्यपति कथा)—इह अत्यि समुद्रतने-पारसमूह जणाणुकूडगुण, एगो
अस्सादियई—तथासि विसाह विहवजुओ ॥ १ ॥ अह अन्नया हयाण—एगो
कुपदारओ कओ रस्यो, अदनिणविणयसपफणेण आणदिओ तेण ॥ २ ॥ त-
रस य धया अहरुअ-मणहरा तमि राय मणुपत्ता, पतणेइ जया तुह देइ—वेयण ए-

वश्य रथ के नेता गरग के अबव्य आगमा वाताना या रथो एतने निगान मत्री आत्यु ए उदाहरण हे
मृगाधानो अर्थ—अभरुअग्मा योचानो रवेवाळ वाळक अने अभ्यपतिनी दीहरी ते वानके जान परथी
धन्तस्यारके मज्जते वे योचानी माण्णी करी मीजा कहे छे के बीजा कुमरोए ज्यारे जाना योना द्वीया त्यारे कृणे
मज्जतुक पातयो योको अहण रथो १७

इहां ममुद्रता माने दोराने मानक आतने पाए माने मजानो प्रदेश छे, त्यां एक जारे पैसादार अभ्यपति
रहेथे हुणे १ तेष एखेला बोइ कुचीन वाळने योनाओनो रवेवाळ रागो तेषे अत्रिदाय मिन्य करे करीने ते
अभ्यपतिने गुण रथो २ ते अभ्यपतिनी एक अत्रिन्पवान दीहरी हुती ते ते ओमरा ठपर आदाक थइ तेने कहेमा
झानी के ज्यारे आ पागे एप नेने एणार बुकवे त्यारे तु गुन परीक्षा करीने ते योना मागेजे त्यां परीक्षा करवानो उ
पथ ए बतो के योना बत्ता होए नेगे ते योको नरुते नहि ते योको माणयो यारे ते बल ते ओमराए खुशीनी साके-

न भं ताओ—॥ ३ ॥ तद्दया तुम विमगसु—तुरय काउ परिसय मदविणण, कद्दि-
 था य पमुसाओ—वीमरंयु तुरगेसु ॥ ४ ॥ जो तुरओो सतास—नो वचर तरय
 य विमगंणु नंगावि पन्धिसुय तीद—ययण साणदियसणेण ॥ ५ ॥ वेयणधणाउसरे
 —रुं—यि परिस्सिण ड्जे तुरण, मो मगर तो नासद—अग्गाद्धिइदि सवणणय
 ॥ ६ ॥ णग्गि अग्गाण—सग्गे णा तुरगमा लढा, ता जइ णा गिण्हसि—ता स
 य रि न गिण्हसि ? ॥ ७ ॥ मो ताणऊ न सग्गेहि—पओयण मज्ज, चित्तिय ताहे,
 अग्गाविणण चत्तास—अरओो अग्गणनिट्ठाण ॥ ८ ॥ इत्तमवह एएसि—अ
 मग्ग एमग्ग वीपमट्ठ चिट्ठी, ता निग्गाराओण—गेह्वनामाउओो कज्जे ॥ ९ ॥ कद्दिय
 विणत्ताण—सा नउड तो नगाड हे मुठे, अग्गणजुत्तो एमो—ओोही मे गेहवुइदि-
 वसि ॥ १० ॥ गग्ग एग्गमुत्ताग्गा—चह उड्ड एग्ग वारणो सेरि, निग्गयूया मा

१ ॥ ३ ॥ तद्दया तुम विमगसु—तुरय काउ परिसय मदविणण, कद्दि-
 था य पमुसाओ—वीमरंयु तुरगेसु ॥ ४ ॥ जो तुरओो सतास—नो वचर तरय
 य विमगंणु नंगावि पन्धिसुय तीद—ययण साणदियसणेण ॥ ५ ॥ वेयणधणाउसरे
 —रुं—यि परिस्सिण ड्जे तुरण, मो मगर तो नासद—अग्गाद्धिइदि सवणणय
 ॥ ६ ॥ णग्गि अग्गाण—सग्गे णा तुरगमा लढा, ता जइ णा गिण्हसि—ता स
 य रि न गिण्हसि ? ॥ ७ ॥ मो ताणऊ न सग्गेहि—पओयण मज्ज, चित्तिय ताहे,
 अग्गाविणण चत्तास—अरओो अग्गणनिट्ठाण ॥ ८ ॥ इत्तमवह एएसि—अ
 मग्ग एमग्ग वीपमट्ठ चिट्ठी, ता निग्गाराओण—गेह्वनामाउओो कज्जे ॥ ९ ॥ कद्दिय
 विणत्ताण—सा नउड तो नगाड हे मुठे, अग्गणजुत्तो एमो—ओोही मे गेहवुइदि-
 वसि ॥ १० ॥ गग्ग एग्गमुत्ताग्गा—चह उड्ड एग्ग वारणो सेरि, निग्गयूया मा

उल्लेखेण—तस्स दिव्वा पर गेहे—॥ ११ ॥ न करेइ किपि कम्म—अरुणीइ गओ
 विरत्तओ एइ, ग्विसिज्जइ नजाण—तमकिचिकरो कह दोसि ? ॥ १२ ॥ उट्टे मा-
 से लच्छ—त दारु सद्धमखण हवइ जत्य दम सय सहस्समुल्लो—कुरुओ वडिओ य
 सो विहिणा ॥ १३ एगस्स धन्नवणिणो—दिदो लच्छ जहिडिय मुय, तस्स गिह्हे
 तेणेगा—जाया तस्साणुच्चावाओ ॥ १४ ॥ एव दमयणजुत्ते—गिह्हे पविठ्ठमि नइ-
 ढइ कुवुव, दिव्वा नियया धूया—दमयणजुत्तस्स तस्स तओ—॥ १५ ॥ अहग नार-
 वईए—पुरीइ कएहमि रज्जमणुपत्ते, कइयावि अस्समाणिय—इरयाओ किणित्तमाड-
 ता—॥ १६ ॥ हरिणा कुमरोहि तथा—तुरया, कुमरोहिं तरथ थनतण, षण्, विन
 वन्नवतो—कल्लिज्जणगीरया तेउ—॥ १७ ॥ कएहेणेगो अइडुच्चवोवि गदिओ सन-

ए पोतानी दीक्षी आपी षण् ते वस्सा इइ काम करे नहि अने जगन्ना माप नो ज्ञाने द्वाय आरे त्पारे त्ती गी ५-
 ण तेने उपसो देवा दागी के तु शा माटे आये आरित्तर (आळसु) एइ रहे छे ? ११—१२ हुने तेणे (अरुणी
 मा जमतां जमता) ज्यां दक्षिणवत्तं द्वाण्डु हुतुं त्यां ते छेते माटे पेठ्ठु अने त्पारो तेणे एरु माण म्प्योत्ती विधि नमा-
 णे एक थानो यन्ती १३ ते तेणे एक धायना प्पेरीने आपीने थारेडी हीम म्पेरी अने ते प्पारोना माये ते गणि-
 याना वर ष षा गमन्था एइ पट्ठा १४ ए रीते दक्षिणवाळी चीज पम्मां पम्मां तुदुम्मी टुद्धि थाल छे (ए रीते तेणे
 पोतानी धान सपन्नाभीने) ते दक्षिणवत्तं छोराने पोतानी पुत्री पण्णावो १५ अथय द्वाक्किमां ज्यारे भी छुत्त गण्य
 गादी पर वेत्ता न्पार पर वेत्ता वेइ पोताना त्पारी पांत्थी कृप्ये तथा तेना इक्कोए पोसा म्पेरीरस गीन्था त्पारी एकोए

अथ एते त इह समाप्ता—नान्ति क्वहेरिसो गच्छिओ ? ॥ १० ॥ पञ्च-
 णिय अट्ट हरिणा—अह कज समथओ इमो न इमे, अद्देविषि यद्दण—इमेसि सं-
 पायगो होही ॥ १ए ॥ अस्समइणो हरिस्सय—पयुयुव्हीइ त्थिमिय णय, न सो-
 धरजाभाया—अस्सो य वसित्तण नीओ ॥ २० ॥ इति

अथ गाथाकारार्थं—अथ इति छारपरामर्शं—रमियसि—रद्वतोश्चरङ्का
 वान् दारक—थयत्ति—इद्विताचाश्वपेरेय—तत्रैरित्तेन च तंन—धम्मोपत्ति—
 धमोपत्ते कुतपमचङ्गिसपापाणवकरूपैकान्मुक्ते—धीरत्ति—धीर्योरत्तन्मयोस्तुग
 योत्तनदानकाने—जायणया इति—याचन इत शेषन्तु प्रपच उक्त णय—अन्ये—
 इमारगहणइति—कुमारे शानादिति स्थिताश्वप्रहणे सति त्रिणुना यहाङ्गणयुत्तम्भा-

न चासा गरीचाञ्ज वासा हुना तेस्से उट्ठत धारीन ते म्म या १६—१७ डी छुणे तो एक ररगे णय मन्मणो
 यासा व्हीओ त्थार कुवो तेना तरफ इमवा यसा कन्था ताग्या के आतो गोसो केप म्मरोगो ? १८ डी छुणे ज्ञात
 आण्य के नाम वरी शके तेवो आ न वे १९ पेना नयो, तेवम आ वती एना जेसा वीजा णय यणा घोडा वानी
 आप्तार धा १ए आ रीत अथपति तथा धी छण्णी वैमिक्खी बुद्धिसो त्थिाम वे के जेयो पेनाण यरुणाए तथा
 यासा यत्र पोत्तान वरने राग्या २०

एवे गावानो अइसरुवर्ष ररीप छीप—अथावदे छार गन्तारुं रक्क एट्ठने घोदाने सजातनार उरमे यथा
 एत अथत्तिनी न नीररी तेनी प्रेरणाधी वे छेतसाए म्मणां धर्मना परथरा जरीने ऊरु परधी पन्ना मेनी क्या वे
 यासा नदन्त्या नधी ते शाधी त्पने प्पासला यत्ते माग्या वारुनी चत तो वथायी म्हीम डे वीजा आण्यार्य शाप

श्वस्य दुर्वक्षस्यापि ग्रहण कृत—तदाहुदृष्टाततयेति

२ ॥

(मूत्रगाया)—गह्वरतरुणो राया—तप्पियबुद्धाण दसण कम्मगे, पिइजत्त-
णया वसणे—तिसाइ खरमुयणसिरसद्धिन्न ॥ १३ ॥

गर्दन्न इति छारपरामर्श—इह तरुण कश्चिज्जाजा—तप्पियत्ति—ते तरुणा
प्रिया यस्य स तस्त्रिय—अन्यदाचासौ विजययात्राया प्रचक्षित ज्ञणितश्च तेन स
वोंपि लोक—यथा—बुद्धाणदसण कम्मगे इति—मदीयकटके यथा वृक्षानामदर्श-
न जवति तथा जवद्धि कर्त्तव्य—वृक्ष कोपि नानेतव्यो मदीयकटके इति ज्ञाय—
तथेति प्रतिपन्न च तै गतश्च सपरिवारोसौ विजययात्राया—पिइजत्तणयणत्ति—पित्त-
जक्केन चैकेन कटकवासिना नरेण पित्तुत्तस्य नयन कृत कटके—यसणे निसाइ
वारे बुमारोए जाना याना खरदत्ता विष्णुए जे दूम्भो पण दक्खणत्त योमो खरीधोत्तु दृष्टत इहा आपे छे

(मूत्रगायानो अर्थ)—गर्दन्ना छारमां तरुण राजाने तरुणो ज मिय हता तेयी तेणे वदरुसमां वृद्धो न देयाप
तेम हुक्कम बर्यो छता कोइ पित्तजक्के वापने साये छानो रायो. नद पाणीनु सक्र पन्तां तरसना बवते ते बुद्धाप गणे-
माने ब्यो मुक्खावा पाणीनी सीर शोधी आपी. १३

गर्दन्नशब्दे छार याद बर्यु छे इहा कोइ युवान राजाने युवानो ज मिय हता. हने ते एक बलने विजययात्रा नीरु
द्वयो स्तारे तणे सयळा लोकाने हुक्कम कयो के मारा ददकरमां जेम कोइ बुद्धो न देलाय तेम तमार करु, मतस्य के युवाने
माग ददकरमां नहि आपणत्ते तेमणे ते बात कळ्ख राम्बी बाद ते परिवार सहित विजययात्राए चाख्यो त्यां कोइ एक

इति—अन्यदा च तथा। अधावज्जन्मितारागतस्य सन्यस्य दिनप्रहरहरसमये तु
 सर्वाधिनि व्यसने आपतिते सति राजा तास्तरुणान् पप्रच्छ—यथा—आकर्षयत नो केना-
 प्युपायेन सजना शुभसमगम्य जनमिति ते च तमणत्वेनापरिणतमुच्छयो न जानति न-
 द्रुपाय ततो वृद्धगम्येपणा वृता—नोपन्न-ध्व केनापि कोपि—तत पट्टप्रसादनपुर-
 स्तर समुद्घोषणा कारिता—यथा—आगत्य कोपि वृद्ध कथयतूपाय ततस्तेनानीन
 जननेन लुप्त—आनीतश्च तत्र पिता—तेनापि कथित यथा—परमुपयुक्ति—गरा-
 न् मुचताटवीमध्ये—यत्र च ते उस्तिघन कुंति तत्र स्तिरति सिरा प्रतीतख्यापन् स-
 चवति कृत च तयैव—तदनु सोत्तेजमुपजब्धमिति अन्ये तु व्याख्याति ते गर्दजा-
 स्तामडुस्तिघन कुंती गडति यावन्नीरपरिपूर्णं सर सम्रासमिति

पितृवक्तृत्वात् बापने धनी रीति सम्यक्त्वात् द्वीयो शब्द एक वेदा कौड निर्जस अन्वीर्मायी पसार यथा सदनले यो-
 र धर्ता तसस्तु सम्यक् आरी पन्तु त्पारे राजा ते युवानोने वृत्तवा द्वाभ्यो के चत्ता माणसो, कौड एव उपयवने पाणीवाडी
 जमीन शोधी चट्टानीने पाणी रेंची वागे हवे ते कथा तस्य दोषावी वाचो बुद्धिवाया होवायी कड ठपप्य जाली ज-
 स्या नहि त्यो बुद्ध्यानी तप्राप्त करावी, छतां बोदने एव बोड मुदने पय्यो नहि त्पारे पनो कानवी उदयोपणा करा-
 ची के बोड एव मुदने आरीने ठपप्य कवाचो त्पारे जेणे बापने साये आणयो हुतो वेणे ते पनो जिबीने पोताना बापने
 त्यां आणयो तेणे क्यु के गपेनाओने जगत्तर्मा फल्ला मूले छने तेओ ज्यो जमीन सुण्यो त्यां पाणीनी सोर हुजे, ते
 सांमळी तेण्यो तंय कडु पडते पाणी मळी आल्यु बीना छेदा पदनी एम व्याख्या करे छे के ते गपेनाओ त्यां मूधी जमी-
 न सुयता चाख्या गया के ज्यो मूधी पाणीची ज्येव तळाव हाथ सायु.

(मूढगाथा)—द्वक्खणराये देवी हरणे सोगमि आदिहे चळणा, उवरि ए दिट्ठजोगो—अस्थित्ता सासणे चव ॥ १४ ॥

(कथा)—ओज्जा उरीइ दसरह—राया रघुवसनदणो आसि, अच्चब्बुय- नियचरणा—वज्जियसुरअसुरखयरपट्ट ॥ १ ॥ तस्सतेउरसारा-तिष्ठि अन्नविंसु पि- ययमा रम्मा, कोसट्ठा य सुमित्ता—तहावरा केकई नाम ॥ २ ॥ जाया तिष्ठि पहा- णा—तासि पुत्ता कमेण ते एए, सिस्सि रामो तह लम्बणो, य जरहो य नय निउ- णा ॥ ३ ॥ तो दसरहराया केकईइ कइयावि तोसिओ सतो, देइ वर, तीएविय— समए मग्गिस मिइ जणिओ ॥ ४ ॥ वयपरिणामे किञ्ज दसरहेण रामो पयमि नि- ययमि, आढसो उवेउ—तओ वरो मग्गिओ तीए ॥ ५ ॥ जह जरहो मंज्ज सुओ

(मूढ गायानो अर्थ)—द्वक्खण घारामा रामचद्रनी राणी सीताहु हरण थयु. याद ते मत्री स्वारे रामे तेने त्याग करी ते क्लेते तेनी शोस्ये सीता पासेयी राखणा हाथ चित्ताव्या. सीताए कयु के एण उणगत में कइ जोयु नयी माटे वीचु चित्तरी शकु तेम नयी. छवां शोस्ये तेनी गारज वतायी १४

(कथा)—अयोध्या नगरीमा रघुशयी दशरथ नामे राजा हुतो तेणे पोताना उत्तम आरणधी मुर अगुर तथा खेचरना इदने खुद कर्यो हुता १ तेना अत पुरमां तेनी शण राणीओहुती एक कौशल्या, बीजी सुमित्रा अनें श्रीमती केस्यी २ ते शणे राणीओना अहुदमे राम, लक्ष्मण तथा जसत ए नामे त्रण न्यापवन पुत्रो थया ३ हवे एक बेळा के कपीए दशरथ गज्जने खुबी करवायी तेणे लेने बर आथ्य स्वारे लेखीए कइ के आबसरे ते धामीका ४ कव

—ईरिउ रागा, विनस्यत्रो जात्रो—राया, विस्त्रायसिण—रामेण विणयसामेण
 ॥ ६ ॥ पायप्यणामपुञ्ज—जणग विन्निमइ ताप सच्चगिरो, त होसु, यणविहार—का-
 इ मइ चस्यणसहायो ॥ ७ ॥ सुयसद्धोवि राया—अणमुनाय मणे अचमा-
 णो, अणुमन्इ सुयसिरेहे—सुन्न मन्नतयो पुहनिं ॥ ८ ॥ चद्धिया दोवि कुमारा—
 मीयामद्धिया दिमाइ जम्माण, अद्गस्य रणरणय—जणयता सयज्जनयरीण ॥ ए ॥
 पना मरहइयमकनमि गहिरे यणतेरे तस्य, सजाया वळठिई—द्विमगिरिणणे मइद्वय
 ॥ १० ॥ फनकुञ्जइचोयण—स्याण निञ्जरज्ज पियताण, चितताण सहलत्त—स
 यणो यणगणिणयात्रो ॥ ११ ॥ परउयारे चित्ते—तहा तथा निच मायरताण, सी
 याविन्डियमरीगडिंण सतुट्टचित्ताण ॥ १२ ॥ उच्यति वामरा ताण—जाय, इकाहि-

य गणो दसने गणने पोसती गरी आता बांदी न्यारे केगीए तर पाणुं के—५ पाता दीरा चरमन राय आपो
 म्या म्हाण गता धारा पन्ने के वन विणयी म्या अपचउता नाणयास आत्ती ६ लारे रामय विताने एते जणी
 विनाय साया व इ गान, मप त्वाया वात पासो, अने इ सइमणने गान गनी त्वाया मरीग ७ राजते रापय
 या वीवि एतां गण बीने वर उयाय नदि गदनां गणे के याय चवृत्त रागी; उता पुयेना विगदुयां त्ने पूव्वी गुण्य जेनी
 नाया रागी ८ एव चपु त्वाय मीकांने मय सइ इण्णि दिगा तरक खन एया लारे नारीना योक्त वहु जारे दित्त-
 नीर यथा साया ९ म्हाय जाकता पासता मद्दाणय देवया एक गहन अग्नीवा आत्ती पद्धोया लो केमणे अय वहे
 ता हाती दिपातायां इ अय विनाय कया बांत्तो. १० न्यां वेओ ११, वुन तथा वट्ठुओ आहार कला अने
 नीयगणुं पागी वीथ इय १२ गाना विनय गावगीं पोसने तुम्हारे मात्तय इय १३ गती ह्येगं तोदुया पां

वेणं तो नाथं, पुर्विर्विषियं सीयाँएँ—आरूढदढाणुराएण—॥ १३ ॥ जह रामो जण-
 गनिवगयाइ जुत्तो वणिसि परिवसइ, पारद्धो तग्गहणोवाओ ढलचारिणा तेण. ॥ १४
 ॥ कथइ समए अइवाउढाण तेणेव तेसि विहियाण, पुष्फगएण सा रावणेण ढका-
 उरिं नीया ॥ १५ ॥ नियजाणमागया जा—ता ते सीय कहुँवि न निचति, सब्व-
 स्सवचिया इव—सेगं च पराभव चं गया ॥ १६ ॥ सुग्गीवसहाएहि—हणुवतचरो-
 वढाढुत्तता, गतु ढकानररिं—सवधवो रावणो निहओ ॥ १७ ॥ उवढाछा जणग-
 सुया—तिवतुसमित्त अखन्नियारा, चोइसवरिसाणते—समुवजियपोढजसपसरा ॥
 ॥ १८ ॥ उज्झाउरिं चं पत्ता—परढोगगएण विरहिय पिण्णा, ञरुहेण निरवज्ज—
 परिचिंतिय=रज्जकऊ ते—॥ १९ ॥ जाओ रज्जनिसेओ ढमखणकुमरस्स रामणुढा-

पवार बरला रहुँता अने फक्त सीताजीज तेपनी शुश्रूषा देतां उतां तेओ घटा सतुए जणाता हुता १७ एम तेआ दि-
 वसो पसार करता हुता तेगामां ढकानो अधिपनि रागण के अ प्रयणधीज सीता ऊपर राग धरतो हुतो तेने मावम
 पन्नु के—१ सीता साथे राम वनमां रहुँ छे तेथी तेणे तेने व्याग जो-ने हरण करवानी युक्ति रचया मांनि. १४ एक
 वेडाए तेणे ते बने नाइअने अति व्याकुळपणामां नाबी सीताने फकनो पुष्पविमानमां जगान्नी तरुामां आण्णी १५
 हुवे रामनइमण पोताना मुवाये आधी जोया दावया तो कोइ रीते सोतानो पत्तो न दाव्यो, त्यारे जाणे एकदम क्या धन-
 माताथी दूदया होप तेम शोक अने परानव पाय्या १६ याद दुमुमान नामना दूत पासेथी चातमी मेळवी सुग्रीवनी सहा-
 यथी यकामां जइने तेपणे नाइजाइ सद्धित रावणने मायां १७अने तेम करीने अखलम शीझयंत सीता पाजी मेळवी एम

ए, रजसुह मणुरयाण—जा जति दिणा सुहमणाण—॥ २० ॥ अत्रिगणय—चलि
 णणय—ताहे लोपण जणगतणयाए, आरोवित्रो महतो—सीनमनत्रणास्यो अय-
 सो ॥ २१ ॥ जहा परमहिवा डोनमणे—सज्जल्येसुनि विरुद्धमचारे, कट्ट राणमि
 तग्गिहगयाद सुदसीत्त मेयाण ॥ २२ ॥ नियजायासुइजान—रामो जाणतओमि
 जणयाया, किंचि अचत्त दसेइ—सा गया चहु तओ सोण ॥ २३ ॥ अत्तेउरम
 उजगया—अहद्वया मअर उहतीए, होउ एए सारो इय—चित्तीण सनत्ती
 ण—॥ २४ ॥ चणिया दहे स राणराया क्खेण विजियेत्थुमि, इय उहइजाण-
 नाओ—ता नित्तसु स केरिसो आसि ॥ २५ ॥ निययाणुमाणकप्पियपरासओ म

पया इता अन गतजान रन्ही रीने जसत सत्ताळतो हुतो १ए गं रामानीना इरुमयी चरुमणुमारं राग्ग्यानी
 ए राग्ग्याना आया ए राग्ग्युग जोगतवा तेने आन्दमा दिलो जवा नाया २० एयां त्वा आळ तमाव-
 तां रत्तान एवा बोचैए सीतानी उपर शीत्रयी अष्ट बत्तने मोने अपत्ता उरात्थो २१ तेओ एम सत्ता नाया के
 ए मीमां नए अने रथी गानेमां ऊया गान्नार राणना वरे रहन्ही आ सीतातु पवित्रणुं शी रीने रहे ? २२
 हे रामएड शीतानी मीतु पवित्रणु अदरयी समज्जा इना तोपण लोरोपगद्वी मरीने उहारायी वइक अक्का दशा
 या नागा तेयी सीतानी जारे शोक्का पन्था २३ हुवे अत पुरमां रहनां धमां सीता उपर मत्तर बलारी गोमे
 नाग्गमां इार नावयो डीक पत्तो एम पित्ती तेथीने वगु के अत्ती, राण म्ये वरी त्थे लोत्तने जीत्यो छे एम नो
 नेमां वान ताते छे मोरे तुं तेलु निव वरी वान के ते केवो छे ? २४—२५ हुवे एरी नहेस छे के लो बोइ पारक,

गमणसुखतीर्—तीर्ह त्रिहिय पयाण पन्निंम, उवरि मए न दिट्ठो—अथो न जाणे विमागारो ? ॥ २७ ॥ त पन्निंम सगोत्रिजण रामस्स दसिय तीए, अज्जवि इमा न त पइ—पन्निवय मुयइ इह पेच्छ ॥ २८ ॥ सीयाउवरि रामस्स विष्णिय तीइ सज्जण नीण, किन् वेणइया वुद्धि—तेणोवाएण सच्चधिया ॥ २९ ॥ एव रामायणसकहाइ अइवित्थरेण पत्तत्त, तो तत्तो विन्नेय—तयत्थिणा सोवओगेण ॥३० ॥ इति

अय गाथाइतरार्थ—उद्देशनाकल्पयोरिति वचनात् लङ्कयत पश्यतो रामस्य सीतात्रिगितचक्षण—प्रतिर्विव यत् सपत्न्या प्रयोजन कृत तद्वृत्तमिल्युच्यते तत्र च रामे इति रामदेव तस्य च देवीसीता—हरणे तस्या रामेणोपाहरणे कृते प्रत्यागमने च

ब्राह्मणेने जेम जेने तेष पानेना अनुमाने कस्ये छे तेथी नीच माणस नीच हाणे जे अने मोग मनाज्जने मासे माणम मोग मनवाजो हाणे जे २६ आ कहेइजने अनुमती तेणीए राणना पाहु प्रतिर्विव चिचुं अने योनी ते ण उपगत उपा तो मे जेएव नयी मांटे ने केयो जे ते हु जाणती नयी २७ वद ते शोस्ये ते प्रतिर्विव बुपी रीते रामने शवायु के एउ पण सीता रावणना उपरथी मन उतास्ती नयी २८ एम सीता ऊपर रामनो मनफेर करारामा तेणे पानानी रान यको बुद्धि वापरी २९ आ कयी वात रामायणना कयाथा अति विस्तारे कहेइ छे मांटे तेना अर्थीए ध्यानपूर्वक ते रान त्यावी जाणी नेत्री ३०

द्वेषे माधनो प्रह्लादार्थ बरे छे—द्वन्द्व धातु जोरामा तथा आरामार्थ जाने छे तेथी द्वन्द्व करता पदने के जो मा रामन रानेण विवेकेस फलं प्रतिर्विव जे तेनीनी भास्ये बवायु ने सकुण जाणु त्या राम एते रामचद्र तेनी देवी

श्रीकायवाक्येन रामेणोपाहारार्थ उतावा मोगे थ सपत्ने कवाचित् सपत्नी मनुका स्त्री ता—आजिहे इति—आजिहितवती चरणौ—उपरि पावमदेश्यात्

ज्ञानमपमदन्त्येन रामेणामजाया वृताया शोके च सपत्ने कदाचिद् सपत्नी प्रभुक्ता सी
 ता—आनिहे इति—आत्रिगन्तमती चरणौ रामणसमधिनी—उपरि पादप्रदेशाद्-
 ह्यं न न्यो मया अमान्त्रिययोगो नेमनस्य सीतया वृत्त तत सपत्न्या लन्ध्रुत्रिभ्र-
 या—अस्त्रिनामामणेत्रेचि—अर्थिताया अर्थित्वस्य शासना कयना च समुच्चये एव
 पादाने—वर्जन्त्यायेन वृता अत्र च अर्थिताशासने व्याख्यातेपि अस्थिता सामणौ
 इति य पाठ न प्राट्टननङ्गावशात्

नञ्च—नीया ज्ञोग मभूया य—आणिया दोषि विदुदुज्जाया अत्य न्हति
 यन्त्रिग—नो गर्पि पुत्रनिन्दित्रो ॥ १ ॥

(मृद्गाया)—गच्छी मुकुरगूढ—मुत्त समदरु मयणमदो य, पात्रित्त मयणगा
 एव एव गण गण दग्ग वई वाट न गगल आगतं वातराहनी वीरुयी रावे अत्रहा वरी एव्हे केणित्तेनेक
 एव एव्हे इदं गणगतो वाग्यथो मीरग गागला एव चित्तं अने एतु के पायी उतर ये ज्ञेएय नयी तेयी तेणे
 वाग्यथो निर नदि निरई वाट न एव वाग्यथ न पत्ता मयण्ट वनवी वरुं के हतु एव ए वाग्यती एव गणगा
 वर ए इत " वाग्यथान " ए वाग्यथ वरुं वाहृत्तन " अन्वियगणाले ' एवुं ह्य वाग्य केला वरुंसे अस्त्रिय
 वाग्यथ एव ह्य वरुं के न आहृत्ता वाग्यथो चित्तित्तान्त सीर ए
 वाग्यथो एव वरुं ए व विदु (उदुत्तर) अने इत्तं एव वाग्यथ न होए एव आणया होए
 एव एव अथ एव न ई इत एव वाग्यथे व वाग्यथ इदं ए.

(एव गणगा अथ)—इतिग वाग्य मं दग्गानं एव एववाट्टं गुर, एवगी केथी वाक्यी अने पीगने

सण-इष्टी=तर लायुसिख्यण या ॥ १५ ॥

(व्याख्या)-अथिरिति छार-स चात्र गूढाग्रसूत्रपिरुद्रङ्गणो ग्राह्य-तत्र पा-
रुविपुत्रे नगरे मुरुनो नाम गजा-तस्य कुतोपि स्थानात् कैश्चित् ज्ञानिनमात्मानं म-
न्यमानैर्मुक्रुताजपरिपत्तरीङ्गार्यं गूढमिति गूढाग्र सूत्र-समदरुत्ति-सम समवृत्तो
मूने उपरि च दरुफ --- मदनवृत्तश्च मदनज्ञेयोपद्विसवृत्तसमुद्गकश्च प्रेषित इति
दर्शिनानि च तानि तथात्रिधोविदाना न ब्रह्म तत्र तत पादद्विसपाचार्यस्य तत्र
पर्यायात् कृतविहारस्य दर्शितानि राजकुलागतस्य ---तत ---पाद्विचत्ति---पादद्वि
साचार्येण---मयणगालणत्ति---मदनगानना गूढसूत्रे उष्णोदकेन कृता, तत सूत्राग्र-
मुन्मीचित ब्रह्मोत्तरत्ति---यष्टेर्नदीजले प्रमद्वति तारण कृत तत्र यो ज्ञागो गुरुतर एव

गर्भो योत्रयाज्यो नण पादविमयुरिने यावता तेमणे मीण गलावी सूत्रनो वेमो शोधी आय्यो, दारुनीनि तारी तथा
तुरचने तारीक रीत सीवमाव्यु ३५

(गणनी व्याख्या)-अथिद्वारमा गूढ छेनागला सूत्रनी दनी द्वेती ते ए रीते के पादत्रिपुत्रपा गुरुद नामे रा-
ग दनेो तेना उरर वास उरगणेधी रेदक पोयने दुगियार मान्ना दोवोए तेनी सजानी परीक्षा करत गुण छेनावाकु
गूढ तथा मरवी रीते गाल उरारेव व्यारनी तथा मीणना ज्ञेपय) द्विपिनो गेळ दामनो मोत्रवाव्यो राजाए ते केटनाक
तेरा पदिनेन उरव्या एण बद्द खुवास मय्यो नदि एवामा पादद्विसयुरि विहार करता त्या दरवारमा आव्या तेने ते न-
मय्या उरारे तेमणे गूत्रनी दमिने गम पाणीमां नववावी एने मीण दपेटेनु दवु ते गळी कतां यत्रनो छेको येळनी ठ-

नहुद्रुक्ति स मूत्रमिति ज्ञात
 मदनवृत्तगोचकश्रालुणो जले निद्रिय मदनगाननेन व्यक्तीवृत्तघारदेश समु
 द्रयादित —स्य च—ज्ञातुसिन्धुणया इति—अद्विच महाप्रमाणमेकमन्वानु ग्रहीत्ता
 सूत्रा च राजिरेगामुत्पाद्य मध्ये रत्ननिद्रेष वृत्त —ततो जेनशास्त्रप्रसिद्धचोरेमेन्या
 स्यूना—नणिताश्च ते यथा—“ एतदज्ञावु अत्रिदारयत्रि रत्नमद्व कार्य ”—न ग-
 क्तिश्च ते मोर्ष सपादयितु प्रस्तुतमुठिनिश्चेरिति ७

(मूत्रगाथा)—अगण विसरु जयमेत—वेजसयेव हस्थिमीमसा, मत्तिप-
 निमममग्रगण—दिष्टे पजा पउत्ती उ ॥ १६ ॥

श्री आनी तथा दावदीने नदीना रहना पानीवा नांवी नारी शोद त्या जे जाग जोर हागोची रसारे वृढ्यो ते ते
 नु मूत्र उ वय गोत्री आयु—
 एत पीणथी नंदतो नस्वो अति गम पानीमा नागी पीण गजगी तेनो उयाद्वनतो प्रेश एच्छो करी
 जगादी आयुो व काय मगामां पते एव मोद काणा सगुं नूदं तद तेमां एक ग्रीणो राप पानी तेमां ख नागी
 दी ! बाद नव शागमां र्णसि दुपी निसादधी ते राप मीरी द्वीयो यद ते बाणगाने पं मगामी मोम्युके आ
 नूदं पाटय मोटय राप त्पार र्णांची ख च्हादी केतुं; एण तेओ आ नैयिक्ती तुद्विधी विरत होगोची प गान
 वी रागया नदि
 (मूत्र गाथानो अर्थ)—अग्रदृष्टामां विनो रर पाट्यो त्यां शोद वंघ एक यय जेम्यु त्तिप द्वाव्यो तेणे ते

(अन्तर्गा)—अगद इति छारपरामर्श—कश्चिद्वाजा निजपुरोपरोधकारि प-
रम स्वदेशात् प्राप्त श्रुत्यान्योपायन तद्विप्रदहमनीक्षमाणस्तदागमसमार्गजद्वानि वि-
येण ज्ञाययितुमिच्छु सर्वत्र नगरे—विस्फरति—विपकर पातितवान्—यथा पच-
पयरादिप्रमाण सर्वेषामपि मम ज्ञानागारे विपमुपबोक्नीय

ज्वमित्ति—यस्मात्—विजति—कश्चिद्धेयो विपमानीतान् कुपितश्च
राजा—“ किंमम मदाज्ञानगोकारी सवृत्त इति? ” स त्वाह—“ तुव्वस्याप्यस्य दे-
य—सयमेत्ति—शतमेथ आत्मन शकाशात् उपद्वङ्गणत्वात् सहस्रादिगुणवस्त्व-
तरम्य च वेथ आत्मना परिणमयितु शक्ति समस्ति ”—ततो—दृष्टियवीमसत्ति—
दृष्टिनि द्वीणायुपि पुञ्जैकवाञ्चोत्पाटन कृत्वा तस्मिन्नियोजनेन विमर्श कृत—

योग्यु वम री शने एम युवच्यु पञ्जी नेनी हाथी पर अजभायस करी. मत्रिए ते पिणु प्रतिपङ्की औपथ परत्वी
जोयु अने ते वादने विप वापसु २६

(व्याख्या)—अगदगदरथी छारयाद कर्तुं अ. त्या वात ए छे के कोदक राजाप पोमाना नगरने चाननार शानु ल-
द्वार पोमाना दे उपर देहद माज्की बीजा कोद छापयथी तेने हरामरातु नहिं सुगता तेने एम निचार थयो के अे रस्ते
ने अने उ-^{द्वारा} ^{आसु} ^{द्वी} ^{विपरात} ^{द्वी} नायवा, तेवी तेणे आवा गहेरमा पिपलो कर पाड्यो एटने क जणायु के पा-
च एम पषाण विप सपय लोदेष माते पनागमा पहोचतु वरतु

अने को-क तेथ वल कर जेउसु निर सह आच्यो एटने राजाप गुममे थद तेने वसु के वेप ते मारी आझा-

नम्र च तद्विषय क्रमेण हस्तिनमन्त्रिजिवितु मन्त्रिणा योग—“ प्रविष्टागद...
 निवर्तस्योपथ किं विचिदस्ति न वेति ? अस्ति चेत् प्रयुक्त ” प्रयुक्त च ततो यार-
 छिपेणाभिभूयते तानत् पश्चात्प्रयुक्तैर्नोपेन प्रयुणीक्रियते एव दृष्टे विदमामर्षं प
 श्रान्मन्त्रिणा प्रयुक्तिन्तु प्रयोग पुनर्न्यापारणतद्वृत्त एत -अत्र च त्रैलोक्यी युद्धि-
 न्मन्त्रिणा दृष्टसामर्थ्यं विषय व्यापारितमिति

(मूत्रगाथा)—गणियारहिए एव—सुभोससद्भिति ग्रननदगुणं, रहिणा
 अमनुजी—सिद्धयगणदुकरया ॥ १७ ॥

(स्त्रिजिन्नक कथा)—इदं नममनदकाते—कृष्णगमसमि आमि सुगमिद्धो,

ना अस्मीकाग वती ? ते योक्तो के महाराज, ए योक्तु ते एतां एनाथी सोणणी सत्ते हृत्कार के नागानी भीती वन्तुने
 ए पानाना जवी करी गृहे छे त्वार रानए एत उद्दग हृथीना गृत्तलो गठ उर्वेन्तरी ने रिप गं तगती जार्पं ड
 ने रिप न्याथी गन्तीन हृथीना शरीर्यां व्यापवा गणु त्वारे ते राजाना मत्रीए म्नु रे ए रिपलो पत्रा उत्तार रर ण
 अंगण का ने के केय ? अने ते होय तो ते पण गपरी वना त्वारे दे ते गपरी म्नायु तो अन्ता जगर्मा रिप म्नु
 हतु सन्मां न अंगणथी पावु उत्तरी गणु त्वारे ते विप मत्रीए गपरा मन्नु इन्नां मत्रीए त रिपु गामर्षं शु
 डे ते गपमी जोडने ते वणुं ए क्तगिकी बुद्धि जाणवी.

(मूत्र गाथानो अर्थ)—गणिवरा तथा रणिवन्तु पत्नी एक उदाहरण त्वां मुञ्जोंग गणिवरा श्रुटावत थर म्युत्त
 चरना गुण मशमती त्वारे रथिके आगनी हुवी वामी वतावी एत्ते मुञ्जोंगए ससवना गता एव नात्र करी गताया
 एसां शी दुखरता छे ? १७

सयसरात्रचक्षण—गुणात् सयडादागो मती ॥ १ ॥ तस्स पहाणकन्नत्तमि—डुष्णि
जाया सुया सुयपरिचा, सिरियल्लन्नद्वानामो—पढमो वीत्रोय सिरिउ त्ति ॥ २ ॥
जम्मा य जम्मवदिन्ना—चूया तह भूयद्विन्नया नाम, सेणा वेणा रेणा—तह सत्त
दमात्त थ्याओ ॥ ३ ॥ एयाँ कमेण इग-दो-त्तिगाहि वाराहि सुणियगहणसहा, जि-
णयणरत्तचित्तो—एगतेणेव सदाद्धो ॥ ४ ॥ तत्थत्थिय जरुई नाम—माहणो सयद्ध-
विष्फुनकेऊ, अछत्सएण सिद्धोगाण—नद मुवचरइ सो निच्च ॥ ५ ॥ राया सग-
नालमुह—पामइ मिच्च मिय मुणतो सो, जा न पसंसइ एसो धि—तस्स न पस-
न्नओ द्दोइ ॥ ६ ॥ तच्चज्जाए सेयापरायणो सो तत्रो द्दढ जाओ, जणिओ तीइ
किमत्थ—तमेव माराहिसि ममत्ति ? ॥ ७ ॥ परिक्हिए सञ्जाने—तह काह जह

(स्थानच्छत्री कथा)—नम्रा नन्ना वाग्ने कपकपत्रीना यगमां सो मतानना मारणे तेवा नापथी प्रसिद्ध थ
एवो शाग्यत्त नाम मत्री हतो. १ तेनी मुख्य स्त्रीना पेश्थी य विद्यास पुत्रो थथा हुता जेपाना एरुत्त नाम स्थानच्छत्री ह
तु अग्ने रीजातु नाम त्रीयत्त हतु २ तेषन्न यत्ता, यद्गदिता, चूता, चूतदिता, सेणा, वेणा अग्ने रेणा ए नामनी सात
दीपरीओ हुती - तेओ अनुग्रये एक रे नण अग्ने मार जे सानत्थी ते ग्रहण करी देती, अग्ने शाग्यत्त मत्री पोते
एवाने जिनरानमां एक हुतो ४ तथा सो नामाणोमां पमायन्नो सरच्चि नामे नामाण हुतो ते हुपेन एक सो आत्त नमा
श्रेक एती नयगजाने अर्पण एत्तो ५ त्पारे शकमान तरफ जोसा वाग्यो, पण तेणे तेने मिय यात्त नोत्तु धारी प्रशम्भु
नदि एव्ये गजा तेना अपर तुपमान नदि थयो ६ त्पारे वरुत्ति ते मत्रीनी स्त्रीनी सत्ता करवा जाग्यो एत्ते तेणीए पु-
एत्तु रे तु शा पाए पत्ते मने डे ? ७ वरुत्तिए वरी हुकीकत्त बह्नी जणावी त्पारे ते बौद्धी के डु हुवे तेम करीव के जे

पमसा एतो, इय पन्त्रिज्विय तीण—नणिओ जत्ता किमथ त—॥ ७ ॥ न पमस
 मि गरुन्त्र—साह एमोपि मिञ्चसिय काठ, अइनिञ्चधुमच्छो—सहिजाण कारि
 ओ रणि ॥ ९ ॥ आणदिणे रायपुरो—वररुणा गाहिय निय कन्, पामहिओ
 अमओ—ताण् अन्तो सुपडिय नि ॥ १० ॥ तो अट्टयय रता—दीनाराण दया
 निय तम्म, जाया पद्विस्सनिय—एत्तिमिन्ता य से रिचो ॥ ११ ॥ अरयमयय प
 नाटय—नणिय समञ्चण देव कि मिमस्स, देहिन्ति तेण बुल—सटाहिओ ज ताण
 एत्ता ॥ १२ ॥ नणिय समञ्चण सए—अविणट्ट पड्ड पुक्कन्तति, सव्वहिय मेयस्स
 नआ—एता पुटो कन् एय ॥ १३ ॥ तेण चणिय मज्ज—धूयापि पड्डि ज
 एतो, उधिग्गमएय पत्तो—पड्डणएय मो निरम्मसे, ॥ १४ ॥ जत्रणिय अत्तरियाण

पा प मसा एत एय रत्रयस आगाने तेणे पेत्तना न्नापिने एतु रु त्प सम्पत्तिा राजत्तले एप प्रवत्ता मती र
 या ' गणकाज एतु र ह्य एतन्नां किय य ताण—त्थार त्ती म्भो नु अण्ड ररी तेप कत्वा हा पकारी ७—
 ए एतय त्ति गतात्ती आपर एत्तर शान्तु मय रट्टी म्भानु एते एते सेवेन, ते मती योगो के जीर
 र्त्त १० य मती गताण न परता अउ मोत्तमये अगयो अन ए रति दुरोजनेने एतु ल्तास मय वासु ११
 आप पेत्तना एय थना ओः मतीर गताज वय र वन आप्तु इत्तास शा माए अयो वा ? गताए एतु ते ते एते यया
 एता माए आप्तु तु १२ मतीर क्तु र मे तो व तुला बाज्य एगिर गत्ती यथा छे केया गातर तन र्वालयो हुते
 या गताण एतु क वप एय शर ? १३ मतीर जगानु के ते ए एते के ते तो मती दीररीओने पण आपदे छे
 शा ठणिय मयय एत्ति पत्ता शय बाज्य बात्तय आप्तु यार गताए मतीना गते दीररीओने पत्तमया एतां वेत्ता-

—धरिया मतीण सत्त भूयाओ, जम्वाइ पढमनाराइ—अहियं से पढतस्स ॥ १९
 ॥ तो तीण नरपइणो—पुरओ अणिणुमुच्चरतीण, वाराहिं दोहि अहिय—वीआए
 तीइ पुनमि ॥ १६ ॥ तदयाण वाराण—तदयाण अहियय च बुत्त च, एव वाराबुइ-
 ढीइ—सेसगाहिं पि उपत्तठ ॥ १७ ॥ तो कुविणए रत्ता—डुनारममि वारिय वरुड-
 म्म, पउा सां गगाण—उत्तपत्रोगेण दीणारे—॥ १८ ॥ ठविजण वेइ न्णणइ य
 धुःनुहा देइ मज्झ गगति, कालतरेण रत्ता—सोउ सिट्ठ अमच्चस्स ॥ १९ ॥ तेण
 नणिय जइ गह—पुरो इमा देइ ता उ देव, वच्चासो य पत्ताए—गगाए पन्सिय
 रत्ता ॥ २० ॥ अह मत्तिणा पियाझे—पच्चइओ नियनरो समाद्धो, गगाए पठ-
 यो—अत्तसु ज वरुई सच्चिजे—॥ २१ ॥ किपुण उवइ त गिण्हज्जाण मह जइ उ

भी सं यणए पड़ेवो चार सातलीने ते शीमी नीयु. १४—१५ तेथी त गजा आगठ वरेर वीनी गइ एत्ते तेणी
 ए ते उगार्थी य याम्मा वीचीने ते कउम्य थइ गयु १६ तण यार सां गडीने पाजीण शीम ने ते रुही म्मायु एम
 म्म यार रत्ता मरतीओ ते रुही म्मायु १७ त्यार राजा रस्सचि पर एत्तो गुम्बे थयो के नेने उरराजामां पण
 पणयाने मगाइ री त्यार रस्सचिण गगामां थन गाउवा त्या सोनाम्हेगे रागीन ते वद रुहेय त्याया के मारी स्तु-
 त्तिरी गगानी प्रमत्त थइ म्बे सोनाम् हे ओये छे ते याननो रोइक यग्ने राजान म्मर पकी एत्त तेथे म्मानि ते वात
 रती १८—१९ मरीए वगु ने जो मारी साणे गगात्ते ने आप तो म्मर वात म्मरे राने म्मानत आपणे भगा पम्
 प २१ ॥ १५ तण मत्तण वइत्त म्ममी २० पढो पवीण माय वापाना म्मारीयण माणसने म्मरे म्मगा पर त्याने तेओरदे

नगमेजानि, गतूय नरेण तत्रो—आणीया दम्भगद्वनिया ॥ २७ ॥ गोनमि गत्रो न
 दो—मतीद पतीदत्रो युणचो सा, गगजत्रमि निमुडो—युद्धत्रममाणे य त जत—
 ॥ २३ ॥ रुचरणेहि सुचिरपि—त्रद्विय जात्र विपरद न द्विपि, यत्रात्रिद्वयत्रण—
 मणुपत्ता परस्टं ताप ॥ २४ ॥ पायद्विया सयनानेण—रादणो मा य दत्रमपोद्वलिया,
 दमिग्रो व रादणा मो—कृत्रिग्रो मनिम्स उत्ररि तत्रो ॥ २७ ॥ आरठां विद्वान्
 —रलादु अत्रया य मयनालो, योवाह क्कानुमणा—मिरियस्स नरिदजोन्गाड—
 ॥ २८ ॥ त्रिदिहाड आउडा—उणु सारवेद एथ च, उमयरियाण कद्विय—उरुद
 णा भनिद्वलीण ॥ २७ ॥ पात्रियद्विणु तत्रो—तेण भिजाणि मोयणे दाउ, सिंगा-
 द्यपियचत्र—उाणेसु पाडियाणि द्म ॥ २७ ॥ एउ लोउ न नियणुद—ज स

एत यं पातार्थं सन्ति ते इ- गण न तु न, न द्वा वन पर्वोवाकते न म्माणे ते माणने जः स्याथी मोनान्द्वेगनी
 पात्री आणी २७—उउ वदत्र धर्मा नगता पत्री माय यो जद पर्वो-यो त्यां सरन्ति पाणीमा रही सुति स्तो
 त्म । तथ यां सुनिता अ वता यत्न सग्विचि दाय एवदे खुव इत्तायु कण तले इद आयु नहि, स्यार सर-
 नि तां उरगणा वना गय २३—उउ ए ताणे गामात्रमवीण न पोत्रती राजा आगठ मुद्धी रती, तेथी राजा
 उग्विदत्र मुव उमचा ताग्यः तथी सन्ति पती उण मुदु ग्रो न जाणे उए पथी न तना उिदो जोम जाग्यो एय
 यो गवद्वद्वपत्रोण पावना श्रीयइ नामना पुनता विवाह वरावता उगपती गजाते योग्य एवा अनेक द्विप्यागे एनी
 गान पदारा वादत्र २६ आ वावनी मरर सग्विचि मंत्रीनी दुर्मिन वद नीन सन्तु आणी रा रतीने वेणोनी पाणे
 थी पत्री २७ आ त्रिद्व पार्थीन कण माना एवमगवान सादु आणीन शुगाव—विक—येक एणे नगना स्यानेवा

जो तुम्हें पश्चिमोत्तरी-तण विठ्ठल तत्रा-रेर अल राजन्तेण ॥ ३० ॥
 त्रिपथि ति ॥ ३१ ॥ नेण जणिय चाया-वेष्टो मे श्रनन्न नामो ति, गग्गम मे
 तथ्यर ना चिन्ति समाहत्ते, परञ्जयावनाण-रु चागा भिच मोसय ति ॥ ४० ॥
 नित्त-म मण चिन्ति राय ॥ ४१ ॥ उच्चुद्धियो निरण-नीटरओ मडिराउ म

या शयिन्ने तस्य राय्या र मन्त्राज तमे क्व व्यापुत्त प थाअ ३२ त्पत्त ज त्पत्त मन्त्रिण रहत्त पापुत्त पत्त राय
 नत्त या गन्तव त्त र्गु र डोर, या र्त्त तु मन्त्रो पद्दो स्वोरा ३१ शीय- र्गु र मारा पाया गत्त र्त्त
 ३ आत्त राय र्त्त या मारा नापनी यथाया पर रहे ज ३० त्पारे राजण त्ते योत्तारात्त र्गु र तु पत्तोत्तरी म्मी
 राय मन्त्रेत्त क्व क्व हू विचार र्त्त तस्य आयु त्पारे राजण त्ते नत्तोत्तरी आत्तारात्त म्मी योत्तारात्त र्त्त त्त्त
 या नाय्या र पत्तया मत्तपत्त र्त्त म्मी योत्त अत्त श सुत्त हाय ? ३१-४० र्त्तरी जोगथी अत्तय नत्ते
 जत्त पत्त ३ म्त्त हरे प नापथी रू रहत्तु त्त्त छे एत्त चिन्ती ते नारे त्त्तया पत्तीन यत्तारथी त्त्तत्त य
 या ४१ त्त्त पत्तत्तित्त म्त्त र्त्तरीन योत्तानी मत्ते मुत्तित्ता त्त्त त्त्त गत्ता पत्ते क्त्तने क्त्तु केहे रात्तन्, मे आत्त यत्तत्तु ते
 ४० गत्तया त्त्ता यत्तया र्त्तया पत्तने महात्तया पर जोग्दी यत्तत्ता थया, त्त्तार राजए त्त्ते र्त्तु के गत्तित्तात्ता योत्त

गन्तु करसद—नड राउ मारेनि शु—सिरियउ रज्जि उवेसइ ॥ २ए ॥ सुणिय च
 दम राणा—चरेहिं पेहाणिय च मतिगिह, ददूएण कीरमाणइ—आउढाइ पन्न्या-
 इ—॥ ३० ॥ सिह रत्तो तेहिं—कुणियो राया डिओ पराहुत्तो, सेवागयस्स चद्ध-
 णेसु—निममाणस्स मतिस्स ॥ ३१ ॥ कुणियति निच नाउ—सयन्नाओ मदिरमि
 गवृग, कइइ सिरियस्स पुत्तय—राया मारेइ सब्वाइ—॥ ३२ ॥ जइ न मरिस्सामि
 अह, ता रत्तो पाय निमणिय उड्ड, म मारिज्जासि तुम-उगिया सिरिएण ता सवणा
 ॥ ३३ ॥ सयन्नाओण जणिय-ताडउने जमिसयमि मइ पुव्व, निवपायपण्णकावे—
 मारेज्जसु त गयासमो ॥ ३४ ॥ तव्वधिणासासकियमणेण पभिसुय मिम च सिरिएण,
 तहेमम पायपणियस्स—मीम मेयस्स उिन्नति ॥ ३५ ॥ हाहा अहो अकज्जति-जपि

नरिने नोहरो गेवातो वगथो १० आ दुनिया जाए नहि—रुत्तो मे शरुगन, नदराजने मारीने—श्रियाने राउय दे-
 ना ए आ अट्टेरो राजाए पग सभज्यो एत्ते तेप उना माणसो भोक्कनी मरीना घरमी तथास रराओ तेपणे त्या
 उतर जानता इधियाओ यदाता जोइ ते बत राजने रट्टी, तेथी उगरे गवी सनाम ज-या राजना पगे पड्यो त्थोर रा
 जा एउ पेमवी कत्तो रथो ३०—३१ आ रीम राजान सपेनो जालीने शरुमान मत्रीए घरे जद श्रीयक नामना पुजने
 रगु के उ कए, जो हु ननि मए नो राजा आपग यगने मरावने, मोटे हु जेवो राजना पगे एहु के तु पने मारी नायजे.
 त्थार धीयके वान आना दाए पर्या ३१—३३ त्थारे शरुमाने रगु के हु पडेनायीज ताउण्ट त्रिप खाइने पडी राजाने
 पण पणु ने रबने तु गता आत्था एए मन मारजे ३४ त्थारे यवना नाशनी रीके श्रीयके त यात रचुन रावनी ते ज
 थो पटना व पणु पाय उस्तनु ३५ ते जोइ हाउ-राए रत्तो नदराजा उड्डो घेनवा हाणयो के आ ने शु अमार्य रगु ?

निपरापि नि ॥ ३७ ॥ तेण तणिय चाया-जेठो भे श्रनजब नामो ति, नारसम से
 रविप-रामात् गिह समनम् ॥ ३८ ॥ म्पात्रिओ य रणा-तुतो य जयाहि मनिप
 र्यापि नि, तण तणिय चितोमि-राणा पेन्निओ ताहे ॥ ३९ ॥ सन्निहियअसोगणे-
 तयय मा चिति उ नमाहत्तो, पररनयानाण-ऊ चोगा फिच सोमप ति ॥ ४० ॥
 तार्पा रि मन-य-नग यम् अत्र तन्नेहि, इय चित्तिऊण वेरग-सुनगओ तत्रविरत्त-
 मग ॥ ४१ ॥ सो ऊय च्चमुट्टिय-नोय सयमेर गडियमुणिसेतो, गतूण तणइ
 निर- म मग चित्तिय गय ॥ ४२ ॥ उत्रतूट्टिओ निरेण-नीट्टरिओ मडिराउ स

३७ ॥ तेण तणिय चाया-जेठो भे श्रनजब नामो ति, नारसम से
 ३८ ॥ म्पात्रिओ य रणा-तुतो य जयाहि मनिप
 ३९ ॥ सन्निहियअसोगणे-
 ४० ॥ तयय मा चिति उ नमाहत्तो, पररनयानाण-ऊ चोगा फिच सोमप ति ॥ ४० ॥
 ४१ ॥ सो ऊय च्चमुट्टिय-नोय सयमेर गडियमुणिसेतो, गतूण तणइ
 ४२ ॥ उत्रतूट्टिओ निरेण-नीट्टरिओ मडिराउ स



महृष्या, गणियाइ गिहे जाति ति पेहिओ राइणा जतो ॥ ४३ ॥ दद्रूण मयकञ्जे-
 रडुगधपट्टेण वचमाण त, रन्ना नाय निविन्नकामजोगो धुवमिमो ति ॥ ४४ ॥
 उविओ पयसि सिरिओ-इयरो सभूयव्रिजयपामूले, पवइओ अच्युग्ग-करेइ विविह
 तव्वचरण ॥ ४५ ॥ अह विहरतो कक्षयावि—पारुद्धीपुत्त मागओ एसो, सभूयवि-
 जययुराणा-सच्चि सद्धम्मनिरयमाणो ॥ ४६ ॥ पत्ते वासारत्ते-तिष्णि मुणी तिव्वज्जव-
 ज्जउव्विग्गा, गिण्हति कमेणेए-अज्जिगहे डुग्गहसहस्से ॥ ४७ ॥ एगो सीहउहाए-
 अतो दारुणविसाहिसहसहीण, कूवफद्धयमि अन्नो-चाउम्मास कयाणसणा ॥ ४८ ॥
 जयम म धूनजद्धो-जोसागेहमि अतवधम्मगओ, निवसिस्सामि स युरुणा-अहिग
 यसत्तेण णुन्नाओ ॥ ४९ ॥ सपत्तो घरदारे-तुट्ठाण उट्टिऊण जह जग्गो-एसो परी-

जाओ ४३ त्वारे ते मरेवा कनेमवाला दुर्गरी स्ते चान्तो यथा ते जोइने राजाए जाणु के रोखर ए साम्जोग्गधी
 निरक्त थयो नागे छे ४४ तेवी राजाए गीयकने मरीपदे स्थाने अने सृवन्नद सत्तत्रित्तय आचार्य पासे मत्तजित थ-
 इ टय तपराण करया नाग्यो ४५ हय एकैवळा विहारम ते पाजाना गुरनी साथे पाग्नीपुत्रमा आव्यो, छता तेनु मा
 तो सारेक्ता धम्मपाज रहेतु हतु ४६ त्या वामाठ आमलं नाना आगरा जययी उच्चिय थएना नण मुनिआण नी-
 चे मुजम नण छुप्पर अच्चिग्रह लीया ४७ एक सहुनी गुफमा रहेवानो, गीजाए जयकर सयना नर उपर उच्चा रहे-
 गानो अने गीजाए नयाना गोंग पर उच्चा रहेयानो एम आणसणुपुंरुं चार पास उच्चा रहेयाना अच्चिग्रह लीया
 ४८ त्वारे जगमान् पुनन्द्रे एगे अच्चिग्रह क्षेत्रा माव्यो के रर पण तप कथो यगरज कोशाना गरमा मारे रहेतु गेनी
 चिम्मत्तनी गुनेन स्वारी दोयायो तेण तेने रत्ता आपी ४९ ते मोशाना परना दरवान आव्यो एग्गे तेणोए धायु ते

सि दम्बु निवास, दित्रो—तुत्तो सन्नेहि वि रसेह ॥ ५१ ॥ मङ्गाणपुणमुद्रमरीरा—
 नरा मरुतृन्विया रात्र्यो, पत्ता दीम्यहत्या—मयत्य मपाणुमिउती ॥ ५२ ॥ चातु-
 पट्टारहा—सा त रमित्त न मत्रिया जाय, तन्नो पसतमोन्ना—गुणममा मात्रिया
 चाया ॥ ५३ ॥ रायान्तिओमविरहेण—दोद पुरित्ये मग न रमित्तो, उग मा य
 तन्नमिनी—वन्निन्दद वज्जिययारा ॥ ५४ ॥ उजसमियसीद्वमप्या—चउमासोपासिया
 गुणमयाम, म्यट्टमफामासो—तदप्रोपि सुणी ममायात्रो ॥ ५५ ॥ अञ्जुट्टिया म
 पाण—दुमरकारीण सागत तुच्च, आभाविया क्या जा—गुणणा ता अञ्जुत्तोपि— स
 ॥ ५६ ॥ गणियागिद्धमि पत्तासरमि गिणित्य मणुन्नमाहार, तुजता रम्मताण— स

० पशुपत्नी नम्र चया योगे ३, तथी तेलीण उडी उ— य न गगु र ह्य न योनात म् ५० अञ्जुत्त गगु र
 मग रनी यग प्र आरण य विवास कता न यथा मन उत्तारे आप त मुमर तर्णि न तन य उताग आया
 अत नम मय गारा गगु मर्या ५० ह्ये काग उथा न्हाइ थाद परिम थः स्ये अमरर सनी गन हाग्वा
 ० स ० पात न प्रार्थे म्पा इच्छनी धरी अन्त सानामाना मय त्रयो, प० तने मयकय मयदे थः उरी न
 ० त्याग तना गाट गात पलता यम गाउगी ने श्राविसा थः ५२—५३ तेलीण पत्रो म्पद्धा नीवी के गज्जियोग
 गिताः माः सः पुण्य मय रम्पु नदि, एम तर्णिण विचारजाव मकोनि अमन्तनी विनि स्त्रीमरी ५४ ह्य चार मय
 ना उपायमोना र सामअ गिद्ध तथा सर्वेने उपायवारी गुरु फल आया नम नीज कथाना चारोउ पर उन्नो रह्येनार
 म, १ पम आरी पट्टोणा ५५ नेपना मये जग ऊडोने " तमे तु मर रुम स्त्री जने कप्या"—एय गुण्य र्मु, ए

माहिगुणो य सपत्नी- ॥ ५७ ॥ अइडुकरडुकरकारयस्स अञ्चुट्टिऊण सप्पण्य,
 जणिय गुरुणा तव सागय ति ते मत्तर पत्ता ॥ ५८ ॥ तिन्निवि चाणति समगा-पे-
 उह सूरी कह इम जणइ, एस अमच्चस्स सुओ-अतमोवि पससिओ एव ॥ ५९ ॥
 मणमज्जउयिरोसेण-याउसमी समागण डुइए, सीहुहायमगेण-अणिओ सूरी अ-
 ह जामि ॥ ६० ॥ उवकोसाड गिहमी कोसानेसाइ वहुगजइणीए, त बोहेमि वि-
 मूणो कोवि इह थल्लभइओ ॥ ६१ ॥ उनउत्तेण गुरुणा-णाय पार न पाविही ए-
 सो, पडिसिओ तहनि गओ-तो मगियइअववहीओ -॥ ६२ ॥ डगो वासारत्त-
 काउ सा चडिगा सुणइ धम्म, अइफारसरीरा चूसिया य अमिभूसिया चैव ॥ ६३ ॥
 सो मयणगोइगो दम-जल्लणसमीने तओ पचोयतो, जाओ अईमइनामज्जिओ फु

नामा वृन्द पण त्या आरी पहोंच्या ५६ ते जगन् गणिकना रे दरोग वतपमद आहार अइ खला ण्णे श-
 रीरे ताजा थड आख्या हुता अने तेप छता समाधि साचमीने आ-ग हुता ५७ तेना सोम गुण्ण सोरर ऊडी भीतिप्रक
 र्णु के अति दुःखमा दुःखगना ररनार एग तेने यथार्थ ते साचकी पेनाबणे साजुन गसर प्राप्त थो ५८ ते तणे रु-
 देग नाग्या के जुयो, आपणा गुण्ण एने रेनु कडे वे ? ए गवीचो दीकरा जे एने गार त्ते पण एना आ रीते गुरु यथा-
 ण सर उ ५९ हुने मनमा रोप सखीने पीजु चोपाणु आया मिहुगुफावासी तपस्वी सुनिए गुणे ऋणु के हु बोशानी
 नानी तेन उपसोगाना घरे जाउ वु अने तेने प्रतिशोधी आरीश एत गसर पफरो क वृन्दर रला कोइ उतरलो नयी
 ६०-६१ गुण्ण उपसोग आवी जोता तेवने जणायु क आ कइ वार पहोंने तेम गी, एच तेमणे तेने ग पाद्री तेम
 चो ते गानते उपो अने या तेने समति घेकरी ६२ त्या तेने गेपाणु पसाए ररया गाच्या ते उपसोगा चडिा होरा-

रियसामसरो ॥ ६४ ॥ नञियचञ्चो अज्जोवण्णओ मग्गिठ तओ झग्गो, निउण-
 मंठाण तीण-अण्णिओ फि देसि त अस्सु ? ॥ ६५ ॥ सो जण्णइ नरिय मे किञ्चि-अण
 गियओ अह ज्जे, तहणिय जणसु विमिञ्चसि—उस्सव, निसुय च तेणैय- ॥ ६६ ॥
 नयाननणायण जह—राया पुञ्चस्स साहुणो देह, कन्वरयण सयसहस्समोह्व मेसो
 नहि जाह ॥ ६७ ॥ झक्क त तय महापमाण वसस्स नूमिय मज्झ, उदय जिहे जह
 अट्टणमाणा, ता कयणिय पण्से—सउणो नासइ जहा लस्यो ॥ ६८ ॥ नगिण्णप्पाओ जा एइ—ण्णओ विस्सम
 इति वुन—चोग्गइं सउणणमवियार तु, जा पासइ ता पासइ ॥ ६९ ॥ एसो इ-
 ॥ ७० ॥ अउट्ठीगियमउण्णरुओ—जा चिच्छ ता पुणोवि वाहरइ, हरयगओ सयसह

श्री उपनिषद् का अन्ती १ वरी इदं काल इती के वग सगुणे एण मण्णार सत्त्वा हाय तेवी ज्ञान्ती ६३
 ६४ १ मग्न अण्णाय एण उप वीण्णन मोग्ग म्हे म्प म्पानि न त, यो पाम्नी इत्ता म्पानि इत्ता म्पानि ६३
 न ? ६५ १ अण्णो क इ उट्ठं निर्णय तु ण्णये म्पानि इत्ता म्पाना लार म्पानि म्पानि म्पानि ६३
 माय म्पाने १ म्पान्ण एण म्पान्ण इत्ता ६—६६ म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता
 १ उ म्पानि म्पाने ६७ म्पान्ण १ म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता
 म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता
 म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता म्पान्ण इत्ता

सो—एसो तुञ्ज अइगयो त्ति ॥ ७१ ॥ सजायमोउगेण—जणियो चोराहिनेण
 सो गतु, ज इयमत्थिय तत्त—जयरद्विओ त कहेसु तुम ॥ ७२ ॥ कहिय कमत्तरय-
 ण—वसतो एत्थ अत्थि तो मुक्को, आगतु गणियाए—समर्पई जाव ता तीण— ॥
 ७३ ॥ गिहखात्तमि निहित्त—निरिम्यमाणस्स तम्लण तस्स, जणइ तओ कह मे-
 य—रयण मिण मइविय तुमए ? ॥ ७४ ॥ मुद्धोसि तुम सोयसि—ज भेय मप्या-
 णग नउण समण, एयाओवि विलीण—रयणसमो म जमणुसरसि ॥ ७५ ॥ अइ-
 निप्पिवास मेसो—तीए पन्निचोइओ पडिनियत्तो, इडामो अणुसट्ठि—जणिय गओ-
 गुरुसमीवमि ॥ ७६ ॥ अइडुक्करडुकरकारगो त्ति एव स्थूञ्जजइमुणो, चिरपरिचिया
 असखी—सम्म अहियासिया इमिणा ॥ ७७ ॥ तुमए अदिट्टउदोसा—उवकोसा जा-

तथासवा दारयो तेयामा एक अषण आवतो तेने देलवयो ६ए—७० ते परथी ते सदोर ते अगजनी अगजा री
 एधे पक्का फरीन नोनवा दाग्या के तमारा हाये आवेनु वास चानी गयुवे. ७^१ त्यारे यारेला सदोर कोतरु पामी
 तेनी पात्रक जर रगु के तारी पासे जे सार ह्यत ते तु मगर धीके कही दे ७२ ते साउण रुगु के आ यत्तनी अदर
 कवनल्ल डुषामन जे एम तणे सामु कही दीगु तेच तेणे तेने जतो येयो एटने तेणे आव ने न गणिसाने साँपु के त-
 ल तेणीए तनी म्यह्यज ने पत्नी खानमा नांली दीधु, त्यारे सागु नेळ्यो के ने आ रज नेप पत्र हर्ष ७३—७४
 गणिकाए जयय गायो के अरे अषण, + मुग्ध बागे छे के जेयो तु आ वचनन विता करे जेने तु पोरे रज समा
 न होइ मारी पाळठ पफी पोताने आ रचव करती वत्र पत्तिन करे जे तेने विगारज करता नरो ७५ आ रीने तेणी-
 ए तन बइ पाण विषामा साग्या वणर जाटन्यो एटने ने समनीन नोळा व तारो शीखावण वाजरो जे एम कही ते गु-

इया कचया य, निञ्जद्विओ पयन्नो—पञ्चित चित्तसारति ॥ ७० ॥ इयाड नदर-
 णा—दिना तुष्टण नियगरहियस्स, कोसा सा पुण निञ्ज—यससण यल्लभसुणि ॥
 ७१ ॥ कट अन्नो तह इयीपरीसह जिणइ निय मयणपसरो, जो न समाओ तिननु-
 मन्निभागमित्तपि सगुबो ॥ ७० ॥ सतिच्चिय अउरगरा जणा चुरिणो ढह लोण,
 नहु बुनचहसरिमो चूओ होउच्चिय कयाइ ॥ ७१ ॥ एउ तणुणगउरगित्तमणा उ
 स्सयन्मण्य मायाससोगमणियाण, आरोवियधनुदको—अगपिडीइ कत्ताणि—
 ॥ ७३ ॥ अणुपुय चायतो—ता गियइ जाय नियकरन्नास, आणीया ग्विहीण-
 डिन्ना सा अठचदाण ॥ ७४ ॥ सा जणइ सिम्मियस्सेह—इअर किं पेञ्जसि म-

र धाम आब्बा ७२ आया गुए त्ते उप्पो दीथो के ने स्थुनचत्तमुनि, गरर अति ठुरर दुक्करो रग्गार इवा क
 णा गियगिच्चिअ अउ अण यदाउ वंशाने र्ही रीते वत्तिवाधित ररी ७७ अउ व नो त्प आया विनाली अने अ
 पानता उपरसान न माणणी करी एउ गुए त्ती निर्देवना ररी एत्ते तेणे चित्त आया प्रक मात्त मीराणु
 ७० या वर ररा गुए थएता नदयागए पानता रक्किने राशा आपी हए ने राशा तेनो आणउ इपशा स्वतजउ
 मनिना रयाण रन्ना इना ७७ ने आ रीते के स्थुनचउ के ने माएथी तित्तना तुए अन्तो णा इअ पाणो नदि
 णा द्वारा ए णा स्थुनचउना अतो मेउ थयो नया अउ रग्गए थशे ण नदि ७७—आ जग्गणा, आश्वर्यमार व
 रग्गए पन रग्गवी थ । व रग्गिअनी गग्गी रग्गार ररनी न हवी व पोनाउ सीज्जा


मपि, नष्टविद्धिं तो सरिसवरासिद्धिसूक्ष्मगोसु ॥ ८५ ॥ 'कयनहा हरिसमुही—घ्राणा-
इ तो कस्स मडरो गुणिसु ? तच्चिय मणे वद्धती—तह ज्ञाणइ सुजासिय एय ॥ ८६
॥ न डुक्कर अययद्धुवि तोरुण—न डुक्कर नच्चय सिक्खियाए, त डुक्कर तच महाणु
जाव,—ज सो सुणी पमयवणमि बुत्थो ॥ ८७ ॥ पुब्ब सब्बच्चिय से—निवेक्ष्य तीइ
तस्स बुत्तत, तच्चरियाक्खित्तमणो—विद्धिओ सो सावगो परमो ॥ ८८ ॥ जाओ य
तम्मि समए—डुक्काओ दोय दसय वरिसाणि, सब्बो साहुसमूहो—गओ तओ ज-
लहितीरेसु ८९ तडुवरमे सो पुणएवि—पारुद्धियुत्ते समागतो विहिया—सधेण सु-
यविसया—चित्ता किं कस्स अस्थिति ॥ ९० ॥ ज जस्स आसि पासे—उच्छेत्तज्ज-
यणमाइ सघग्गिउ—त सब्ब एक्कारय अगाइ तहेव ठवियाइ ॥ ९१ ॥ परिकम्म सु-

बनाववा खातर तेने अशोक बानीमां लइ गयो. त्यां तेणे धनुष्य बाण बनानीने केदीओनी जुमलीने दरेक बाण सगानी-
ने पोताना हायनी ननीक आणी तेने अर्द्धचंद्र (बांकिया) नामना हथियारथी कापी लीधी. ८२—८३—८४ त्यारे
कोश्या बोधी के शीखेनाने इहां शु दुप्कर होय ? दालदावरीके मारं नाच जुनो एम कही तेणे सरसना दगसा पर सू-
इओ गोजवी तेमनी अणीओ ऊपर नाच करी बनाव्यो ८५ एम ते नाच करी हुस्ते मुले बोनी के जसा माणस गु-
णनो ऊपर गेने मत्सर होय ? एम बोनीने तेनेत मनमां तानीने नीचे मुजब मुजाणित कहेवा लागी ८६ “ शीखेसा-
ने आचानी नुल तोपनी अगर नाच करतु ए कांइ एण दुष्टकर नथी, एण जे ते मुनि मदजनक बनमां अक्रम रथा ते ज
डुप्कर अने मोड काम ठे. ” ८७ पछी तोणीए तेने पूर्वनी सपली हकीकत सनजवी रथसजदना चरित्र तरफ तेनु म-
न गेवंची तेने एपम श्रावक कयो ८८ आ बबले बार वर्षी दुकाल पळ्यो तेथी सपज सायुओ वरिया कांटे जइ रथा

... १०१ ...
... १०२ ...
... १०३ ...
... १०४ ...
... १०५ ...
... १०६ ...
... १०७ ...
... १०८ ...
... १०९ ...
... ११० ...

चाह—पुनराय मूधिया शुभयोगो य, दिट्टीमाथो इय पचहाति नो अरिय तत्थित्ति
॥ १०२ ॥ नेपाचरत्तिणीण—विताण किय जइहाहो सुसो, विहरति विट्ठिनाय—
पुट्टीमाय न मत्ति अस्थिणो साहुणो परय ॥ १०३ ॥ सधेण साहुणुयन—पहिय तस्सतिण पचाणहि—
तणिय तेण पण्ड पय्हो— माहेउ महापाणउत्ताण—पुट्ठिच डुक्कालो—॥ १०४ ॥ पत्ति-
न अम्मि पय्हो ताण—चाह मयमि उरएण सने—हाहामि नायण ज—न जाइ एयमि सा
॥ १०५ ॥ आगम्म तेण मयस्स साहिय नो पुणोति सयानो, तस्सतिण निसइढो—
तया या—पुनराय गया भिण नि ॥ १०६ ॥ सो तस्स होइ दको—एय जणात्रियो जणउत्तस्स, उग्घामण्य

१०१ ॥ ५०५ ॥ ५०६ ॥ ५०७ ॥ ५०८ ॥ ५०९ ॥ ५१० ॥
... ५११ ॥ ५१२ ॥ ५१३ ॥ ५१४ ॥ ५१५ ॥ ५१६ ॥
... ५१७ ॥ ५१८ ॥ ५१९ ॥ ५२० ॥ ५२१ ॥ ५२२ ॥
... ५२३ ॥ ५२४ ॥ ५२५ ॥ ५२६ ॥ ५२७ ॥ ५२८ ॥
... ५२९ ॥ ५३० ॥ ५३१ ॥ ५३२ ॥ ५३३ ॥ ५३४ ॥
... ५३५ ॥ ५३६ ॥ ५३७ ॥ ५३८ ॥ ५३९ ॥ ५४० ॥
... ५४१ ॥ ५४२ ॥ ५४३ ॥ ५४४ ॥ ५४५ ॥ ५४६ ॥
... ५४७ ॥ ५४८ ॥ ५४९ ॥ ५५० ॥ ५५१ ॥ ५५२ ॥
... ५५३ ॥ ५५४ ॥ ५५५ ॥ ५५६ ॥ ५५७ ॥ ५५८ ॥
... ५५९ ॥ ५६० ॥ ५६१ ॥ ५६२ ॥ ५६३ ॥ ५६४ ॥
... ५६५ ॥ ५६६ ॥ ५६७ ॥ ५६८ ॥ ५६९ ॥ ५७० ॥
... ५७१ ॥ ५७२ ॥ ५७३ ॥ ५७४ ॥ ५७५ ॥ ५७६ ॥
... ५७७ ॥ ५७८ ॥ ५७९ ॥ ५८० ॥ ५८१ ॥ ५८२ ॥
... ५८३ ॥ ५८४ ॥ ५८५ ॥ ५८६ ॥ ५८७ ॥ ५८८ ॥
... ५८९ ॥ ५९० ॥ ५९१ ॥ ५९२ ॥ ५९३ ॥ ५९४ ॥
... ५९५ ॥ ५९६ ॥ ५९७ ॥ ५९८ ॥ ५९९ ॥ ६०० ॥
... ६०१ ॥ ६०२ ॥ ६०३ ॥ ६०४ ॥ ६०५ ॥ ६०६ ॥
... ६०७ ॥ ६०८ ॥ ६०९ ॥ ६१० ॥ ६११ ॥ ६१२ ॥
... ६१३ ॥ ६१४ ॥ ६१५ ॥ ६१६ ॥ ६१७ ॥ ६१८ ॥
... ६१९ ॥ ६२० ॥ ६२१ ॥ ६२२ ॥ ६२३ ॥ ६२४ ॥
... ६२५ ॥ ६२६ ॥ ६२७ ॥ ६२८ ॥ ६२९ ॥ ६३० ॥
... ६३१ ॥ ६३२ ॥ ६३३ ॥ ६३४ ॥ ६३५ ॥ ६३६ ॥
... ६३७ ॥ ६३८ ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥ ६४१ ॥ ६४२ ॥
... ६४३ ॥ ६४४ ॥ ६४५ ॥ ६४६ ॥ ६४७ ॥ ६४८ ॥
... ६४९ ॥ ६५० ॥ ६५१ ॥ ६५२ ॥ ६५३ ॥ ६५४ ॥
... ६५५ ॥ ६५६ ॥ ६५७ ॥ ६५८ ॥ ६५९ ॥ ६६० ॥
... ६६१ ॥ ६६२ ॥ ६६३ ॥ ६६४ ॥ ६६५ ॥ ६६६ ॥
... ६६७ ॥ ६६८ ॥ ६६९ ॥ ६७० ॥ ६७१ ॥ ६७२ ॥
... ६७३ ॥ ६७४ ॥ ६७५ ॥ ६७६ ॥ ६७७ ॥ ६७८ ॥
... ६७९ ॥ ६८० ॥ ६८१ ॥ ६८२ ॥ ६८३ ॥ ६८४ ॥
... ६८५ ॥ ६८६ ॥ ६८७ ॥ ६८८ ॥ ६८९ ॥ ६९० ॥
... ६९१ ॥ ६९२ ॥ ६९३ ॥ ६९४ ॥ ६९५ ॥ ६९६ ॥
... ६९७ ॥ ६९८ ॥ ६९९ ॥ ७०० ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥
... ७०३ ॥ ७०४ ॥ ७०५ ॥ ७०६ ॥ ७०७ ॥ ७०८ ॥
... ७०९ ॥ ७१० ॥ ७११ ॥ ७१२ ॥ ७१३ ॥ ७१४ ॥
... ७१५ ॥ ७१६ ॥ ७१७ ॥ ७१८ ॥ ७१९ ॥ ७२० ॥
... ७२१ ॥ ७२२ ॥ ७२३ ॥ ७२४ ॥ ७२५ ॥ ७२६ ॥
... ७२७ ॥ ७२८ ॥ ७२९ ॥ ७३० ॥ ७३१ ॥ ७३२ ॥
... ७३३ ॥ ७३४ ॥ ७३५ ॥ ७३६ ॥ ७३७ ॥ ७३८ ॥
... ७३९ ॥ ७४० ॥ ७४१ ॥ ७४२ ॥ ७४३ ॥ ७४४ ॥
... ७४५ ॥ ७४६ ॥ ७४७ ॥ ७४८ ॥ ७४९ ॥ ७५० ॥
... ७५१ ॥ ७५२ ॥ ७५३ ॥ ७५४ ॥ ७५५ ॥ ७५६ ॥
... ७५७ ॥ ७५८ ॥ ७५९ ॥ ७६० ॥ ७६१ ॥ ७६२ ॥
... ७६३ ॥ ७६४ ॥ ७६५ ॥ ७६६ ॥ ७६७ ॥ ७६८ ॥
... ७६९ ॥ ७७० ॥ ७७१ ॥ ७७२ ॥ ७७३ ॥ ७७४ ॥
... ७७५ ॥ ७७६ ॥ ७७७ ॥ ७७८ ॥ ७७९ ॥ ७८० ॥
... ७८१ ॥ ७८२ ॥ ७८३ ॥ ७८४ ॥ ७८५ ॥ ७८६ ॥
... ७८७ ॥ ७८८ ॥ ७८९ ॥ ७९० ॥ ७९१ ॥ ७९२ ॥
... ७९३ ॥ ७९४ ॥ ७९५ ॥ ७९६ ॥ ७९७ ॥ ७९८ ॥
... ७९९ ॥ ८०० ॥ ८०१ ॥ ८०२ ॥ ८०३ ॥ ८०४ ॥
... ८०५ ॥ ८०६ ॥ ८०७ ॥ ८०८ ॥ ८०९ ॥ ८१० ॥
... ८११ ॥ ८१२ ॥ ८१३ ॥ ८१४ ॥ ८१५ ॥ ८१६ ॥
... ८१७ ॥ ८१८ ॥ ८१९ ॥ ८२० ॥ ८२१ ॥ ८२२ ॥
... ८२३ ॥ ८२४ ॥ ८२५ ॥ ८२६ ॥ ८२७ ॥ ८२८ ॥
... ८२९ ॥ ८३० ॥ ८३१ ॥ ८३२ ॥ ८३३ ॥ ८३४ ॥
... ८३५ ॥ ८३६ ॥ ८३७ ॥ ८३८ ॥ ८३९ ॥ ८४० ॥
... ८४१ ॥ ८४२ ॥ ८४३ ॥ ८४४ ॥ ८४५ ॥ ८४६ ॥
... ८४७ ॥ ८४८ ॥ ८४९ ॥ ८५० ॥ ८५१ ॥ ८५२ ॥
... ८५३ ॥ ८५४ ॥ ८५५ ॥ ८५६ ॥ ८५७ ॥ ८५८ ॥
... ८५९ ॥ ८६० ॥ ८६१ ॥ ८६२ ॥ ८६३ ॥ ८६४ ॥
... ८६५ ॥ ८६६ ॥ ८६७ ॥ ८६८ ॥ ८६९ ॥ ८७० ॥
... ८७१ ॥ ८७२ ॥ ८७३ ॥ ८७४ ॥ ८७५ ॥ ८७६ ॥
... ८७७ ॥ ८७८ ॥ ८७९ ॥ ८८० ॥ ८८१ ॥ ८८२ ॥
... ८८३ ॥ ८८४ ॥ ८८५ ॥ ८८६ ॥ ८८७ ॥ ८८८ ॥
... ८८९ ॥ ८९० ॥ ८९१ ॥ ८९२ ॥ ८९३ ॥ ८९४ ॥
... ८९५ ॥ ८९६ ॥ ८९७ ॥ ८९८ ॥ ८९९ ॥ ९०० ॥
... ९०१ ॥ ९०२ ॥ ९०३ ॥ ९०४ ॥ ९०५ ॥ ९०६ ॥
... ९०७ ॥ ९०८ ॥ ९०९ ॥ ९१० ॥ ९११ ॥ ९१२ ॥
... ९१३ ॥ ९१४ ॥ ९१५ ॥ ९१६ ॥ ९१७ ॥ ९१८ ॥
... ९१९ ॥ ९२० ॥ ९२१ ॥ ९२२ ॥ ९२३ ॥ ९२४ ॥
... ९२५ ॥ ९२६ ॥ ९२७ ॥ ९२८ ॥ ९२९ ॥ ९३० ॥
... ९३१ ॥ ९३२ ॥ ९३३ ॥ ९३४ ॥ ९३५ ॥ ९३६ ॥
... ९३७ ॥ ९३८ ॥ ९३९ ॥ ९४० ॥ ९४१ ॥ ९४२ ॥
... ९४३ ॥ ९४४ ॥ ९४५ ॥ ९४६ ॥ ९४७ ॥ ९४८ ॥
... ९४९ ॥ ९५० ॥ ९५१ ॥ ९५२ ॥ ९५३ ॥ ९५४ ॥
... ९५५ ॥ ९५६ ॥ ९५७ ॥ ९५८ ॥ ९५९ ॥ ९६० ॥
... ९६१ ॥ ९६२ ॥ ९६३ ॥ ९६४ ॥ ९६५ ॥ ९६६ ॥
... ९६७ ॥ ९६८ ॥ ९६९ ॥ ९७० ॥ ९७१ ॥ ९७२ ॥
... ९७३ ॥ ९७४ ॥ ९७५ ॥ ९७६ ॥ ९७७ ॥ ९७८ ॥
... ९७९ ॥ ९८० ॥ ९८१ ॥ ९८२ ॥ ९८३ ॥ ९८४ ॥
... ९८५ ॥ ९८६ ॥ ९८७ ॥ ९८८ ॥ ९८९ ॥ ९९० ॥
... ९९१ ॥ ९९२ ॥ ९९३ ॥ ९९४ ॥ ९९५ ॥ ९९६ ॥
... ९९७ ॥ ९९८ ॥ ९९९ ॥ १००० ॥



ननु काणो ॥ १०७ ॥ जस्यैवाद्याउ सत्तत्रि—जद्वणीओ श्रवतइमाहुस्म, गुरुणो जे-
 दद्वण ताउ इइहीइ दसण निमित्त, सीहागरो जाओ—सो त ताओ नियन्त्रिओ—
 ॥ ११० ॥ नचाउ गुरसयासे—जाणति सीहेण गदयगो जते, नाया, गुरणा जणिया-
 चवत्त, कहिय जह पन्वदओ सिरिओ पन्वोपसासेण ॥ ११७ ॥ काराणिणण अम्ह
 ता त्याग गुण नन पुरु व—१०३ तु याचना ता नथीन ? स्वयन्दे क्यु के हे जगत्त मन बंदे यजनार नथी या
 गुण क्यु क याचा गवत गमुरी गण तो पही तने आत्ता त्रित्त बात्ता अपीसा १०४ स्वसन्नद पुरुपु र नगत्त इ
 प्पायो कन्त गीमी ग्या तु ? गुण गुरु के तु हतु अउयावी युत शीत्यो उ एते सत्तण कत्तु यपु उ अणत्त इ
 पर कत्तु गती छ १०५ एता एतुं गीपत्ता जे ते कवत्त वाग्या जे तना कत्ता याचा सत्तणत्त तु त मर्या अदि
 या गुण गीवी रहीश या तण अतुत्तये रे स्वुत्तणा दत्त पुरं जणी सीथा एवामा तेन तावत्त तना गु
 विद्याना विद्वाना पापिपुत्तमा आदी माहुरेला लघानमा उतर्या १०६—१०७ एतोरं स्वयन्नदमुनिनी यदा रगर मान
 वना न गुं तथा न पाग्य जाइत वन्त्वा मात्त्या आरी १०८ अंशे गुरन वन्त्तेन इच्छुं क अमारो माग जाइ तथा
 वे ? गुण क्यु र एती न्य तुटिका (अन्धी) मां आन दित मन सुत्तपाउ गणते रको रहतो छ १०९ हेरे पावानी

हिं—सो मत्रो अमरवास मणुपत्तो, सिरिवज्जात्तीयाहि—तवेण जह देवया खित्ता
 ॥ ११३ ॥ नीया महाविदेह—जह पुष्ठा तस्य तित्थरायाणो, दो अज्जयाणा णीया
 —एग जावण विमुत्तवर ॥ ११४ ॥ एव वदित्ताण गयाउ वीए विणमि सपत्ते, नव-
 सुत्तेसत्थ—उवद्धिओ सो, न उदिसइ—॥ ११५ ॥ जा सूरी, को हेउ—तमजोगो-
 सि त्ति तेणिस नाय, कहे कओ पमाओ—जो सो एव वियेजेइ ॥ ११६ ॥ न पु
 णो काहामि जणइ—सूरिणो जइवि नो तुम कुणसि, अन्ने काहिति तओ—किन्ने-
 ण कहिचि पन्निन्न—॥ ११७ ॥ चत्तारि उवरिमाइ पुब्बाणि पढाविउ नउण अन्न
 —पाण्डिजसु, वोड्डिणा तो तमि डुवेय वत्थणि ॥ ११८ ॥ दसमस्स अतिमाइ—
 सेस अणुमन्निय सुय सब्ब, इह गणियारहियाण—पगय वेणइयवुछीण ॥११९॥ ४३

पंजने त्या आवती जोइने तेपने पेतानी रुद्धि शक्ति नतावा मोटे स्थनज्जे सिहनो आकार धारण क्यों तेने जोइने ते-
 आ गुर पासै नाशी जइ कहेवा वागी के हे पूज्य, अमारा जाइने तो सिह खाइ गयो वाणे डे गुरए वपु के ने सिह
 उ ते खरेवरे सिह नथी पण स्थनज्जद्रज छे ११०—१११ (यारे तेओ त्या पाछी आरीने तेने गदीने त्या रही तयारे
 स्थनज्जद्र तेपने कुशळ्यार्त्ता पृछी एटने तेमणे वपु के श्रीपके दीक्षा बीधी. याद अमे पर्ना दिवसे तो अपपात राज्यो
 नथी ते मरीने स्वर्गवास पाभ्यो तेथी तेना यातथी मरीने अमे तप करी शासन देरीने घोषायी. तेणी यकाने महादिह-
 नइ गद. यक्षाए त्या रहेवा तीर्थवरने ते बात पड्डी कळतां तेणी त्यांथी जावना तथा विभुक्ति नामे ये अध्ययन लइ आ
 री ११३—११३—११४ परी रीते ते वेत्तो तेने वांदीने सस्थाने गइ याद चीना दिने स्थसन्नद नच युतनो उरेवा
 देवरा गुरु पासे उजो रघो, तनीं गुरए उरेवयु नदि, तयारे तेणे कारण पुठतां गुरए वपु के तु अयोग्य डे ते उपरथी

अथ गाथाङ्कारार्थं—गणिका तथा रथिक उक्तस्य—एक ज्ञान न पुन छे
 —सुकोससद्भिदिति—सुकोशा प्रागेर या कोशानामनयोका—श्राठा जिनशामना-
 तिरूढातिशयश्रवणाना—इति अस्माद्धेतो स्पृहजचपुणान्निरतर प्रशमनी ता इश
 रथिकेन तदाक्षेपार्थं आब्रह्मणी प्रागुक्तप्रसारेण विना तथाच—मिद्वरथगगमिति
 —सिद्धार्थकराशिस्यितसूच्येभ्यु नाट्यमादर्शित, जणित च शिद्विनम्य का ड
 करतति (७)

(मूलगाथा)—सीता सानी कज्ज—दीह तण गज्ज कुचपदराणी, बहायरि-
 यपणामण—अग्रहमि तथा सुसिस्साण ॥ १० ॥

(व्याख्या)—सीया सानी दीह च तण अग्रसन्नय च कुचासोत्तिच्छारे वंनचि
 ण दाणी सीवु व काल न प्रपाद कथां तेषु आ वड मय्यु छे ११५—११६ म्भनन्ते वयु के फनि ण नदि वर,
 न्ना गुरु वयु के जा क तु परी नदि वरे तो षण बीजा ररखे यत्तु वावायाता वरनां तेषण उरगना ११७
 व जणारा व म्भ्यु षण वयु के ते बीजाने नदि जणववा लेवी ते तथा न्नामा पूर्वती टेनी ये यत्तु म्भसलज्जना सांचे
 रिन्त पाण्या ते निपाय वकीतु सम्यु भुम बीजाने जणाराता अरुद्धा आयी इहां गणिका तथा रथिकनी वंनचिनी
 बुद्धि मरुतु जणवी ११५—११६—११७

(कथा समाप्त यद्)

इर गाथाना अङ्कारार्थं वरे छे—गणिका तथा रथिक जे कथामां वर्णव्यो छे ते मळीने एक उदाहरण गणवु,
 नदि के वे गुनारा एवंचे पूर्वे जे कोशा नामे वहेनी छे ते भादा एते जिनरासनमं अतिपाय श्रवणवाडी यद् एहेतु

यु कक्षागार्थेण यत्रचिन्नगरे कस्यचिन्नरनायकस्य पुत्रा अतिसन्मानदानग्रहीतेन द्वे-
 व्यादिषा यद्वा ग्राहिता —सजातश्च काङ्क्षेनातिभूयान् प्रव्यसयोग —दुब्धश्च रा-
 जा इति त व्यपरोषयितु तत्र ज्ञातच पुत्रे —

जनेता चोपेनेता च—यस्तु त्रिया प्रयव्रति, अन्नदाता जयत्राता—पंचेते-
 पितर स्मृता ॥

इति नीतिमहात्म्य द्रुतज्ञतयानुस्मरद्भि —परिज्ञानितच ते (अ ३०००) य-
 धा वेनाप्युपायेन अङ्गतमेवामुमत स्यानास्त्रि सारयाम् ततो यदा जेमिमुमा-
 गतोसौ तदा स्नानशाटिका याचमानस्तेरुक् शुक्यायामपि शाटिकाया यथा शीता
 शिशिरा शाटी—किमुक्त्त भवति—शीतकार्यं ते इति तथा दीर्घं तृण छारान्निमु-

षा ने स्वयमत्रा गुणाने ह्येषा परासती ने जोहने रथिक तेने खेंया माटे आवानी तूर पूर्वे कहेवी रीते कापी अ-
 ने वेगए मसवनी राशि जपर मृद्भ्यो गोडवी तेनी अणीत्रो जपर नाप करी ज्ताव्यु, अने रयु के शीखेवाने
 शु छपर हे

(मृङ्गायानो अर्थ)—उनी साकी तथा हातु याम धनी जणायु के चानतो था अने क्रजने प्रतीप एट-
 ने आनी ज्तागी जणायु के दरसर नाराज हे एम होगवाचार्यने हुतु मारवाया आब्यो न हुतो तेन्वामा तेने ते चीजो
 आरीने जगायु ने रीने पथा मुशिव्योनी वनरकी बुद्धि जणवी १८

उनी साकी—ज्ञातु—याम—अने अत्राडी कुत्र ए छारामा कोइ बजाचार्यो कोइ नगरमा रोइक राजाना डी-
 एमझाने नारे मन्मान तथा मनयी सुग धरने जेग्य वेगरे बजात्रो शीवाकी बाद बबन जना तेना याम यणो पणो

म दरता सूचयति यथा दीर्घं मार्गं प्रतिपद्यसेति तथा क्लेशस्य मगलार्थं स्नानस्य
प्रदग्निगतयोत्तार्यमाणस्य प्राक् तदानीं पडमाणिति प्रतीपरूपतयोत्तारण कृत

—प्रतिभूत सप्रति ते राजकुनमिति क्षेग्याचार्यग्रामन कवाचार्यस्य शाट्या-
दीना मर्षाणं दुर्गता अग्ने अग्न्यापादनेयापि राज्ञा अग्नेऽक्रियमाणे इत्यर्थं —तथा
गीता शास्त्री इत्यादिना प्रमरेण सुशिक्षयाणा दृढतया सुदरातेयासिजान प्राप्ताना
त्रेययी त्रुटि मपन्ता नि मृतश्रासानुपहत एव (७)

(मन्त्राया)—णिन्त्रोदे पोसियजार—पुरम्ण रत्तिसियदगमरणे, उज्ज
ण्णाणियपुजा—गाण नयपोणमुनद्धे ॥ १ ए ॥

(याग्ना)—निन्त्रोदे इति नीन्त्रोदेज्ञाततयोपन्यस्ते—पोसियजारपुरका

तया यथा श्री गणेश धारण नन माग्वन्ती इन्द्रा श्री नै यन्ती नै सन्नाना पुत्रेन मर पत्नी त्वारे तेमये विचार्यु
इ १ ३ आनाग, तनां आनाग, विद्या आनाग, अथ आनाग, तथा अग्नी यानाग ए पात्र गण रहेगाय छे ए
म क्रमगणधी नीन्त्रिं वारय गाद करेत्त नेपथ विचार्यु के वत्त पण उपाये एते एण जोगण्यो आ वेगण्यो र्सांने
वत्त गधी न यत्त तया आग अत नन नागनु वरदु मागु त्वाग न गुंरेनु इत्ता छन्ते तेमये वगु रु साक्षी तो म
दी छ एण्णे इ नन श्नु पादयन्तु छ तथा ग्वाग्वन्ती गाये सांनु प म श्री गूर पु के सांने रत्न रान पद जा, तथा गुर
धग्न मां टाग्वान गधी पात्र उग्वान्नी धारण वाग (इत्ता आराणा वत्तस) नै अर्पदु उग्वो

न वद गुरवु इ ग्वाग्वन्ती गग तर इग्वानो छ आ रीथ नै वग्वान्ते इन्ती गजाए माया न हुतो तेग्ना

इति—कयाचित् प्रोपितजर्तुकया जारो विटो गृहे प्रवेशित.—तस्यच द्युरकर्म नखा-
द्युघ्रणादि कृत कृतेच रचितिसियदगमरणे इति—रात्रौ तृपित सन्नुदक स
न्निहितान्यजलाजावे नीवसद्विद्व पायितस्तद्गुणादेव मरण तस्य सपन्न निश्चि-
ते च तत्र उज्ज्वन वह्निदेवदुद्धिकायास्स्याग कृत

दृष्टश्च लोकैः न गवेपितश्च कथमसौ मृत इति सङ्गाय चाल्लजमानेन तत्र के-
नचित् सप्रतिभेनोक्त—“ नवमेवास्य द्युरकर्म नापितविहित च दृश्यते ” ततो लो-
केनाहूय नापिताना पृष्ट्वा कृता—‘केनास्य द्युरकर्म विहितमिति ?’ कथितचैकेन य-
था मयामुकस्यगेहे इति ज्ञाते च पृष्ट्वा सा किं त्वया मारित इति ? साचाह ‘ तृपि-
तो मया नीत्रोदकमेव केवद्व पायित ” ततो लोकस्य नीत्रस्यितत्र त्विपगोनसोप-

मा शानी वगरे आपनार ते सुशिव्यो कृतङ्गणणी सार शिव्य यथा तेमनी प बुद्धि ते त्रैलोक्यिकी ज्ञाणी. एम ते तुमा-
र जोलमायो त्याधी नीकळी शरण्ये

(मूळगाथानो अर्थ)—ओपितजर्तुका स्त्रीए जारुं शोरुं (दुर्जामत) करामी राते तरस बागतां नेगनु पा-
णी आप्नु तेधी तेनु मरण थतां तेने गहेर फेकाज्ये. वाद दुर्जामने पुठतां सरर पनी के त्रामा निपराया गोनस
सर्पना जेरधी ते मरण पाग्योडे १ए

(व्याख्या)—नीत्रोदकना उदाहरण पेटे ए वात छे के कोइक स्त्रीनो जर्ता परदेश जनां तेषीए कोइ जार-
ने थरसां गोनापी तेनी दुर्जामत वगरे करामी बाद राते तेने तरस लागतां बीशु पाणी नहि मळवाधी तेषीए तेने नेसा-
नु पाणी पीकाराय तेधी ते तरसत्र मरण पाग्योडे तेसी मणे मरण पाग्योडे तेसी मणे मरण पाग्योडे तेसी मणे मरण पाग्योडे

द्विविध प्रस्तुतबुद्धिप्रज्ञागत सपत्ना (४४)

(मूत्रगाथा) — गोपेण ऐशुद्धरण—घोडगजदीहाइरुणामो उवाच, मदमई म-
द्वारे—रिडिति मतिस्स अणुक्का ॥ २० ॥

(व्याख्या) — गोपेति गोणो घोकरुणपडण च रुमयाओ इतिष्ठारपरामर्शो
—तत्र सचिद्धं आमे केनचिन्मदज्ञानेन निर्वाहोपायातरमन्यदज्ञमानेन मित्राद्
याचितेर्नैर्नैर्ददंत गहयितुमारुध्य विरुद्धेच तेनानीयते गावो मित्रम्य सत्रधिनि
गोवटके द्विता

तत्र मित्र तदा जेमिहुमारुध्य तज्या चासो नोपसर्पित दृष्टाश्च तेन ते मा
टके क्षिप्यमाणा — अट्टततयश्च निर्गताश्चरे — एहीतश्च मदज्ञान्यो

नेतु मरुट्टं नोरोना जोवामां आवर्तां तेषु तपत्र करी के ए वेम मरेचो डे ? एण तेनो कइ पत्तो न म-
ज्जो एवामां त्यां वोक्क बुद्धियान् माणसें क्यु के अानी नवीज हज्जाप्त पण्ठी देयाप डे, ते पय्थी होक्केए हज्जाप्ता-
ने चोवावी पृष्ठ्यु के अानी हज्जाप्त बोणे करी छे ? त्यारे एके कयुं के मे एनी हज्जाप्त अमुक डेरण्ये करी छे ते जा-
णी होक्केए ते खीने पृष्ठ्यु केम ते एने मार्या ? ते खी बोक्की के एने तरस दागता मे एने फक्त नेरानुं पाणीज पीत्ता
व्यु छे तेथी होक्केए तथास करलां त्यां विपप चापदीवायो गोत्सस सर्प मळी आव्यो एम मरुचुत बुद्धिना मजास्यी स-
पत्तो पत्तो दागयो

(मूत्रगाथानो अर्थे) — गोणना चारणां पदमत्तिलो इत्याफ करणां पत्थीने त्तेने सत्स जाणी मयीने तेना पर अ-
नुत्तया आवर्तां तेषु एवो त्रप आव्यो के माद्वेक्की आवलो क्हाणवी' घोमवाळ्कनी जीज कयावी अने मंदमत्तिला ठा-

मित्रेण यथा समर्पय मे वज्रीरणि असमर्पयमाणश्च राजकुञ्जे नेतुमारब्धो यावत्तावत्
 प्रतिपयेन तुरगमारूढ एक पुरुष समागच्छति सच कथञ्चिपुरगेण चूमौ पातित प-
 सायमानध तुरग आहत आहतेति तडुमते तेन मदजायेन कशादिना ताभित म-
 निन्मर्मणि मृतश्च तद्गुणदेय—यहीतश्च तुरगस्याभिनाप्यसौ सपन्नश्च गच्छतामेव वि-
 वास उपिताश्च नगरद्विरेष तत्रच केचिन्नटा आवासिता सति—सुखाश्च ते सर्वे-
 पि चिन्तित च तेन रात्रौ मम नास्ति जीवतो मोक्ष इति वर आत्मा उद्ध्व इति प
 रिज्ञाव्य दन्वियमेन नटदृङ्गाबावाया आत्मा उद्ध्वित —साच दन्विर्दुर्वद्या ऊटियेव
 युटिता पतितेन च तेन नटमत्तरको मारित —तेरप्यसौ यहीत नीतिकरणे

पर संक्षेपं उक्तस्यी पश्य २०

व्याख्या—गोण शब्दस्यी द्वार सनार्थुं छे त्या आ वात ए ठे के के कोक्ष गाममा कोक्ष जाग्यहीन माणसे
 पातानो निर्वाह चक्षारवानो कोक्ष बीजो उभाए नहि युज्जता मित्र पसेची येन माणीने खेनवा मान्यु साने तेणे ते वे
 यो ते मित्रता बाधमा दाव्या

ते मित्र ते वखने जमनो हुनो तेथी पनो मदजाय्य शरमना द्वीधि तेना पासे नहि गयो उता तेणे येन जादमा
 पूया ते नेणे आया हुता तो पण तेनी सजाऊ न वीधी पटने तेओ वाहेर नीक्या पटने चोरोए हरण कर्यो त्यारे
 ते। पये पेसा मदजागने पश्यो के माग वेस मने सोप ते ज्यारे नहि सोपी शक्यो त्यारे तेणे तेने दरजासा खेचवा
 मोक्षो पराधी मोषपी पोसा पर चस्तीने कोक्ष माणस आवनो हुता तेने पोसाए कोक्ष रीने जमीन पर पाद्री दीधो
 खने पेटो नाशय पास्तो चरे नेणे चुस करी के “बायो भायो” ते कसवी मज्जायेय कोक्षने खान्यापो कषा उकसको य-

कथित च यथावृत्तं तै—शृष्टोसावमात्येन प्रतिपन्नाश्च मयं ततो मयिणा नि
 प्रतिज्ञोयमिति महतीमनुकपा त प्रति कुर्वता प्रभुतनुद्विप्रज्ञानान्यायो दृष्ट—यथा
 —नेतृछरणमिति—वनीवर्षत्रिपये नेत्रोच्छरण क्षोणनोत्पाट कर्तव्य—अयमभिप्रा-
 य—वनीवर्षस्वामी मदज्ञाप्यश्च ज्ञप्तिं तो मत्रिणा यथा छात्रपि ज्ञानापरमधिनी
 तत एवस्य वनीवर्षान् वाटके प्रक्षिप्यमाणान् दृष्टवतो नेत्रोत्पाटन छिनीयस्य च या-
 चा वनीवर्षान्समर्पितवतो वलीवर्षप्रदानं दत्त इति—धोन्गजीद्वाह इति—अनेन
 घोटको दातव्य , घोटकस्त्रामिनश्च घोटकमहतादृतेति ज्ञप्तिवतो जिह्वाया जे-
 दो दत्त—एतन्मसो उविरिति—जटमहत्तरकश्च तथा कश्चित् दक्षीयनेनात्मानमुद्ध्य
 पतनमस्योपरि करोतु एव मदज्ञायो व्यपहारं प्रवृत्ते—ऋजुरिति कृत्वा मत्रिणोनु-
 र्यां च त तत्र मण पात्र्य तेषी योफाना भावके षण तने पवच्यो तत्रा वरा दरवार तरफ चाज्ञता दया लक्ष्मणां
 रान पक्षी एव तत्र नगना वाहेरन तथा त्वां केन्नाह म उतरैना हुला हुवे तत्रो तथा युद्ध इया त्यारे पञ्चांग्ये
 राने त्रिपणु के त्रीयान् तो मागे वृत्ते नयी मारे मारे फालो मारो सारो छे एम त्रिपरीन त्रैरीना कृत्वाधी फोता
 न वरुनी नाग्यां त्रैरनो र्यां एण ते नेरी नरुडी होशयी ऊ २६ इती पक्षी तेषी ते मन्नाप नरना सन्नाप पर
 पद्यो ण्णं ते सत्पार मण पात्र्या तेषी तेष्ये एण तने पवकीन कचरीणा ज्ञता वया

दृष्ट तेष्यो वनेही हुकीवत रही सज्जवकी ते पश्यी मत्रिण मदज्ञायने पृढा देण ते सग्री कत्रुन गयी
 त्पार आ निर्गच्छि छे एव गण्डीनि गत्रिने देना उपर बहु दया आचवातणे आ मभाणे यय आग्यो त्या वनेनी यावत
 मां आग्यो वाची उरपी एने के ननना धणी अने मदज्ञायने मत्रिण एणु के तणे रने गु ह्येणार छे, मोटे ज्ये रेनो-

॥ • पा सपन्ना नपुनरसौ दन्ति इति (७)

समाप्तानि वैनयिकीबुद्धिज्ञातानि (७)

नम श्रुतदेवतायै

अथ कर्मजाबुद्धिज्ञातानि—कम्मयबुद्धीएविहु—हेरसियमातिया तदञ्जासा,

पगरिस मुनेति तीसे—तत्तो ऐयमि बहु सिद्धी ॥ ११ ॥

(व्याख्या)—कर्मबुद्धावपि ज्ञातान्युच्यते तत्रच—हेरन्नियमाश्या इति—
हेरणियकादय सौवर्णिकप्रभृतय कारन —कमित्याह—तदभ्यासात् सुवर्णघटना-

ने यानामां पुराता जेया तेनी आरयो काठवी जोएए अने बीजाए जवानथी येन सोंपा नहि तेणे बीजा बळद दाइ सों-
पवा एम द्रुम बरवाभा आवे छे, वळी आ मदन्याये घोमो आपवो अने घोमीनो घणी के जेणे योचने मारो मारो पो-
कायु छे तेनो जीज कपवी, तेमज कोइ नटनो मेतर देरीथी पोताने बांधीने एना ऊपर पमो एम इन्नाफ चातता मट
जाप्यने सरस्र जाणी मतिने तेना पर दया दावी, तेथी तेनो द्रुम नहि कया

आ रीते वैनयिकी बुद्धिना दाखना पूरा १५, छे

^१ बुद्धेवताने नमस्कार यात्रो

द्वेषे कर्मवा बुद्धिना उगाहरणो कहे छे —कर्मना बुद्धि फेडे ए उदाहरण छे के सोनारा योगे तेरा अज्ञ्या-
सना योगे पटने के सोनु परुवा योगे कामना वारवार करवामां आवना अज्ञ्यासधी ते बुद्धिनी अतिशय दुश्चारी मेळवे
छे तेथी तेअने सोनु योगे पारखवामां ऊट फलेह मास थाय छे

ते न बात बद्दी बनावे छे—मुबर्खनो बेपारी अ-यासना योगे राते पण सोनाने पारखे छे तेमज खेसुत पण

स्तत् प्रकर्षात्-ज्ञेये सुवर्णादौ क्षुप्रु कटित्येव सिद्धि सुवर्णघट्टर्नादिगोचरा तेषां मं-
पद्यत इति (७)

एतदेव ज्ञापयितुमाह-हेरणिओ हिरण्य-अञ्जासाओ णिसिंवि जाणोड, णमे-
व करिस्सोमिहु-वीयस्वेवाति परिसुद्ध ॥ २२ ॥

(व्याख्या)-हेरणियक हिरण्यपण्यप्रधानो णिण्क् हिरण्य वीनारादिरूपरूप
ए च उच्यते-एमेवत्ति-एमेव-करिस्सोमिहुत्ति-कर्पकोपि वृषीयवचोक नी
जज्ञेपादि बीजज्ञेप मुद्गादिनीजपनरूप-मादिशब्दात् केनशुणान् तुन्यातरतया च
नीजनिपातमुर्ध्वमुगमथोमुग पार्श्वं जानाति-कीदृशमित्याह-परिशुद्धमविसरादि
-अन्यामानादेन

शरती रीत बीज वाक्वा वगत्या वाक्ते जाणीं शक्ते व २२
हेरणियक एत्ते सोलाना वपारी दीनार वगरे सोलाना चक्षुणनो वारंवार कपयत पायत कृतो देवाधी रात प-

ए जाणीं शक्ते व के आ सोतुं छे अने ते आदका वननुं छे एव रीते खेडु माणस एण मा वगरे वाक्वातु वाम तथा
आदि वृष्यी लयाना गुणो तथा सरारे अंतरे बीज वाक्वुं ते तथा अमुक बीज कर्तुं मुल राती वाक्वुं अमुक नी-
या मुत्ते वाक्वुं अने अमुक पद्वण्णुं राती वाक्वुं ते वाक्व अत्रयत्तना अधी चोवरा रीते जाणे छे

अत्रचेदमुदाहरण—क्वचिन्नगरे केनचित् म्हेढाचरिणा मद्भिम्बुचेन कस्य-
चिद्भूषिणपतेर्वेदमनि रात्रौ द्वात्र अष्टपत्रपद्माकार पातित नि कृष्टश्चार्थसार—प्रज्ञाते
च स्वकर्मणा विस्मयमागत स च शुचिशरीर कृतशिष्टलोकोचितनेपथ्यश्च तद्देशमा-
गतो जनवाद श्रोतुमारब्ध—“अहो कुशलता धृष्टता च चौरस्य य इय प्राणसक-
टस्यानग्रविष्टोपि व्युत्पत्तिमान् वर्तते ”

प्रहृष्टश्चासानतीव समागतश्चात्रातरादो कर्पक स्कधारोपितर्कपूर्णोचितकुशीपू-
पादिसामग्रीस्तद्दर्शनार्थं दृष्ट्वाचोचकमेनेन—“कि शिद्धितस्य इ करमिति ” ? शु-
त तस्करेण—रुष्टश्च मनसा—उग्नो गृहीतशस्त्रस्तदनु मार्गेण—गत क्षेत्र—गृह-

इहां आ टदाहरण डे.—रौद्रक नगरां कोद्रक म्नेच्छोना आचाराला चोरे कोद्रक पंशादाला यामां राते
अष्टुळ रमयना आकारे ख तर पानीने कीमती मान्य चोपों प्रज्ञाते पोताना ते रामयी विस्मय पामीने ते न्हाइ थोइ
सारा माणसने योग्य रपनां पहेरीने ते ठेकाणे आरी दोरनेनी बाणी साजळया गांज्यो बोरो कहेया त्याग्या के “ द्या
चोरी कलार चोएनी दुडियारी अने निरस्ता जुयो के जेणे आरा माणना जोरपणां पेशीने पण आरी चतुराइ
नवारी छे ”

तेथी ने खुर राजी थयो एयथा त्या राजे खोयो तथा दांता वगोरे खेदुनो सामान दाने एरु रोदुन ते जोना
आब्यो नेणे जोइने वगु के शीखेनो बरी शके तेषां शु नवाइ छे ? ते बाल चारे सांगती एन्ने गुस्मे थइ हवीगार
उद तेनी पात्रउ पन्थो पन्थो तेना तेतरमां पडेन्थो त्या तेणे तेनो चोन्सो एकनी कष्टु के तेने पार भागीश खेदुने रा-

तामि कश्यु नणितश्च यथा त्वा मारयामि—शुद्ध तेन निमित्त निवेदिनचानेना-
 त्मन्यपत्रानरडात्राजोरूप तत हृषीयनेन—“ मुच कृणु दर्शयामि ते कोलुक ”
 मित्युक्त्वा पट प्रस्तार्य स्वचन सत्य कर्तुं कामेन नीजाना मुष्टिर्धना—नणितश्चो-
 ग्नानि नीचानि जिगामीति वदेत्तापुरुष च तदिद्वानुरूपेण तुष्टश्च चौर इति (७)
 (मृन्गाथा)—गमेय कौत्रिगोविन्दु—पुजा माणाड अत्रिगव मुण्ड, नोण
 शरिगना—तुत्र अन्नासत्रो देव ॥ २३ ॥

ग्यात न्पाठमनष्टीनाठा—मानादि—मान तलुप्रमाण—आदिराब्दात्तन्नि पा
 ॥ २३ ॥ न प त्त वरना यमाराग ग्यातनी वे अरुदा करी वे कारण नयापु त्पारवेदुर त्पु के घोरी वार मने
 इग मरु न ई म्ने कौत्रि ग्यात एव इद्वीने गौत्राने चोत म्ने कच्चा म्ने त्पे गोव्ही ठगामी वीजनी मूत्र मरीने
 पवन कर्त्तु ई १ इत् म्ने ग्यत्र अत्रार्ण शर्ति, क्त्रेग नीचा इष्टो करी शर्तु, क्त्रे तो उचा इष्टो करी शर्तु, क्त्रे तो ५-
 इगना शर्ति अत्र इष्ट म्ने एव एक अत्राग्यत्र अत्रिगे शर्ति म्ने त्परी मरती ममाने वार तनी इच्छा मणायु वेजे ते
 शर्ति अत्राग्य म्ने चर गुनी म्ने शारतग यत्र
 (मृन्गाथा)—गमेय कौत्रिगोविन्दु—पुजा माणाड अत्रिगव मुण्ड, नोण
 (मृन्गाथा)—गमेय कौत्रिगोविन्दु—पुजा माणाड अत्रिगव मुण्ड, नोण

ग्यात न्पाठमनष्टीनाठा—मानादि—मान तलुप्रमाण—आदिराब्दात्तन्नि पा
 ॥ २३ ॥ न प त्त वरना यमाराग ग्यातनी वे अरुदा करी वे कारण नयापु त्पारवेदुर त्पु के घोरी वार मने
 इग मरु न ई म्ने कौत्रि ग्यात एव इद्वीने गौत्राने चोत म्ने कच्चा म्ने त्पे गोव्ही ठगामी वीजनी मूत्र मरीने
 पवन कर्त्तु ई १ इत् म्ने ग्यत्र अत्रार्ण शर्ति, क्त्रेग नीचा इष्टो करी शर्तु, क्त्रे तो उचा इष्टो करी शर्तु, क्त्रे तो ५-
 इगना शर्ति अत्र इष्ट म्ने एव एक अत्राग्यत्र अत्रिगे शर्ति म्ने त्परी मरती ममाने वार तनी इच्छा मणायु वेजे ते
 शर्ति अत्राग्य म्ने चर गुनी म्ने शारतग यत्र
 (मृन्गाथा)—गमेय कौत्रिगोविन्दु—पुजा माणाड अत्रिगव मुण्ड, नोण
 (मृन्गाथा)—गमेय कौत्रिगोविन्दु—पुजा माणाड अत्रिगव मुण्ड, नोण

घटप्रमाण च अविद्वानव्यभिचारि मुणति जानति—तथा नोए इति—दर्व्या परिवेषयन् निपुणसूपकार तुल्य महत्यामपि पत्नी सम अन्यासतो वदाति नपुन हीनमधिक वा

(मूलगाथा)—मोत्तियज्ज्वेवेण—अज्जासा कोलवाडपोतणया, धनसगगा-
रुडस्सवि—एत्तोच्चिय कूवेगे धारा ॥ ३४ ॥

(व्याख्या)—मोत्तिएत्यादि—मौक्तिकोद्धोपेण मुक्ताफडस्योद्धोत्पाटो न अ-
न्यासात् पुन पुन प्रोतनानुशीघ्नरूपात्—कोलवाडपोतणया इति—कोलवाडो शू-
करकथराकेशरूपे प्रोतना प्रवेशन मौक्तिकप्रोतका हि सिद्धतत्क्रिया अधस्तादूर्ध्वमु-
ख क्रोडकेश धृत्वा ऊर्ध्वमुख मौक्तिक द्विपति यथा नून तत्र प्रवेश लभत इति—

ऊपरची तेषु मान एतने केन्वा तांण्णा पशे तेषु माप तथा आदि शब्दयी तेषांधी कपु वणांशे ते यरोवर जाणी ह्ये
डे तेमज कोइ बने पिरस्तार इहियार रसोयो मोटी पातमां णण अन्यासना योग्णी कणु के अधिक नहि पिरसतां
साखुज पिरसे छे

(मूलगाथानो अर्थ)—बळी मोतीने उज्जळीने सूबरना बायमां परोरतु तथा गाभा पर र्होने नयमां सर-
खी धार पाववी ते णण ए बुद्धियीन थाप छे. ३४

मोतीने ऊचे उज्जळीने अन्यासस्थी एतले बार बार परोववाथी शुबरना गनाना बळमां परोवतुं जे माटे मोती
ने परोवनाली एवी ह्यपोटी पनी रहे छे के नीचे बळ ऊटु परीने ऊपरची मोती एवी रीते नावी छे डे के खोब
र ते तेषांन पेशी जाय छे

तथा धृतशकटारूढस्यापि निपुणवर्णिज — एतौश्चियत्ति — अतानान्यासादेन कुत्रये धारा धृतमवाहुरूपा उपरिधान्युकन्तोपि निपत्तति (६४)

(मूनगाथा) — पयए तरफचागा — सस्म तरण नहमि या एय, तुणाए पुण तुणह — मणायसधिडुयचेव ॥ २५ ॥

(व्याख्या) — प्वनक्स्तारकस्तरकाफत्यागाद्वहीसरोररादिजलेषु सम्यक् स्व-यमटुयन्नेव तरण प्वनन नजसि वा आकाशे तत्तरणमन्यासात् करोति तुद्भाग इ-

ज्ञातसधि परेनुपेवद्वितीनत्ताग हुत चेव शीघ्रमेवाच्यासात् करोति यथा जगन्ता स्स्थयमद्वयम् —

वही मीनो गाहा एर चंहेन्न हुण्णिपार वेपारी एज अच्यासना योगे दवाम् मीनी धार ठारएवी पूंके छे तो प ए न नर्पाय पद छ

(मूळगाण, नी व्याख्या) — तारुओ तवानु सापन पफ्तु मेनी बरोर तरे छे ते अपया आकाशार्पा ते छे व न तथा मध माहय नहि पदे ने रीने ज ए यार्सा वरु तुणु ते रुर्वजा बुद्धि छे गाए तरवाना मापन ठोकी नही तथा तयार्सा तुब्ब्या एण बरोर तरे छे अण आकाशार्पा पण महावरा थी उको शक छ नेमज मूनु सायनार बीजाने मीयानी तवर नहि पदे तेम ज ए वरुने ज्वारसा साथी छे छे जेप क जगत्तानना गार्पनुं एव सम्युं हर्तुं ते एप बाव छे के जगत्तान महावीर मक्खरीदान दइ दीकित यथा ते गवने छे तपना मक्खर

१ शक्ति—परायण महावीर, शौर्याशिरसाशुर् अग्निप्रणमन्तराशमो श-
 च। शक्तिप्रपञ्चरजदेवदुष्ट ह्यप्रमासादुषट्किं दौ पिदुन राजनामानिहितगृहस्य-
 पथापतिराशापयमाण यः पितृयोगेन स्या तमो रेखुत्याऽं रदो माधिकमयोते च
 मुग्धरा। राजादीपयन्तुः प्रवृत्तयुद्धैः प्रवृत्तयुद्धैः नमो वगत छिन्नीयमठं गृहीत च तत्तेने-
 च यत्प्रभाय गामोपाय समर्पित च खम्भितप्रमपि तुदययस्य तेनापि तथा नदज्ञान
 मरिग शक्ति यथा उपप्रभायनयद्दक्षमाणमूर्त्त सत्त्वमिति (७)

(मृगाय)—यद्द्वन्द्वरहाद्द्वाम्बु-यमाण्याण महेन्द्रदम्भत, णमेव पुद्गयमि-
 वि—महासादरे मुणेष्वन ॥ २६ ॥

(व्याख्या)—यद्दुके रजमारस्य रथादिवाक्यप्रमाणज्ञात रथादे रथशिविका-

देशशर शेरुनेको पुरुष्मान्दी कहेर विद्वरया ज्ञायया द्वेषे दानना सत्वेने गेद्वानर रद्वेन एक नामण त्र
 यमुरस्यना। तद्वन्द्वेने निशपथे द्वेषे ज्ञयान्ते मूरु नार्थना की ण्य च नेमये नेने देवदुष्ट्यमाधी पानी श्रद्धो आ-
 यो पार कक ज्ञोणे एक र्थ लनीन यथा पुर्यायटुम नतीया कजे ज्ञोना प्रामना नगमी येयात्ने चीजे ताण
 म्भीन पारकी रदो रेखु त्ते यथा ने ज्ञाद्यणे नत्ने वे कथा संद तुपागने आय्या नेये ने रोदने मासनी मरर
 य रदो नेम ग म्भीनेदी ने मस्व न्त्तणे व्यङ्ग म्भ यथा

(व्याख्या अर्थ)—पुनर वे रथादिनाय धावकात्तु धार अणान्दी ज्ञाणं छे ने तथा ने नगर कलामा नैनी
 इदित्वा। नेद्वेष रे । ने अस्व र्थोन्तु त्त्तना म्भसनी जे मरर होय जे ने पण प बुद्धि ज्ञापनी २६

१ व्याख्या—यद्दुकिं रजमारस्य रथादिवाक्यप्रमाणज्ञात रथादे रथशिविका-

यानियुग्यादेयटयितुमारन्धस्य दारुणाणां वाच्यानां वयत्राणां यत् प्रमाण तस्या-
पि ज्ञान प्रपद्यतएव—अथनेति पद्मातरे इह रथादौ निर्माणयिषे यद्वदन निर्माण-
शीघ्रतरमस्यासादनति—एमेवति—एवमेव प्रायुक्तरेण्यरादित्त्वं वृत्तिरेति—
कादिके सापादिदत्ते सापमुद्गगोभूमचूर्णादौ पमत्तुमिदञ्चोजनयाग्ये प्रमाणज्ञान द-
इत्य ना मुक्तिणव्य प्रस्तुतबुद्धिप्रचायादिति (७)

चिय—वाणातो विव्वल्लिहण च ॥ २७ ॥
(व्याख्या)—घटकार कुञ्जकार पृथ्वीमान घटादिद्वचनृतमृत्पिकप्रमाण जा-
नाति यथा द्यता मृत्पिकेन इय घटादिनिष्यति नि परस्यते—तयेति समुच्चये—स-

भापनु हान भाप उ त अथवा तां ए १५ इगरे इवदीभा तैयार ररी आपानी हुनियां ररु डे ने एण अयाकपी
भाप ए तमज पुर्न वहेना मानारा वापनी भापक वयेइ एण अरुद मा के पडला नो पररा गेण नाननया क
हा प्रमाणनु गा न जाणी शके ते तथा जे सपना मारे ते ते एण आ उद्विनो ज मत्तार उ
मृत्गायानो अर्थ—उच्चार वसाभा कर्त्तनी मापी नोइते ते जाणी शके डे तमज चत्र उपरधी गराक मृत्
यना नन उतारी स छ त्पज नीतारा एण उपरधी चित्रनु भाप करी ख्ये छे तथा विद एत्ते जीला नरा माणितु (न
चिरी शर छ त एण आ उद्विन छ ७७
(व्याख्या)—उच्चार वसा इरेना मां माणितु भाप जाणे ते एत्ते के आरती माजीमधी असुक वसा मत्ते

क्कुत्तार इति—शुष्कस्य मनाक् शोषमुपागतस्य ज्ञानस्य घटादेरुत्तारण चक्राद्वर-
 केण पृथक्करणमित्येतत्—सथराहति—शीघ्र करोति—चित्तकरेणैवचियत्ति—चित्र
 करोष्येवमेव वर्णात् वर्णकाञ्चन्तपीतादे सकाशात् प्रमाण लेखनीयचित्रस्य बुद्ध्यते,
 विष्णुस्य जीवतद्धव गजतुरगमादेर्जीवस्य लेखन करोति प्रकृतबुद्धिमाहात्म्यात् च
 समुच्चये (४)

समाप्तानि कर्मजाया मतेर्ज्ञानानि, (४)

वनी गन्ते ते जाणे छे, तेमन चाक पथी घना वगेरे वासण जराक सूक्ष्म थया के दोसथी कपी ऊट द्या हरी ह्ये-
 छे बळी एज रीते चित्तारे पण राता पीळ्य वगेरे रा ऊपरथी आनेखयाना चिन्तु माप ज्ञाणी शके छे, अने विष्णु ए-
 टने जीवता होय तेवा हाथी योना वगेरे प्राणित्रोला चित्र वाढे छे ते पण आ बुद्धिनोज मजाप छे

आ रीते कर्मजा बुद्धिना उदाहरणो समाप्त थया छे

